

पुस्तक-प्राप्ति-स्थानः—

(१) केशरलाल बख्शी

मंत्री-श्री नानूलाल स्मारक ग्रंथमाला

“बख्शी भवन” न्यू कालोनी, जयपुर

(२) वीर पुस्तक भण्डार

श्री वीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर



मुद्रक—

भँवरलाल जैन

श्री वीर प्रेस, जयपुर

आदरणीय श्री पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ द्वारा विख्यात  
 जैन कवि बनारसीदासजी के बनारसीविलास के विषय में ज्ञात  
 हुआ कि यह संग्रह अब प्राप्य नहीं है और इसके प्रकाशन की  
 अत्यन्त आवश्यकता है। मैं इन्हें कवीर की कोटि का कवि  
 मानता हूँ। इनकी आध्यात्मिक कविताओं से सचमुच मनुष्य को  
 बड़ी शांति मिलती है। इनका जैनों में ही नहीं अजैनों में भी  
 प्रचार होने की आवश्यकता है। कवि किसी धर्म देश या जाति के  
 संकुचित दायरे में आवद्ध नहीं किये जा सकते। वे सबके  
 लिए और सभी के हैं। स्वर्गीय मास्टर साहिब नानूलालजी को  
 इनकी आध्यात्मिक रचनायें बहुत प्रिय थीं। इस ग्रंथ के अबतक  
 कई संस्करण निकल जाने चाहिए थे। पर यह हमारा दुर्भाग्य है  
 कि इस महान कवि की रचनाओं के पठन पाठन का प्रचार औरों  
 की कौन कहे जैन समाज में भी जितना होना चाहिए उतना  
 नहीं है।

जब पुस्तक ही प्राप्य न हो तब पठन पाठन का प्रचार कैसे  
 हो ? इस बाधा को दूर करने लिए इस संग्रह को श्री मास्टर  
 नानूलाल स्मारक-कोष की ओर से प्रकाशित करने की अनुमति  
 दी गई। इसका प्रचार कितना उपयोगी और सुन्दर हुआ है,

इसका निर्णय पाठक ही कर सकते हैं। मैं इसके लिए पंडितजी साहेब और दोनों संपादकों को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इन्होंने सेवाभाव से अपना अमूल्य समय देकर इस पुनीत कार्य को किया। मुझे आशा है आध्यात्मिक प्रेमी पाठक इससे अवश्य लाभ उठावेंगे।

प्रचार की दृष्टि से ही इस पुस्तक का मूल्य लागत मात्र ही रखा गया है। यदि पाठकों ने इसे अपनाया तो ग्रंथमाला शीघ्र ही अन्य उपयोगी ग्रंथ लागत मात्र खर्च में निकालने में समर्थ हो सकेंगे। प्रफ संशोधनादि में जो अशुद्धियाँ रह गई हैं उनके लिए शुद्धि पत्र लगाया है। पाठक उससे पुस्तक को ठीक करके पढ़ने का कष्ट करें, ऐसी प्रार्थना है।

केशरलाल वरुशी

मंत्री

श्री-नानुलाल स्मारक-ग्रंथमाला

वरुशी भवन

न्यू कालोनी, जयपुर।

## सम्पादकीय

कवि बनारसीदासजी का जैन हिन्दी कवियों में सर्वोपरि स्थान है। बनारसीविलास-कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह एक दीर्घ काल से अप्राप्य था और उसके प्रकाशन की अत्यन्त आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को आदरणीय पं० चैनसुखदास जी साहव ने 'श्री नानूलाल स्मारक ग्रंथमाला' के मंत्री श्रीमान् बख्शी केशरलालजी साहव के सामने रखा और उन्होंने उक्त ग्रन्थ-माला की ओर से इसका प्रकाशन कराना स्वीकार कर लिया। अनेक कारणों से हम इस प्रकाशन को हमारी इच्छानुसार, सर्वांग सुन्दर नहीं बना सके, फिर भी जहां तक हम से हो सका है इसे उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है।

“मोहविवेक युद्ध कथा” के नाम से जयपुर के बड़े मन्दिर के शास्त्र भण्डार में कवि बनारसीदासजी की एक रचना और मिली है। इस रचना के सब मिलाकर ११८ पद्य हैं। रचना दोहे और चौपाई छन्दों में निबद्ध है। यह एक रूपक है जिसमें विवेक नायक और मोह प्रतिनायक है। मोह और विवेक में आपस में युद्ध होता है जिसमें विवेक की जीत होती है। कवि ने बड़े ही सुन्दर एवं सरल शब्दों में विषय का वर्णन किया है। किन्तु इस रचना के विषय में श्रद्धेय प्रेमी जी का कहना है कि यह किसी अन्य बनारसीदासजी की है जब कि श्री अग्रचन्द्रजी नाहटा के मता-

नुसार प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदासजी की ही रचना है। हमारा विचार इसे पहले इस संग्रह में जोड़ देने का था क्योंकि 'नाटक समयसार' 'अर्थ कथानक' आदि की तरह यह बड़ी रचना नहीं है जो इस संग्रह के विस्तार को बढ़ा सके, पर अभी इसे विवादास्पद समझकर इस विज्ञापन में जोड़ना उचित नहीं समझा।

इसके सम्पादन में हमें श्रेष्ठ पंडित साहब का काफी सहारा मिला है। संग्रह के कठिन शब्दों के अर्थ भी उन्हीं के लिखे हुये हैं। इसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। ग्रंथमाला के सन्धी महोदय को भी अनेक धन्यवाद है जिन्होंने इसे प्रकाशित कराने की उदारता दिखलाकर साहित्य सेवा के पुण्य कार्यमें अपना हाथ बढ़ाया। श्रीमान् पं० अनूपचन्द्रजी न्यायतीर्थ एवं पं० सुरजानी चन्द्रजी न्यायतीर्थ को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने पाठ भेद आदि कार्यों में काफी सहयोग दिया है।

भैरवलाल जैन न्यायतीर्थ

कस्तूरचंद कासलीवाल एम. ए. शास्त्री



साहित्य के प्रमुख विद्वान् डा० रामचन्द्र शुक्ल ने यद्यपि १० वीं शताब्दी से लेकर १४ वीं शताब्दी तक को हिन्दी साहित्य का आदि काल माना है, किन्तु डा० हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने जो वर्तमान में हिन्दी के उच्चकोटि के विद्वानों में से हैं, शुक्लजी की इस मान्यता का अपने 'हिन्दी साहित्य के आदिकाल' में खंडन किया है। उनका मत है कि हिन्दी भाषा १० वीं शताब्दी से भी पूर्व प्रचलित थी और उसका रूप अपभ्रंश भाषा था। इसलिये अपभ्रंश को उन्होंने एवं हिन्दी के महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिन्दी कहकर सम्बोधित किया है। यही नहीं, किन्तु महाकवि स्वयम्भू को जिन्होंने आठवीं शताब्दी में अपभ्रंश में पउमचरिय ( जैन रामायण ), हरिवंश पुराण आदि महाकाव्यों की रचना की थी, हिन्दी भाषा का आदि कवि कहा है। क्योंकि अधिकांश अपभ्रंश साहित्य जैनाचार्यों द्वारा लिखा हुआ है, इसलिये इसी आधार पर उसे हिन्दी भाषा के काल से अलग कर देना अथवा हिन्दी का काल विभाग करते समय उसका कोई ध्यान नहीं रखना हिन्दी साहित्य के इतिहास को असत्य रूप में उपस्थित करना है। माननीय हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने भी अपनी "हिन्दी साहित्य का आदिकाल" पुस्तक में इसी सम्बन्ध में अपने निम्न उद्गार प्रकट किये हैं—“इधर जैन-अपभ्रंश-चरित काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह सिर्फ धार्मिक सम्प्रदाय की मुहर लगाने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है। स्वयम्भू, चतुर्मुख, पुष्पदन्त और वनपाल जैसे कवि केवल जैन

होने के कारण ही काव्यक्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। वस्तुतः लौकिक निजन्धरी कहानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की चिराचरित प्रथा है। कभी कभी ये कहानियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ घुलादी जाती हैं। यह तो न जैनों की निजी विशेषता है और न सूफियों की। हमारे साहित्य के इतिहास में एक गलत और वे-बुनियाद बात यह चल पड़ी है कि लौकिक प्रेम-कथानकों को आश्रय करके धर्म-भावनाओं को उपदेश देने का कार्य सूफ़ी कवियों ने आरम्भ किया था। बौद्धों, ब्राह्मणों और जैनों के अनेक आचार्यों ने नैतिक और धार्मिक उपदेश देने के लिये लोक-कथानकों का आश्रय लिया था। भारतीय संतों की यह परम्परा परमहंस राम-चृष्णदेव तक अविच्छिन्न भाव से चली आई है। केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देख कर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगे तो हमें आदिकाव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी-रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कवीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दण्डवत् करके विदा कर देना होगा” इस प्रकार हिन्दी भाषा भारत में ८ वीं शताब्दी अथवा इससे भी पूर्व विद्यमान थी एवं यहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा थी।

अब एक प्रश्न हमारे सामने पैदा होता है कि ब्राह्मण विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा में क्यों नहीं रचनायें लिखीं जबकि जैनाचार्यों ने इस भाषा में विपुल साहित्य का निर्माण किया। जैनाचार्यों ने ही नहीं किन्तु मुस्लिम कवि अब्दुर रहमान ने भी 'सन्देशरासक' नामक एक प्रबन्ध काव्य की रचना की जो शृंगार रस का उत्तम काव्य माना जाता है। हमारी दृष्टि से तो इसका प्रमुख कारण यही था कि वैदिक धर्म में ज्ञान साधना की कुञ्जी सदा ही एक वर्ग विशेष के हाथ में रही है तथा क्योंकि संस्कृत ही एक मात्र देव भाषा कही जाती थी और उसी पर उनका पूर्ण आधिपत्य था इसलिये उन्होंने संस्कृत भाषा को छोड़ कर अन्य भाषा में लिखना पसन्द ही नहीं किया। क्योंकि अपभ्रंश जन साधारण की भाषा थी इसलिये उन्होंने इस भाषा में साहित्य निर्माण करना उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, उसे स्त्रियों एवं नीच जाति के पुरुषों द्वारा उच्चारण करवाया। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमें संस्कृत नाटकों में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अपभ्रंश साहित्य अधिकांश में जैनाचार्यों द्वारा ही लिखा हुआ है, इसलिये उसे हिन्दी साहित्य के इतिहास में कोई स्थान नहीं देना अपभ्रंश एवं हिन्दी साहित्य के प्रति अन्याय करना है। लेकिन अब हिन्दी साहित्य के विद्वानों का ध्यान इस भाषा के साहित्य की ओर जाने लगा है तथा उसे इतिहास में भी उचित स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इसलिये ऐसी आशा की जाती है कि अगले दस वर्ष पश्चात् इसे हिन्दी साहित्य



मैं उचित स्थान मिल ही जावेगा । लेकिन इसमें कुछ गलती जैनों की ओर से भी हुई । उन्होंने अपने साहित्य को प्रकाश में लाने की चेष्टा नहीं की । इसलिये जो कुछ साहित्य यहाँ के विद्वानों को मिला उसी के आधार पर उन्होंने हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा । और जब एक वार कोई अधिकारी विद्वान किसी तथ्य को उपस्थित कर देता है तो वह जल्दी से याँ ही नहीं बदला जा सकता और आगे होने वाले उसी को सही मानकर चलने लगते हैं ।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य का जन्म आठवीं शताब्दी में हो गया था और इसी के आधार पर उसका काल विभाग किया जा रहा है । प्रस्तुत प्रस्तावना में, क्योंकि जैन हिन्दी साहित्य के इतिहास को ही संक्षिप्त रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है इसीलिये, जैन हिन्दी साहित्य के ही निम्न काल विभाग करके उसका आगे वर्णन किया जावेगा ।

अपभ्रंशकाल—	८ वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक
अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी काल	१३ वीं १४ वीं शताब्दी
हिन्दी का प्रारम्भिक काल	१५ वीं १६ वीं शताब्दी
हिन्दी का मध्य काल	१७ वीं से १९ वीं शताब्दी
वर्तमान काल	२० वीं शताब्दी

अपभ्रंश काल—८ वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक:—

८ वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक के समय को अपभ्रंश काल कहा जा सकता है । हिन्दी इस युग में हमारे सामने

अपभ्रंश के रूप में विद्यमान थी। हिन्दी का जो वर्तमान रूप है वह बहुत कुछ अंश में इसी काल को देन है। अथवा हिन्दी भाषा को वर्तमान रूप प्राप्त करने से पहिले इस युग को पार करना पडा था।

८ वीं शताब्दी से लेकर १२ वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा के अनेक महाकवि हुये जिन्होंने अपनी लेखनी से इस भाषा में सर्वोत्तम रचनाओं का निर्माण किया। ८ वीं शताब्दी में होने वाले स्वयम्भू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। इन्होंने पउमचरिय ( पद्मपुराण ) तथा रिट्टणेमिचरिउ ( हरिवशपुराण ) ये दो महाकाव्य एवं पंचमीचरिउ नामक प्रबन्ध-काव्यों की रचना की थी। भाव, भाषा एवं शैली जो स्वयम्भू ने इन काव्यों में अपनायी थी वही आगे चल कर हमें हिन्दी काव्यों में मिलती है। हिन्दी के महाकाव्य रामचरितमानस एवं स्वयम्भू के पउमचरिय ( जैन रामायण ) में कई स्थानों में साम्य है। इसीलिये वर्तमान में हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों ने स्वयम्भू को हिन्दी का आदि कवि कहा है। स्वयम्भू से भी पूर्व ६ वीं शताब्दी में मुनि योगीन्दु और हुये थे जिन्होंने योगसार नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की थी। योगीन्दु की भाषा बहुत ही सरल एवं स्पष्ट है। हिन्दी भाषा में जो आगे चल कर दोहा छन्द अत्यधिक रूप में प्रयोग किया गया वह सब अपभ्रंश की ही देन है। योगीन्दु का एक दोहा देखिये—

अथ सरुवई जो रमई छडवि सभ ववहारू ।

सो सम्माइट्टी हवई लहु पावई भव पाक ॥

स्वयम्भू के पश्चात् १० वीं शताब्दी में होने वाले कवियों में देवसेन, पुष्पदन्त, पद्मकीर्त्ति, रामसिंह धनपाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें देवसेन ने दर्शनसार, तत्त्वसार और सावयधम्म' दोहा, पुष्पदन्त ने महापुराण, जसहरचरिउ एव गाय-कुमारचरिउ, पद्मकीर्त्ति ने पासणाहचरिउ, मुनि रामसिंह ने दोहा पाहुड और धनपाल ने भविसयत्तकहा नामक काव्यों की रचना की थी। वैसे तो इस शताब्दी में होने वाले सभी कवियों की रचनायें उत्कृष्ट हैं किन्तु महाकवि पुष्पदन्त इस युग के सबसे उत्कृष्ट आचार्य हुये जिन्होंने अपनी रचनाओं के बल पर अपभ्रंश भाषा के साहित्य को उच्च स्थान प्राप्त करवाया। इनकी भाव, भाषा एवं शैली सभी उल्लेखनीय है। अपभ्रंश के स्वयम्भू और पुष्पदन्त को हम हिन्दी के तुलसी एवं सूरदास को कोटि में विठा सकते हैं लेकिन दुःख की बात तो यह है कि ऐसे महाकवियों के साहित्य को भी हिन्दी साहित्य में कोई उचित स्थान नहीं मिला।

पुष्पदन्त एवं सूरदास की कृष्ण बाललीला वर्णन में कितना साग्य है इसका हम एक उदाहरण पाठको के सामने उपस्थित करते हैं। दोनों कवियों के द्वारा किये हुये वर्णन को पढ़ कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी भाव, भाषा एवं शैली में कितनी समता है—

रंगेतेण रमत रमते मंघउ, धरिउ भमतु अणते ।  
 मंदीरउ तोडिवि आवट्टिउ, अद्ध विरोलिउ दहिउ' पलोहिउ ॥  
 का वि गोवि गोविंदहु लग्गी, एण महारी भयणि मग्गी ।  
 एयहि मोल्लु देउ आलिंणणु, खं तो मा मेत्तहु में प्रंगणु ॥

चौरी करत कान्ह घर पाए ।

निसि वासर मोहि बहुत सत्तायो, अच हरि हाथहि आये ।  
 माखन दधि मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीन्ही ।  
 अच तो देख परौ हो ललना, तुम्है भल्लै मैं चीन्ही ।  
 दोउ भुज पकरि क्यौ कहै जैहो, माखन लेउ मंगाइ ।  
 तेही सो मैं नेकु न खायो, सखा गये सब खाइ ।  
 मुख तन चित्तै विहँसि हरि दीन्हौ, रिस तब गई बुभाई ।  
 लयौ श्याम उर लाइ ग्वालिनी, सूरदास बलि जाइ । महाकवि सूरदास ॥

११ वी एवं १२ वी शताब्दी में होने वाले कवियों में कनकामर, जिनदत्तसूरि, वीर, श्रीचन्द्र, यश.कीर्त्ति और नयनन्दि उल्लेखनीय हैं । इनमें कनकामर ने करकण्डुचरिय, जिनदत्तसूरि ने चर्चरी, उपदेशरसायन रास एव कालस्वरूप कुलक, वीर ने जग्गू-सामीचरिउ, नयनन्दि ने सुदंसणचरिउ, श्रीचन्द्र ने रत्नकरण्ड शास्त्र, एवं कथाकोश, श्रीधर ने पासणाहचरिउ, भविसयत्तचरिउ एवं मुकुमालचरिउ आदि उल्लेखनीय रचनाये हैं । महाकवि धवल भी इसी शताब्दी में हुये जिन्होंने अपनी रचनाओं को बहुत ही उत्तम रूप से उपस्थित किया । नयनन्दि के सुदंसणचरिउ भाषा

ही अलंकारमय है। श्लेष-और उपमा कवि के अत्यधिक प्रिय अलंकार थे जिनका इस काव्य में स्थान २ पर उपयोग किया गया है। स्वयं वीर ने अपने काव्य जम्बूस्वामी चरिउ को वीर एवं शृंगार रसात्मक कहा है।

### अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी काल—

१३वीं १४वीं शताब्दी को हम अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी काल कह सकते हैं। यद्यपि इन दो शताब्दियों में अपभ्रंश में अत्यधिक साहित्य की रचना हुई किन्तु उसके साथ अपभ्रंशमय हिन्दी रचनाये भी हमारे सामने आयीं। अपभ्रंश भाषा के कवियों में महाकवि अमरकीर्ति, पं० लावू, हरिभद्र, धाहिल, नरसेन, सिंह आदि उल्लेखनीय है। इनमें अमरकीर्ति ने छक्कम्मोवएस, लावू ने जिणदत्तचरिय, हरिभद्र ने गोमिणाहचरिय, धाहिल ने पउमसिरिचरिउ, नरसेन ने वड्ढमाणकहा और सिरिपाल्लचरिउ तथा सिंह ने पज्जुएणकहा की रचना की थी। महाकवि अमरकीर्ति का छक्कम्मोवएस बहुत ही सुन्दर एवं सरल काव्य है। इस काव्य में सामान्य पुरुष के जीवन का चित्रण किया गया है। धाहिल का पउमसिरिचरिउ भी सुन्दर काव्य है जो मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित भी हो चुका है।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि इस काल में जैन विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषा में भी रचनायें लिखा जाना प्रारम्भ हो गया था। इसकाल की रची हुई हिन्दी रचनाओं में श्री धर्मसूरि

का जम्बूस्वामी रासा, विनयचन्द्रसूरि की नेमिनाथचउपई, अम्बदेव-  
कृत संघपतिसमरा रास, और घेलह कृत चउवीसी गीत  
उल्लेखनीय रचनाये हैं। इनमें से प्रथम तीन रचनाओं की भाषा  
को राजस्थानी भी बतलाया जाता है किन्तु फिर भी उन्हें प्राचीन  
हिन्दी रचनाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्योंकि प्राचीन  
हिन्दी और प्राचीन राजस्थानी में कोई विशेष अन्तर नहीं है।  
जम्बूस्वामीरासा का एक उद्धरण देखिये:—

जंजूरीवि सिरिभरह खित्ति तिहिं नयर पहाणउ ।

राजगृह नामेण नयर पहुवी वक्खाणउ ।

राज करइ सेणिय नरिंद नर वरहँ उ सारो ।

तासु तणह ( अति ) बुद्धिवत मति अमयकुमारो ॥

चउवीसी गीत भी प्राचीन हिन्दी की एक सुन्दर रचना है जो  
अभी जयपुर के बड़े मन्दिर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध हुई है।  
यह संवत् १३७१ की रचना है तथा घेलह इसका कवि है। इसमें  
चौबीस तीर्थकरों की स्तुति की गई है। आदिनाथ स्वामी के स्तवन  
का एक पद देखिये—

णामि नरिंदु नरेसरु मरुदेवी सुकलता ।

तसु उरि रिसहु उवणो अवध वंदाहि कता ॥

पुणि कहि हउं आउस पमाणु जिहि जेती सखा ।

आदिनाथ जिण कहिय आउ पुञ्च चउरासी लक्खा ॥

नृपम तासु तल लंछणु अति सरूपु सुरतार ।

गौमुख जक्खु चक्केसरु धणुसइ पथ्थ सेरीरुं॥  
 षड पयाग तलै दिच्चा बोलइ, वक्खु निरुत्तु ।  
 कैलामह गिरिवर चडेवि निव्वाण पहु तु ॥

## हिन्दी का प्रारम्भिक काल—

१५ वीं और १६ वीं शताब्दी को हम हिन्दी का प्रारम्भिक काल कह सकते हैं। इन दो शताब्दियों में संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के कवियों का ध्यान भी हिन्दी भाषा की ओर जाने लगा तथा उन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश के साथ साथ हिन्दी में रचना लिखना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे आचार्यों में भट्टारक सकलकीर्ति और ब्रह्म जिनदास का नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों ही संस्कृत के काफी ऊंचे विद्वान थे क्योंकि अकेले सकलकीर्ति ने संस्कृत में आदिपुराण, पुराणसारसंग्रह, धन्यकुमार चरित्र, यशोधर चरित्र, वर्द्धमानपुराण आदि ग्रन्थों की रचना की थी इसी प्रकार ब्रह्म जिनदास ने भी संस्कृत में १२ से अधिक रचनाएँ लिखी हैं जिनमें हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, जम्बूस्वामी चरित्र, हनुमच्चरित्र, व्रतकथा कोश आदि उल्लेखनीय हैं। भट्टारक सकलकीर्ति की हिन्दी रचनाओं में रामोकारफलगीत एवं आराधनासार अभी तक उपलब्ध हुये हैं। यद्यपि दोनों ही विस्तृत रचनाएँ नहीं हैं किन्तु हिन्दी भाषा के विकास जानने के लिये ये कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

ब्रह्म जिनदास की हिन्दी रचनाओं पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। इनकी हिन्दी रचनाओं में आदिनाथ

पुराण, श्रेणिकचरित्र, सम्यक्त्वरस, यशोधररस, धनपालरस, व्रतकथाकोष आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

इसी शताब्दी में श्वेताम्बर साधु श्री विनयप्रभ ने गौतमरसा की रचना संवत् १४१२ में की थी तथा जिनउदयगुरु के शिष्य और ठक्कर मालहे के पुत्र विद्धणू ने ज्ञानपंचमी चउपई की रचना संवत् १४२३ में समाप्त की थी । प्रथम रचना में गौतम स्वामी का चरित्र चित्रण किया गया है जिसका वर्णन काफी सुन्दर हुआ है । दूसरी रचना में श्रुतपञ्चमी की कथा का वर्णन किया गया है । गौतमस्वामी रसा के एक पद्य का रसास्वादन कीजिये जिसमें उनकी सुन्दरता का वर्णन किया गया है—

जिय सहकारइ कोयलि टहूकउ, जिम कुसर मह वनि परिमत वहकउं ।

जिम चंदन सो गंधनिधि, जिमि गंगाजल लहरे लहकइ ।

जिय कण्याचल तेजिहिं भलकिइ, तिम गोयम सोमा गनिधो ॥ ३६ ॥

१६ वीं शताब्दी में जैनों ने हिन्दी भाषा में काफी साहित्य लिखा । कुछ उच्च श्रेणी के भी कवि हुए । इन कवियों में संवेग-सुन्दर, कक्कसूरि, वीहल्ल, छीहल, धर्मदास, ठक्कुरसी के नाम उल्लेखनीय हैं । संवेगसुन्दर ने सारसीखामणारस की संवत् १५४८ में रचना की थी । इसी प्रकार श्री कक्कसूरि ने संवत् १५७४ में धन्नाचउपई की रचना समाप्त की । वीहल्ल कविने १५७५ में पञ्चसहेली की रचना की तथा छीहल कवि ने १५८४ में वावनी को समाप्त किया । इसी समय धर्मदास ने भी धर्मोपदेशश्रावकाचार



को संवत् १५७८ में समाप्त किया। रचना की भाषा बड़ी सुन्दर है। इसमें जैन धर्म के सिद्धान्तों को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया गया है। इस शताब्दी की यह सबसे बड़ी रचना है। इसका एक उदाहरण देखिये जिसमें कवि ने ग्रन्थ समाप्ति का समय दिया है—

पन्द्रहसै अडहत्तरि वरिसु, संवच्छर कुसलह कन सरसु ।

निर्मल वैसाखी अखतीज, बुधवार गुनियहु जानीज ।

दा दिन पूरो कियो यहु ग्रंथ, निर्मल धर्म मनौ जो पथ ।

मंगल कर अरु विघनि हरुतु परम सुख भविमन कहु काणु ।

इसी समय श्री चतुरुमल कवि ने भो नेमीश्वर गीत की रचना की थी। यह रचना संवत् १५७१ की है तथा इसमें नेमिनाथ स्वामी के विवाह समय की घटना से लेकर राजुल के दीक्षा समय का वर्णन किया गया है।

## मध्य काल

१७ वीं १८ वीं और १९ वीं शताब्दी जैन हिन्दी साहित्य के लिये ही नहीं किन्तु हिन्दी साहित्य के लिये भी सर्वोत्कृष्ट काल रहा। इन तीन शताब्दियों में हिन्दी साहित्य की चहुँमुखी उन्नति हुई। महाकवि तुलसीदास, बनारसीदास, विहारी, रसखान, भूषण आदि जितने भी उच्च कवि हुये वे सब इन्हीं तीन शताब्दियों में हुये। इन कवियों ने हिन्दी साहित्य के उत्थान के लिये अपने जीवन की वाजी लगा दी। यदि इन तीन शताब्दियों के साहित्य

को हिन्दी साहित्य से निकाल दिया जावे तो फिर हिन्दी साहित्य निर्जन बन के समान मालूम पड़ेगा ।

जैन हिन्दी साहित्य में भी इन तीन शताब्दियों में अनेक कवि एवं लेखक हुये जिन्होंने हिन्दी साहित्य के भण्डार को भर दिया । दूसरी विशेषता इस काल की यह रही कि १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हिन्दी गद्य का स्वरूप भी हमारे सामने आया इससे हिन्दी के पठन पाठन एवं स्वाध्याय का और भी प्रचार बढ़ा ।

१७ वीं शताब्दी के प्रारम्भिक कवियों में श्री कुमुदचन्द्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने संवत् १६०० में लिखना प्रारम्भ किया था । कवि की बाहुवलि छन्द, त्रेपनक्रिया, ऋषभ विवाहलो, शीलगीत आदि रचनाये मिलती हैं, इनमें भरतबाहुवलि छन्द विशेष उल्लेखनीय रचना है ।

ब्रह्म रायमल १७ वीं शताब्दी के प्रथम पाद के कवि हैं । सभी रचनाओं की प्रशस्तियों में इन्होंने अपने आपको मुनि अनन्तकीर्ति का शिष्य लिखा है । नेमीश्वररास कविवर की उपलब्ध रचनाओं में प्रथम रचना है । इसका रचना संवत् १६१५ है । इसके अतिरिक्त हनुमंतकथा, प्रद्युम्नचरित्र, सुदर्शनरासो, निर्दोषसप्तमीव्रतकथा, श्रीपालरासो, भविष्यदत्त कथा आदि रचनाये उपलब्ध हैं ।

पाण्डे जिनदास ने संवत् १६४२ में जगन्मूर्त्तिसुन्दरी चरित्र की रचना

समाप्त को । इसके अतिरिक्त जोगीरासा एवं ज्ञानसूर्योदय नाटक इनका और मिलता है ।

कविवर रूपचन्दजी १७ वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कवि थे । उपलब्ध-रचनाओं के आधारपर यह कहा जा सकता है कि इनकी कवित्व शक्ति बहुत ही उच्च श्रेणी की थी । कविवर ज्ञान कथा के रस में भीगे रहते थे । परमार्थ चर्चा ही उनका मुख्य ध्येय था । महाकवि बनारसीदास ने इनको आगरा नगर की प्रमुख तथा प्रसिद्ध ज्ञानगोष्ठी का प्रथम विद्वान होना लिखा है । आपने जो कुछ साहित्य लिखा अधिकांशतः वह आध्यात्मिक रस से अलंकृत किया हुआ है । आपकी अभी तक परमार्थदोहाशतक, परमार्थ गीत, पदसंग्रह, गीत-परमार्थी, पंचमंगल, नेमिनाथरास आदि रचनाये प्राप्त हुई हैं । सभी रचनाये उच्च कोटि की हैं । इसका एक उदाहरण देखिये—

गुरु बिनु भेइ न पाइये, को पर को निज वस्तु

गुरु बिनु भव सागर विषै, परत गहै को हस्तु ॥

रूपचन्द सद्गुरुनि की, जन बलिहारी जाइ ।

आपन जे सिवपुर गहे, भब्यनि पय दिखाइ ॥

उक्त कवियों के अतिरिक्त इस शताब्दी में होने वाले कवियों में ब्रह्म गुलाल, त्रिभुवनचन्द्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । महाकवि बनारसीदास भी इसी शताब्दी के कवि थे, जिनका स्थान जैन हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है । इनका पूर्ण परिचय आगे दिया जावेगा ।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है इस शताब्दी में हिन्दी गद्य की रचनाये भी प्रारम्भ हो गयी थीं। इस दिशा में सर्व प्रथम रचना समयसार की हिन्दी गद्य टीका है जिसको वैराठ (जयपुर) में राजमल्ल ने लिखी थी। इसको इन्होंने संवत् १६०० के आसपास समाप्त की थी। महाकवि वनारसीदासजी ने भी इन्हीं की टीका के आधार पर समयसार नाटक की रचना की थी।

इसके अतिरिक्त पं० अखयराज और श्री पाण्डे हेमराज का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। पं० अखयराज कृत चतुर्दश-गुणस्थानचर्चा, विपापहारस्तोत्रभाषा, कल्याणमन्दिरस्तोत्र टीका, भूपाल चौबोसी टीका के नाम उल्लेखनीय हैं। चतुर्दश-गुणस्थानचर्चा अखयराज की स्वतन्त्र रचना है। इसी तरह पाण्डे हेमराज ने हिन्दी गद्य में प्रवचनसार वचनिका, पञ्चास्तिकाय टीका, नयचक्र वचनिका, कर्मकाण्ड टीका आदि हिन्दी ग्रन्थों की रचना की थी। ये १७ वीं शताब्दी के अन्तिम पाद एवं १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ के कवि थे।

१८ वीं शताब्दी में महाकवि वनारसीदासजी की रचनाओं के सामने आने के पश्चात् जैन कवियों की काव्यत्व शक्ति भी कुछ विकसित हुई। यद्यपि उन्होंने अपनी रचनाओं का अधिकांश विषय धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता तक ही सीमित रखा किन्तु इन रसों में ही उन्होंने अपनी काव्यत्व शक्ति प्रदर्शित की।

इस शताब्दी के श्रेष्ठ कवियों में भैरव्या भगवतीदासजी का नाम लिया जा सकता है। ये आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने अनेक विषयों पर अपनी रचनाएँ लिखी हैं। कविवर हिन्दी, संस्कृत, फारसी, गुजराती आदि भाषाओं के अच्छे विद्वान् थे। आपकी रचनाये प्रसाद गुण से परिपूर्ण हैं। कविवर का 'ब्रह्मविलास' उनकी विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जन-कल्याण की भावना प्रदर्शित की है। किसी को रिझाने के लिये अथवा अपने आप के आनन्द के लिये कविता रचने का इनका विलकुल ध्यान नहीं था। इनके एक पद का नमूना देखिये जो कितना मधुर एवं सरल है—

कहा परदेशी को पतियारो ।

मन माने तब चलै पंथ को, सांभ गिनै न सकारो ।

सबै कुट्टम्व द्वाड इतही पुनि, त्याग चलै तन प्यारो ॥

दूर दिशावर चलन आपही, कोउ न रोक्न हारो ।

कोऊ प्रीति करो किन कोटिक, अ त होयगो न्यारो ॥

धन सों राचि धरम सों भूलत, भूलत मोह मभारो ।

इहि विधि काल अनन्त गमायो, पायो नहिं भव पारो ॥

सांचें मुखसों विमुख होत हो, भ्रम मदिरा मतवारो ।

चेतहु चेत सुनहु रे मइया, आप ही आप समारो ॥

भैरव्या भगवतीदासजी के समकालीन महान संत आनन्दघन हुये। संत-साहित्य के विशेषज्ञ एवं अध्ययनशील विद्वान्

क्षितिमोहनसेन ने उन्हें जनमर्मी कवि की संज्ञा से सम्बोधित किया है। राजस्थानी के प्रसिद्ध विद्वान् श्री अग्रचन्द्र नाहटा के शब्दों में “आनन्दघनजी द्वारा रचित चतुर्विंशति जिनस्तवनों एवं पदों में अध्यात्म का अखंड प्रवाह प्रवाहित हुआ है। आपके पदों और कवीर एव सुन्दरदास के पदों में बहुत कुछ समता मिलती है।

बुलाकीदासजी भी इस शताब्दी के अच्छे कवि थे। इनकी माता का नाम जैनी एवं पिता का नाम नन्दलाल था। कवि की साहित्यिक प्रगति में इनकी मात ‘जैनी’ का विशेष हाथ था। इनकी दो रचनायें उपलब्ध होती हैं एक महाभारत (पाण्डवपुराण) और दूसरा प्रश्नोत्तर श्रावकाचार। इनकी दोनों ही रचनाओं में कहीं २ काव्यत्व के अच्छे दर्शन होते हैं।

कविवर भूधरदासजी का स्थान सम्पूर्ण जैन साहित्य में उत्कृष्ट है। महाकवि बनारसीदासजी के पश्चात् इन्हीं का नाम गिनाया जा सकता है। इन्होंने ‘पार्श्वपुराण, भूधरशतक एवं अनेक स्फुट पद्यों की रचना की थी। ये तीनों ही रचनायें जैन साहित्य में ही नहीं किन्तु हिन्दी-साहित्य में भी उल्लेखनीय स्थानवाली हैं। इनका पार्श्वपुराण एक स्वतन्त्र रचना है जो प्रसाद एवं माधुर्य गुण से ओतप्रोत है इसको इन्होंने संवत् १७८६ में समाप्त किया था।

कविवर भूधरदासजी के ही समकालीन श्री दयानतरायजी हुये। इनकी रचनाओं का संग्रह “धर्मविलास” है जो संवत् १७८० में पूर्ण हुआ था। ये भक्तिमार्ग वाले कवि थे। हिन्दी में इन्होंने

अनेक पूजाओं की रचना की जो आज प्रत्येक स्थान पर पढ़ी जाती हैं। इनकी भाषा एवं शैली अच्छी है जिसमें कठिन विषय को भी सरल करके समझाया गया है।

१८ वीं शताब्दी में उक्त कवियों के अतिरिक्त मनोहरलाल, खरगसेन, जोधराज भोदीका, खुशालचन्द काला, किशनसिंह आदि और भी कवि हुये। इनमें मनोहरलाल ने धर्मपरीक्षाभाषा, खरगसेन ने त्रिलोक दर्पण कथा, जोधराज ने सम्यक्त्वकौमुदी, धर्मसरोवर, पद्मनन्दि पंचविंशति आदि तथा किशनसिंह ने क्रिया-कोश आदि की रचनाएँ की थी। ये सभी रचनाएँ कितनी ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं।

१९ वीं शताब्दी में उल्लेखनीय कवियों में पं० दौलतरामजी, पं० टोडरमलजी, पं० जयचन्दजी झगडा, वृन्दावनजी आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। इस शताब्दी में पद्य साहित्य की अपेक्षा गद्य साहित्य का अधिक निर्माण हुआ। हिन्दी भाषा के प्रचाराधिक्य से एवं स्वाध्यायप्रेमियों की मांग के अनुसार विद्वानों ने संस्कृत एवं प्राकृत अपभ्रंश ग्रन्थों का सरल हिन्दी में अनुवाद अथवा भाषान्तर किया जिससे हिन्दी भाषा के ग्रन्थों के प्रचार में एवं स्वाध्याय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

पं० दौलतरामजी ने पुण्याश्रवकथाकोश, क्रियाकोश, अध्यात्म-चारदखडी, वसुनन्दिश्रावकाचार भाषा, पद्मपुराणभाषा, हरिवंश-पुराणभाषा, आदि ग्रन्थों की रचना की थी। इनकी भाषा बहुत

सरल है। इस पर ढूंढारी भाषा का अत्यधिक प्रभाव है। जैन समाज में इनके लिखे हुये ग्रन्थों की स्वाध्याय का अत्यधिक प्रचार है। वे राजस्थान में ही नहीं पढे जाते किन्तु गुजरात में एवं दक्षिण में भी उनका अत्यधिक प्रचार है।

पण्डितप्रवर टोडरमलजी भी इसी शताब्दी के रत्न हैं। अपने समय के ये सर्व श्रेष्ठ साहित्यिक, विद्वान् एवं समाज सुधारक थे। ये केवल २८ वर्ष तक ही जीये और इतने से अल्पकाल में गोम्मट-सारवचनिका, त्रिलोकसारवचनिका, आत्मानुशासनभाषा, पुरुषार्थसिद्धयुपाय भाषा एवं मोक्षमार्गप्रकाश आदि ग्रन्थों की रचनायें की। आप का ज्ञान पारदर्शी था। इसीलिये आप गोम्मटसार एवं त्रिलोकसार जैसे गूढ अर्थ वाले ग्रन्थों की सरल एवं बोधगम्य वचनिकायें लिखीं। मोक्षमार्ग प्रकाश आपकी स्वतन्त्र रचना है इसमें जैनसिद्धान्त का गंभीर विवेचन किया गया है। इसकी भाषा भी ढूंढारी है। आजकल के हिन्दी गद्य से वह बहुत कुछ मिलती जुलती है। क्रिया पदों और कारक प्रत्ययों के बदलने मात्र से ही वह आजकल की खड़ी बोली बन सकती है।

पं० जयचन्द्रजी छावडा का गद्य लेखकों में महा पंडित टोडर-मलजी एवं दौलतरामजी के बाद का स्थान है। इन्होंने सर्वार्थसिद्धि, परीक्षामुख, द्रव्यसंग्रह, स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, समयसार, देवागम-स्तोत्र, अष्टपाहुड, ज्ञानार्णव आदि ग्रन्थों की भाषा वचनिकायें लिखीं। इनकी गद्य शैली भी उत्तम है।



श्री वृन्दावनजी १६ वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं । उन्होंने छन्दशास्त्र, प्रवचनसार टीका, चतुर्विंशतिजिनपूजापाठ, तोस-चौतीसी-पूजापाठ, वृन्दावन-विलास आदि रचनायें की थीं । इनमें स्वाभाविक कविरस शक्ति थी । प्रत्येक विषय को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना उन्हें खूब आता था । इसीलिये इनकी कविता में स्वाभाविकता और सरलता दोनों ही मिलती हैं ।

इसी प्रकार जैन हिन्दी साहित्य में और भी कवि एवं लेखक हुये जिन्होंने अपनी रचनायें लिखकर हिन्दी भाषा के प्रचार एवं पठनपाठन में अत्यधिक सहयोग दिया । यद्यपि अधिकांश जैन कवियों ने अपनी रचनाओं के विषय को धर्मप्रधान एवं अध्यात्म-प्रधान ही रखा है किन्तु इस प्रकार के साहित्य में भी कितने ही स्थानों पर तो हमें उत्तम काव्य के दर्शन होते हैं । इसलिये हिन्दी साहित्य के विद्वानों को चाहिये कि वे जैन साहित्य के खोज एवं प्रचार की ओर ध्यान दें एवं उसकी रचनाओं को उचित स्थान देने का प्रयत्न करें ।



## महाकवि बनारसीदास

१५ वीं शताब्दी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इस शताब्दी में तुलसीदास, केशवदास, बनारसीदास, विहारी, भूषण, सेनापति, रहीम आदि कितने ही महाकवि हुये जिन्होंने हिन्दी भाषा में सर्वोत्कृष्ट रचनाये निबद्ध करके उसे अमर बना दिया। जैन कवि बनारसीदास भी इसी शताब्दी के महान प्रतिभाशाली कवि हैं जिन्होंने हिन्दी में त्रिकालावाधित रचनायें लिखकर इसके साहित्य भण्डार की श्री वृद्धि की है। वास्तव में यदि इस शताब्दी में ये कविगण न हुये होते तो हिन्दी भाषा इतनी जनप्रिय भाषा न बनी होती जितनी वह आज है।

बनारसीदासजी का स्थान हिन्दी के आध्यात्मिक साहित्य में कबीर के समकक्ष कहा जा सकता है। बनारसीदासजी की काव्यत्व शक्ति नैसर्गिक थी। इनकी सूक्ष्म निराली थी तथा इनकी शैली में आकर्षण था। यही कारण है कि इनके द्वारा लिखे हुये साहित्य को जैन हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया। लेकिन दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक विद्वानों ने अपने हिन्दीसाहित्य के इतिहास में नामोल्लेख के अतिरिक्त इनकी सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया जब कि इनके द्वारा लिखा साहित्य हिन्दी के अनेक कवियों के साहित्य के

समकक्ष रखा जा सकता है। कविवर द्वारा लिखा हुआ अर्द्धकथानक तो अपने ढंग की प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट प्राचीन रचना है।

वनारसीदासजी का जन्म संवत् १६४३ में जौनपुर नगर में हुआ था। प्रारम्भ में इनका नाम विक्रमाजीत था लेकिन बाद में वनारस के एक पुजारी के कहने से इनका नाम वनारसीदास रखा गया। कवि के पिता का नाम खरगसेन था। ये श्रीमाल जाति के थे और वीहोलिया इनका गोत्र था। अर्द्धकथानक में लिखा है कि विहोली गांव राजपूतों की एक वस्ती थी जो एक जैन मुनि के उपदेश से जैन बन गयी थी। इसने अपने आपको श्रीमाल जाति एवं वीहोलिया गोत्र से प्रसिद्ध किया।

वनारसीदासजी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। बचपन में इनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया गया था। ७ वर्ष की अवस्था से इन्होंने विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। इनके गुरु कविवर रूपचन्दजी थे जो स्वयं ही पहुँचे हुये आध्यात्मिक कवि थे। इनकी बुद्धि प्रखर थी तथा विषय को जल्दी ही ग्रहण करलेती थी, इसलिये थोड़े अर्से-में ही इन्होंने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् इन्होंने पढ़ना बन्द कर दिया लेकिन १४ वर्ष की अवस्था में इन्होंने फिर पं० देवीदासजी के पास पढ़ना प्रारम्भ किया तथा नाममाला, ज्योतिषशास्त्र, अलंकारशास्त्र एवं कोकशास्त्र का थोड़ा अध्ययन किया।

वनारसीदासजी का प्रथम विवाह १० वर्ष की अवस्था में हुआ

था । इनकी यह पत्नी बड़ी सुशीला संतोषी एवं पतिसेवापरायणा थी, लेकिन विवाह के करीब १५-१६ वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो गयी । इससे बनारसीदासजी को बहुत दुःख हुआ । इसके पश्चात् कविवर के और भी दो विवाह हुये किन्तु वे अपनी प्रथम पत्नी के गुणों का कभी विस्मरण नहीं कर सके । तीनों पत्नियों से आपके ६ बालक हुये किन्तु सभी बालक पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मर गये । कविवर का अन्तिम बच्चा ६ वर्ष का होकर मरा । इस बालक को खोकर तो उन्हें जीवन से एक दम निराशा हो गयी और उन्हें संसार बहुत भयानक प्रतीत होने लगा, जैसा कि उनके निम्न उद्गार से मालूम पडता है—

नौ बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोग ।

ज्यों तख्तर पतभारह्वैं रहें टूट से दोग ॥

युवावस्था के पदार्पण करते ही बनारसीदासजी अनंगरग में मस्त हो गये थे । इनके सिर पर इश्कवाजी का नशा चढ गया था । रातदिन इनका ऐसी ही बातों की चर्चाओं में व्यतीत होता था । इसी समय इनको कविता करने का भी शौक हो गया था । लेकिन इश्कवाजी में फंसे रहने के कारण ये शृंगाररस की ही अधिकांश कवितायें लिखने लगे । इसी समय इन्होंने एक हजार पद्यों वाली एक पुस्तक की भी रचना की । यद्यपि इस पुस्तक में सभी रसों से सम्बन्धित कविताएँ थीं लेकिन सबसे अधिक इस पुस्तक में जो सामग्री थी उसका सम्बन्ध शृंगाररस

से ही था । बनारसीदासजी कितने ही साधु सन्यासियों के जाल में फंसे रहे और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही बनारसीदास जी ने किया । संवत् १६६२ में बादशाह अकबर की मृत्यु हुई । मृत्यु के समाचार सुनकर बनारसीदासजी को इतना अधिक दुःख हुआ कि वे यह समाचार सुनते ही गिर पड़े । इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया । वे साधु सन्यासियों के चक्कर से निकल गये तथा शृंगाररस के स्थान में आध्यात्मिक रस का गुणगान करने लगे । उनको अपने अबतक के व्यतीत जीवन से घृणा हो गयी तथा अबतक उन्होंने जो शृंगाररस से सम्बन्धित कविताओं की रचना की थी उसे भी उन्होंने गोमती नदी में सदा के लिये बहा दिया । हिन्दी साहित्य एवं जैन साहित्य दोनों के लिये ही यह एक अप्रिय घटना रही । यदि यह रचना बची हुई होती तो जैन कवियों पर जो केवल आध्यात्मिक होने का आरोप लगाया जाता है वह सदा के लिये बच जाता । इस के बाद तो कवि का सम्पूर्ण जीवन ही दूसरी दिशा में प्रवाहित होना था जैसा कि स्वयं कवि ने कहा है—

तिस दिन सौ बनारसी, करी धर्म की चाह ।

तजो आसिखी फासिखी पकरी कुल को राह ॥

### व्यापारिक जीवन —

२३ वर्ष तक बनारसीदासजी ने कोई काम धन्धा प्रारम्भ नहीं किया । २४ वें वर्ष में कवि के पिता खरगसेनजी ने इन्हें घर का

सारा काम काज सम्हला दिया । अभी तक इनको कोई काम धन्धा नहीं करना पडा था इसलिये व्यापार में ये अभी अनभिज्ञ ही थे । कुछ दिनों पश्चात् इन्होंने आगरे में जाकर व्यापार कार्य करना चाहा और घर से दो मुद्रिका, चौबीस माणिक, नौ नीलम, बीस पन्ना और ४ गांठ फुटकर चुनी, २० मन घी, २ कुपे तेल, २०० रुपयों का कपडा तथा अन्य सामान लेकर आगरा के लिये रवाना हो गये । मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुये ये आगरे पहुँचे, लेकिन व्यापार में अनभिज्ञ होने के कारण इन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली और थोड़े ही दिनों में घर से लायी हुयी सारी सम्पत्ति को घाटे में देकर स्वयं दरिद्र बन बैठे । इसके बाद इन्होंने आगरे में ही एक दूसरे व्यापारी के साथ साझे में कार्य किया लेकिन उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली और जितना रुपया कमाया वह सब खाने पीने में ही खर्च होगया । फिर नरोत्तमदास नामक एक अन्य व्यापारी के साथ खैरावादी कपडे का व्यापार कार्य प्रारम्भ किया लेकिन उसमें भी उल्टा घाटा ही उठाना पडा । तब इन्होंने अपना स्वतन्त्र ही कार्य किया और इसमें इन्हें सफलता मिली तथा कुछ ही समय में इन्होंने अच्छा धन कमा लिया । अब ये आगरे में ही रहने लगे ।

### विद्वानों का संपर्क एवं सहयोग—

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि वचपन में बनारसीदासजी को प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवि रूपचन्द्रजी से तथा फिर पं० देवी-

दासजी से अध्ययन करने का अवसर मिला था। आगरे में इनका अर्थमल्लजी से संसर्ग हुआ। अर्थमल्लजी सदा ही अध्यात्म रस में सने हुये रहते थे। इन्होंने बनारसीदासजी को पं० राजमल्ल कृत हिन्दी चालावबोधिनी टीका सहित समयसार नामक ग्रन्थ स्वाध्याय करने को दिया। इसका स्वाध्याय करने के पश्चात् ये निश्चय नय के एकान्त श्रद्धानी बन गये और बाह्य क्रियाओं को सर्वथा छोड़ बैठे। लेकिन जब इन्हें पं० रूपचन्दजी से गोम्मत-सार नामक सिद्धान्त ग्रन्थ पढने का सौभाग्य मिला तब इनको चस्तुस्थिति का बोध हुआ। आगरे में इन्हें पं० रूपचन्दजी के अतिरिक्त अन्य विद्वानों के साथ रहने का भी अवसर मिला था। इन विद्वानों में चतुर्भुजजी, भगवतीदासजी, धर्मदासजी, कुंवर-पालजी और जगजीवनजी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये सभी विद्वान आध्यात्मिक चर्चा में गहरा रस लिया करते थे और रात दिन उसी की चर्चा में मस्त रहते थे।

जैन विद्वानों के अतिरिक्त उन्हें अन्य विद्वानों से भी भेंट करने का अवसर मिला था ऐसी भी कितनी ही किंवदन्तियां प्रचलित हैं। इन विद्वानों एवं सन्तों में सुन्दरदासजी एवं तुलसीदासजी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सुन्दर ग्रन्थावली के सम्पादक पं० हरिनारायणजी शर्मा वी० ए० ने ग्रन्थावली की भूमिका में एक स्थान पर लिखा है—“प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदासजी के साथ सुन्दरदासजी की मैत्री थी। सुन्दरदासजी जब आगरे गये तब बनारसीदासजी के साथ उनका संसर्ग हुआ था। बनारसीदासजी

सुन्दरदासजी की योग्यता, कविता और यौगिक चमत्कारों से मुग्ध हो गये थे। तभी उतन श्लाघा मुक्तकंठ से उन्होंने की थी। परन्तु वैसे ही त्यागी और मेधावी बनारसीदासजी भी तो थे। इनके गुणों से सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये इसी से वैसी अच्छी प्रशंसा उन्होंने भी की थी।”

इसी प्रकार बनारसीदासजी की महाकवि तुलसीदासजी से भी कितनी ही वार भेंट हुई थी। यह भी कहा जाता है कि इनको महाकवि ने रामायण की एक प्रति भेंट की थी। कुछ वर्षों के बाद जब कविवर की गंगास्वामीजी से भेंट हुई तब तुलसीदासजी ने रामायण के काव्य सौंदर्य के सम्बन्ध में जानना चाहा जिसके उत्तर में कविवर ने प्रसन्न होकर निम्न कविता उसी समय सुनाई थी—

किराजै रामायण घट मांहि ।

मरमी होय मरम सो जानै, मूरख मानै नाहि ॥

आतमराम ज्ञान गुन लखमन, सीता सुमति समेत ।

शुभोपर्योग वानरदत्त मंडित, वर विवेक रण-खेत ॥

ध्यान धनुष टकार शोर सुनि, गई विषयादिति माग ।

भई भरम मिथ्यामति लंका, उठी धारणा आग ॥

जरे अज्ञान मात्र राक्षसकुल, लरे निवर्तित सूर ।

जूझे राग द्वेष सेनापति संशयगढ़ चक्चूर ॥

विलखत कुम्भकरण मत्र विभ्रम, पुलकित मन दर्याव ।

चकित उदार वीर महिराक्षण, सेतुवध समभाव ॥



मूर्खित मन्दोदरि दुराशा, सजग चरन हनुमान ।

घटी चतुर्गति परणति सेना, छुटे लपक गुणवान ॥

निरखि सकति गुन चक्र सुदर्शन, उदय विभीषण दीन ।

फिरै कर्बध मही रावण की प्राण भाव शिर हीन ॥

इह विधि सकल साधु घट अतर, होय सहज रुमाम ।

यह विवहार दृष्टि रामायण केवल निश्चय राम ॥

## तत्कालीन मुगल बादशाह और बनारसीदासजी—

बनारसीदासजी ने अपने जीवन काल में तीन मुगल बादशाहों का शासन देखा था । बादशाह अकबर के ये काफी प्रशंसक थे इसीलिये उसकी मृत्यु के समाचार सुनकर बनारसीदासजी को अत्यंत दुःख हुआ और वे बैठे २ ही गिर पड़े । जहांगीर के सामने भी इनको एक बार उपस्थित होना पड़ा था और उन्होंने “ज्ञानी बादशाह ताको मेरी तसलीम है” इन शब्दों में बादशाह को सलाम किया था । शाहजहां बादशाह के दरबार में तो इन्हें प्रतिदिन उपस्थित होना पड़ता था और वहाँ जाकर इन्हें बादशाह के साथ शतरंज खेलनी पड़ती थी और अन्त में उन्हें बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला था ।

## कवि का अन्तिम जीवन—

अर्ध कथानक में दिये ५५ वर्ष के जीवन चरित के अतिरिक्त आगे के जीवन के सम्बन्ध में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता वे कितने वर्ष तक और जीये । लेकिन इतना अवश्य

है कि उनका अन्तिम जीवन सुख से व्यतीत हुआ होगा। इस जीवन में उन्होंने कौनसे साहित्य का निर्माण किया अथवा केवल आध्यात्मिक चर्चाओं में ही अपना जीवन व्यतीत किया इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती।

### धनारसीदासजी की रचनायें —

उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धनारसीदासजी ने अपने जीवन में नवरसपद्यावलि, नाटक समयसार, वनारसीविलास, नाममाला और अर्द्ध कथानक नामक ग्रन्थों की रचना की थी। इन सभी का संक्षिप्त परिचय पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है—

#### नवरसपद्यावलि—

नवरसपद्यावलि की रचना कविवर ने अपनी युवावस्था में की थी। उस समय वे अनगराग में मस्त थे और शृंगार रस का आस्वादन ही उनका प्रमुख ध्येय था। उसी समय उन्होंने एक हजार पद्योंवाली रचना लिखी थी। यद्यपि इसमें सभी रसों वाले पद्य थे लेकिन शृंगार रस से सम्बन्धित पद्यों की विशेषता थी। जब कवि का इशकवाजी का नशा दूर हुआ तो उन्हें अपने द्वारा लिखी हुई नवरसपद्यावलि से भी एक दम घृणा हो गयी। और एक दिन अपनी सम्पूर्ण रचना को गोमती नदी में बहा दिया। हिन्दी जगत् के लिये एवं विशेषतः हिन्दी जैन साहित्य के लिये उनका यह कार्य अचञ्चल नहीं रहा। यदि यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध होती तो जैन साहित्य केवल आध्यात्मिक अथवा धार्मिक है यह कहकर के ही उसकी

उपेक्षा नहीं की जाती । बनारसीदासजी ने इस पुस्तक के सन्बन्ध में निम्न लिखित पद्य लिखा है—

पोथी एक बनायी नयी, मित हजार दोहा चौपई ।  
तामै नवरस रचना लिखी, पै विसेस वरनन आमिखी ।  
ऐसे कुकवि बनारसी भए, मिथ्या ग्रथ बनाए नए ।

नाटक समयसार—

नाटक समयसार बनारसीदासजी की प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है । जैन हिन्दी साहित्य में इस रचना का सर्वोत्कृष्ट स्थान है । अध्यात्म रस का यह अपूर्व ग्रन्थ है जिसको एक बार पढ़ना प्रारम्भ करने के पश्चात् कभी छोड़ने को जी नहीं चाहता । इसकी रचना में कवि ने जो अपनी अपूर्व काव्य शक्ति का परिचय दिया है वह सर्वथा प्रशंसनीय है । इसका प्रत्येक पद आत्मा पर अपना सीधा असर डालता है । उदाहरणार्थ दो पद्य उपस्थित किये जाते हैं—

राम रसिक अरु राम रस कहन सुनन को दोइ ।

जब समाधि परगट मई तब दुविधा नहिं कोइ ॥

×                      ×                      ×                      ×

जाके घर समता नहीं, ममता मगन सदीव ।

रमता राम न जानही सो अपराधी जीव ॥

समयसार की रचना आचार्य कुन्दकुन्द ने प्राकृत भाषा में की थी । उस पर आचार्य अमृतचन्द्र ने संस्कृत टीका एवं कलशो

की रचना की। १६-१७ वीं शताब्दी में पांडे राजमल्लजी ने हिन्दी गद्य में वालाववोधिनी टीका लिखी और इन्हीं रचनाओं के आधार पर बनारसीदासजी द्वारा हिन्दी पद्यात्मक समयसार की रचना की गयी। यद्यपि कवि की यह केवल एक प्रकार से समय-सार पर हिन्दी टीका मात्र ही है लेकिन उसमें अपनी अपूर्व काव्य शक्ति से इतनी विशेषता लादी कि उनकी यह रचना सर्वथा मौलिक मालूम देने लगी। इसमें कवि ने शब्दों का चुनाव एवं चयन इतना सुन्दर किया है कि पाठक उसमें अपने आपको खोया हुआ अनुभव करने लगता है।

पूरे समयसार में ३१० दोहा सोरठा, २४३ सवैय्या इकतीसा, ८६ चौपाई, ६० सवैय्या तेईसा, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल एवं ४ कुण्डलिया हैं। इस प्रकार सब मिला कर इसमें ७०७ छन्द हैं। यह रचना संवत् १६६३ में आसोज शुक्ला दशमी रविवार के दिन समाप्त हुई थी।

आदरणीय नाथूरामजी प्रेमी के शब्दों में समयसार को भाषा साहित्य के अध्यात्म की चरम सीमा कहें तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी। आगे आने वाले जैन कवि एवं लेखकों पर समयसार में वर्णित आध्यात्मिकता का जो प्रभाव पडा है वह उल्लेखनीय है।

नाममाला—

महाकवि धनंजय कृत संस्कृत नाममाला का यह हिन्दी पद्य में भाषान्तर है। कवि ने संस्कृत पद्यों का हिन्दी अनुवाद बहुत ही

सरल एवं उत्तम रीति से किया है। हिन्दीकोश-साहित्य में यह सर्वथा उल्लेखनीय रचना है। हाईस्कूल तक के विद्यार्थियों के लिये तो शब्दों का ज्ञान बढ़ाने के लिये यह अत्यधिक उपयोगी पुस्तक है। उदाहरणार्थ विद्वान् के नामों का वर्णन करने वाले पद्य देखिए।

निपुण त्रिलक्षण विदुषः बुध विद्याधर विद्वान्

पट्ट प्रवीण पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान् ॥

वृत्ताक्त, कवेरिद कुशल, सुमन दक्ष धीमत् ।

• ज्ञाता सज्जव ब्रह्मनिद ब्रह्म गुणीजन संत ॥

अर्धकथानक—

यह कवि द्वारा लिखा हुआ स्वयं का जीवन चरित्र है। कवि ने इसमें अपने ५५ वर्ष की जीवन घटनाओं को उसी रूप में उपस्थित किया है। इससे यह सिद्ध होता कि भारतीय विद्वान् भी आज से ३०० वर्ष पहिले अपने जीवन इतिहास का महत्त्व समझते थे। कवि का यह आत्म-चरित ठीक आज जैसे आत्म-चरितों के समान लिखा गया है। कविने अपने जीवन की किसी भी घटना को लिखने में हिचकिचाहट नहीं की है। हिन्दी के प्राचीन आत्म-चरितों में ऐसा कोई आत्मचरित नहीं है जिसको इसकी तुलना में रखा जा सके। इसमें सब मिलाकर ६७३ चौपाई तथा दोहे हैं। रचना सुन्दर एवं सरल है। इससे ५५ वर्षों के तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का सुगमता से पता लगाया जा

सकता है। संवत् १६६२ में जब बादशाह अकबर का स्वर्गवास हुआ तो राज्य में चारों ओर अव्यवस्था एवं अशान्ति आ गयी। लोगों को चारों ओर विपत्ति ही विपत्ति दिखाई देने लगी। कवि ने इसका बड़ा सुन्दर चित्र खिंचा है। उसे पढ़िये—

घर घर दर दर दिये कपाट, हटवानी नहीं बैठे हाट ।

हंडवाई गाडी कहूँ और, नकद माल निरभरणी और ।

मले वस्त्र अरु भूषण भले, ते सब गर्दे धरती तले ।

घर घर सबनि विसाहे शस्त्र, लोगन पहिरे मोटे कस्त्र ।।

ठाढ़ो कवल अयवा खेम, नारिन पहिरे मोटे केस ।

ऊँच नीच कोई नहीं पहिचान, धनी दरिद्री भये समान ।।

चौरि बाढ़ दीसै कहूँ नाहि, योही अपमय लोग डराहि ।

कवि की इन रचनाओं से तत्कालीन शासन व्यवस्था एवं सामाजिक स्थिति आदि का अच्छी तरह पता चलता है। ये वर्णन इतिहास निर्माण के लिए बड़े उपयोगी हैं।

### बनारसीविलास—

बनारसीविलासजी ने पूर्व वर्णित रचनाओं के अतिरिक्त अन्य कितनी ही स्फुट रचनाये भी लिखी थीं। इनकी कुल संख्या कितनी है इसके सम्बन्ध में तो जैन शास्त्र भण्डारों की पूरी खोज होने के पश्चात् ही निश्चित लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी वर्तमान में इन स्फुट रचनाओं की संख्या ६२ है। बनारसीविलास के

प्रारम्भ में जो कवितामय विषय सूचनिका दी हुई है उसमें कवि की ५७ रचनाओं के नाम दिये हुये हैं । इनके सिवाय तीन नवीन पदों की खोज श्रद्धेय नाथूराम जी प्रेमी ने की हैं । तथा अभी कवि के ० नवीन पद जयपुर के पादोदी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार की सूची बनाते हुये एक गुटके में हमे मिले हैं । संभव है कि कवि द्वारा रचित और भी रचनाये खोज करने पर प्राप्त हो सके ।

वनारसीविलास 'नाटक समयसार' अर्द्ध कथानक और नाम-भाला के अतिरिक्त कवि की अब तक सभी उपलब्ध रचनाओं का संग्रह है । यह स्वयं कविका संग्रह किया हुआ नहीं है किन्तु कवि की मृत्यु के पश्चात् पं० जगजीवन राम ने इसका संग्रह किया है । पंडितजी आगरे के रहने वाले हो थे । इनको वनारसोदासजी की रचनाओं से अत्यधिक अनुराग था, इसलिये उन्होंने उस समय तक उपलब्ध सभी रचनाओं का एक स्थान पर संग्रह कर लिया और इस संग्रह का नाम वनारसीविलास रखा । । इन्होंने इस कार्य को संवत् १७७१ में समाप्त किया ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है वनारसीविलास एक संग्रह ग्रंथ है । इसमें किसी एक विषय का संग्रह न होकर कवि की विविध विषयों पर रचित कविताओं का संग्रह है । समूचे विलास को हम मुख्यतया निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं—

१. जैन सिद्धान्त से सम्बन्धित कवितायें
२. अनूदित रचनाये

३. आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी कवितायें

४. सुभाषित, पद एवं स्फुट कवितायें

## १. जैनधर्म सिद्धान्त से सम्बन्धित कवितायें:—

वनारसीदासजी जैन शास्त्रों के पारदर्शी-विद्वान् थे । उनका गंभीर अध्ययन था । वनारसीविलास में संग्रहीत जैन सिद्धान्त विषय से सम्बन्धित रचनाओं में जैनधर्म के गहन तत्त्वों का जो परिचय दिया गया है वह उनके जैन सिद्धान्त विषयक गंभीर ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है । सिद्धान्त की गहन चर्चाओं को उदाहरण देकर समझाना उन्हें अच्छी तरह आता था । सिद्धान्त के इस भाग में विलास की मुख्यतया रचनायें आती हैं—ज्ञान वाचनी, मार्गणा-विधान, कर्मप्रकृतिविधान, साधु वन्दना, कर्मछत्तीसी, ध्यान वत्तीसी, पंच पद विधान, अष्ट प्रकार जिनपूजा, दश दान दश बोल, परमार्थ वचनिका, निमित्त उपादान की चिट्ठी आदि ।

## अनूदित रचनायें:—

इस संग्रह में कवि की तीन अनूदित रचनाएँ भी हैं । सूक्ति-मुक्तावलि, कल्याणमन्दिरस्तोत्र और जिनसहस्रनाम । सूक्ति-मुक्तावलि आचार्य सोमप्रभ की संस्कृत रचना है । कवि और उनके साथी कवि कुमारपाल (कौरपाल) ने उसका सुन्दर अनुवाद किया है । कवि द्वयने इसे संवत् १६६१ वैशाख सुदी ११ को समाप्त किया था । यह समय कवि की सबसे महत्वपूर्ण रचना 'नाटक समयतार' की रचना समाप्त से करीब २ वर्ष पूर्व का आता है ।



सूक्ति मुक्तावलि के सभी पद्य सुन्दर एवं -हृदयप्राही हैं। एक पद्य का नमूना देखिये.—

ज्यों मतिहीन विवेक विना नर, साजि मतंगज ईधन-दोवै ।  
 कचन माजन धूल मरे शठ-मूढ सुधारस-सो पगधोवै ॥  
 वाहित काग-उडावन-कारण, डार-महामणि मूरख-रोवै ।  
 त्यों यह दुर्लम-देह बनारसि, पाय-अजान-अकारथ खोवै ॥

कल्याण मन्दिर स्तोत्र श्री कुमुदचन्द्राचार्य की संस्कृत रचना का हिन्दी पद्यानुवाद है। इसे परम जोत भी कहते हैं। बहुत से भाई प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। इसके प्रथम पद्य का पहिला पद परमजोत है, इसीलिये इसे परमजोत कहते हैं। विस्तार भय से हम उसका उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकते। श्री जिनसेना-चार्य के संस्कृत जिनसहस्रनाम स्तोत्र का हिन्दी-पद्यानुवाद कवि की तीसरी रचना है। इन तीनों ही-रचनाओं के अनुवाद में कवि काफ़ी सफल रहे हैं।

**आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी कवितायें:—**

बनारसीविलास की अधिकांश रचनाये किसी न किसी रूप में आध्यात्म विषय से ओतप्रोत है। ऐसा-लगता है मानो आत्मा और परमात्मा के गुणगान में कवि ऐसे सने हुये थे कि उनका प्रत्येक-शब्द-आध्यात्म की छाप लेकर निकलता था। स्वयं कवि आत्मा के गुणगान में-तल्लीन होकर उसके गुणगान किया करते थे और “मेरे अन्तर देखिये घट घट अन्तर-राम” की पुकार से

जगत को सावधान किया करते थे । आत्मा का गुणगान करते हुये उन्होंने अध्यात्मवचोसी में जो निम्न पद्य लिखा है वह देखिये कितना सुन्दर है ।

ज्यों सुवास फल फूल में दही दूध में घीव ।

पावक काठ पाषाण में त्यों शरीर मे जीव ॥

चेतन पुद्गल यों मिले, ज्यों तिल में खलि तेल ।

प्रकट एक से देखिये, यह अनादि को खेल ।

वह वाके रस में रमें, वह वासों लपटाय ।

चुम्बक करपै लोह को, लोह लगै तिह धाय ।

फर्मचक्र की नींद सों मृषा स्वप्न की दौर

ज्ञान चक्र की दरनि में सजग मांति सब ठौर ॥

अध्यात्म की उत्कर्ष सीमा का नाम रहस्यवाद है । इसलिये कवि की कुछ कवितायें जिनमें अध्यात्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, रहस्यवाद की कोटि में चली जाती हैं । हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी कवियों में महाकवि कवीर का नाम उल्लेखनीय है । लेकिन यदि पाठकगण बनारसीविलास की कुछ रहस्यवादी कविताएँ पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि कविवर बनारसीदास भी कवीर की कोटि के ही कवि थे । डा० रामकुमार के शब्दों में रहस्यवाद आत्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त एवं निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता ।

कवि के अध्यात्म गीत में आत्मा नाथक है और सुमति उसकी पत्नी है। सुमति आत्मा के विरह में जल में मछली की तरह तड़फने लगती है। वह आत्मा का दर्शन पाने पर समुद्र में वृंद की तरह समा जाना चाहती है।

कवि की निम्न पंक्तियाँ पढ़िये—

मैं विरहिन पिय के आधीन, यों तलफों उयों जल बिन मीन ।

मेरा मनका प्यारा जो मिले ।

बाहिर देखू तो पिय दूर, घट देखे घः में भरपूर,

घट महि गुप्त रहै निरधार, वचन अगोचर मन के पार ।

अलख अपूरति वर्णन कोय, कबधों पिय के दर्शन होय ।

विरह में व्याकुल सुमति को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि आत्मा उसने भिन्न नहीं है वह तो उसी के घटमें बसती है। तब वह कहती है—

पिय मोरे घट, मैं पिय माहि, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाहीं ।

पिय मो करता, मैं करतूति, पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति ।

पिय सुख सागर, मैं सुख सीव, पिय शिव मन्दिर, मैं शिवनीय ॥

एक दूसरे पद में सुमति के हृदय में आत्मा के प्रति प्रेम की धारा अबाध रूप से वहने लगती है। आत्मा की ओर देखते ही उसके परायेपन की गगरी फूट जाती है और दुविधा का अंचल हट जाता है। इसका एक उदाहरण देखिये—

धालम तुहँ तन, चितवन गागरि फूटि ।  
 अचरा गौ-फहराय, सारम गै छूटि ॥  
 पिउ-सुकि आवत वन में पेसिउ पेलि ।  
 छाडउ राज डगरिया मयऊ अकेलि ॥२॥  
 काय नगरिया भीतर चेतन, भूप ।  
 करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप ॥३॥  
 चेतन तुहु जनि सोवहु नोद अघोर ।  
 चार चोर घर मूसहि, सरवस तोर ॥४॥  
 चेतन मयऊ अचेतन सगरा पाय ।  
 चक्कमक में आगी देखी नहि जाय ॥५॥  
 चेतन तुहि लपटाय प्रेम रस फाँद ।  
 जस राखत वन तोपि त्रिमल निशि चाद ॥६॥  
 चेतन यह भव सागर धरम जिहाज ।  
 तिहि चढ़ चैठो द्वाडि लोक की लाज ॥७॥

एक दूसरी विशेषता-रहस्यवाद में बतलाई गई है वह यह है उसमें आध्यात्मिक तत्त्व हो । संसार की नीरस-वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद रूप ग्रहण करता है जिसमें सदैव नयी नयी उमंगों की सृष्टि होती है । रहस्यवादी के मानस में प्रत्येक समय एक ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनन्त शक्ति की अनुभूति में मग्न रहता है और सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और न शोक का ही प्रसार है” ।

अध्यात्मफाग में जीव को यह अनुभव होने लगता है कि बिना आत्मज्ञान के ईश्वर का रूप किस तरह प्राप्त हो सकता है। जिसकी महिमा अगम्य एवं अनूठी है तथा जो अगोचर होने पर भी हृदय में ही समाया हुआ है। अध्यात्म ज्ञान होने पर शुभ भाव दल रूपी पल्लव लहराने लगते हैं और सहज आनन्द रूपी बसन्त का आगमन होने लगता है। सुमति कोकिल बोलने लगती हैं और मन रूपी भौरा मदोन्मत्त हो उठता है। कवि के शब्दों में देखिये:-

अध्यात्म विन क्यों पाहए हो, परम पुरुष को रूप ।

अघट अंग घट मिलि रखो हो, महिम अगम अरूप ॥

माया रजनी लघु मई हो, समरस दिन शशि जीत ।

मोह पंक की धिती घटी हो, सशय शिशिर व्यतीत ॥

शुभ दल पल्लव लहलहे हो, आयो सहज बसन्त ॥

सुमति कोकिला गहगही हो, मन मधुकर मयमत ॥

पहेली नामक कविता में कवि ने आत्मा की सुमति एवं कुमति नामकी दो वनिताओं का स्वरूप एवं उनका वार्तालाप के रूप में जो आत्मा एवं अच्छे वुरे कर्मोंका वर्णन किया है वह उस अवस्था का वर्णन है जहाँ वह सदा जागृत रहती है और कभी सुप्त अवस्था में नहीं रहती। सुमति अपने सहेलियों के संग क्रीडा करती हुई जो पहेली उनके सामने उपस्थित करती है और सखियाँ जिस प्रकार उसका समाधान करती है उसको कवि के ही शब्दों में पढ़िये:-

करै विलास हास कौतूहल, अगणित संग सहेली ।

काहूँ संमय पाय सखियन सौं, कहे पुनीत पहेली ॥

मोरे आंगन विरवा उलझो, विना पवन भकुलाई ।

ऊँचि डाल बड़ पात सघनवां, छांह सौत के जाई ॥

बोली सखि बात मैं समुभी, कहूँ अर्थ अत्र जो है ।

तेरे घर अन्तर घट नायक, अद्भुत विरवा सोहै ॥

ऊँची डाल चेतना उद्धत, बड़े पात गुण भारी ।

ममता बात गात नहिं परसे, छकनि छांह छतनारी ॥

इस प्रकार बनारसी-विलास की अध्यात्मगीत, अध्यात्मफाग, वरवा, शिवपच्चीसी, पहेली, शान्तिजिनस्तुति आदि कविताएँ रहस्यवादी रचनायें कही जा सकती हैं ।

### सुभाषित, पद एवं स्फुट कवितायें:—

सूक्तियों का ही नाम सुभाषित है । हिन्दी के प्रायः सभी कवियों ने अपने २ काव्यों में सुभाषितों का प्रयोग किया है । ये सुभाषित मानव को सत्प्रेरणा देते हैं । बनारसीदासजी ने भी प्राचीन कवियों के मार्ग को अपनाया एवं अपनी कविताओं को सूक्तियों से अलंकृत किया । ज्ञान बावनी, मौलपैडी, ज्ञान पच्चीसी प्रश्नोत्तरदोहा, प्रश्नोत्तररत्नमाला आदि कविताओं में सुभाषितों की भरमार है । इन सुभाषितों के द्वारा कवि ने संसारी मनुष्य को तरह २ के उपदेश दिये हैं । ज्ञान पच्चीसी में प्रयुक्त कुछ सुभाषित देखिये:—

ज्यों औषध अजन किये तिमिर रोग मिट जाय ।

त्यों सतगुरु उपदेश तें, सशय वेग बिलाय ॥

ज्यों सछिद्र नौका चढे, बूडइ अंध अदेख ।

त्यों तुम मवजल में परे, बिन विवेक धर लेख ॥

× × × × × × ×

मन जहाज घट में प्रगट, भव समुद्र घट माहि ।

मूरख मरम न जानही, बाहिर खोजन जाय ॥

सुभाषितों के अतिरिक्त बनारसीदासजी के कुछ पद भी मिलते हैं जो गागर में सागर की कहावत को चरितार्थ करने वाले हैं। सभी पद अध्यात्म रस से सने हुये हैं। तथा संसार की वास्तविक दशा को बतलाने वाले हैं। कवि एक पद में जगत् के प्राणियों को सम्बोधित करता हुआ कहता है।

चेतन तू तिहुकाल अकेला ।

नदी नाव सजोग मिलै ज्यो, त्यों कुट्टंष का मेला ॥चेतन॥

एक दूसरे पद में वे जीव को उलहाना देते हुये कहते हैं:—

चेतन तोहि न नेक संभार ।

नख सिख लों दिद बंधन बेढे, कौन करे निरवार ॥चेतन॥

जैसै आग पषान काठ मे लखिय न परत लगार ।

मदिरापान करत मतवारो, ताहि न कछू विचार ॥चेतन॥

एक पद में जब वे कहते हैं:—

हम बैठे अपने मौन सौं ।

दिन दश के महिमान जगत जन बोलि बिगारै कौन सौं ॥ हम बैठे ॥

इसे पढ़ कर आत्मा में एक नवीन लहर दौड़ती है और संसार की विचित्र दशा पर अवश्य विचार उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार कवि के सभी पद जिनकी संख्या २७ है, भावपूर्ण एवं सुन्दर हैं ।

सुभाषित एवं पदों के अतिरिक्त कवि द्वारा लिखी हुई कुछ स्फुट रचनायें भी हैं जिनका उल्लेख करना भी यहां आवश्यक है । इन रचनाओं में हमें कवि की बहुमुखी प्रतिभा का पता लगता है । सोलह तिथि, पददर्शनाष्टक, चातुर्वर्ण्य, प्रस्ताविक फुटकर कविता, गोरखनाथ के वचन, वैद्य आदि के भेद आदि रचनाओं को स्फुट कविताओं में स्थान दिया जा सकता है ।

कवि के समय में भारत में मुसलमानों का राज्य था । हिन्दू और मुसलमान आपस में धर्म के नाम पर लड़ते थे । उससे कवि को घृणा थी । कवि की भावना के अनुसार दोनों धर्म भिन्न होते हुये भी दोनों का परमात्मा एक ही है "मेरे जैनन देखिये घट घट अन्तर राम" । इसका उदाहरण कवि के शब्दों में पढ़िये:-

एक रूप हिन्दू तुरुक, दूर्जा दशा न कोय ।

मन की द्विविधा मान कर भये एक-सौ दीय ॥

दोऊं भूले मरम में करें वचन की-टेक ।

राम राम हिन्दू कहें, तुर्क सलामालेक ॥

इसके पुस्तग वांचिये, वे हू पढे कितेव ।

एक वस्तु के नाम द्वय, जैसे शोभा, जेव ॥



तिनको द्विविधा जो लखें रंग विरंगी चाम,  
मेरे नैनन देखिये, घर घर अन्तर राम ॥

गोरखनाथ के सम्प्रदाय का कवि के समय में काफी प्रचार था इसीलिये गोरखनाथ के वास्तविक उपदेशों को कवि ने अपनी कविता में उपस्थित किया। सुन्दर एवं सरल शब्दों में कवि ने किस प्रकार गोरखनाथ के वचनों को उपस्थित किया है वह पठनीय है। इसकी एक चौपाई देखिये।

माया जोर कहै मैं ठाकर, माया गये कहावै चाकर।  
माया त्याग होय जो दानी कह गोरख तीनों अज्ञानी ॥

**हिन्दी गद्य लेखक के रूप में:—**

बनारसीदासजी की प्रायः सभी रचनाएँ पद्यों अथवा छंदों में ही हैं किन्तु गद्य में भी उनकी दो रचनाएँ बनारसी विलास में हैं। इन दोनों के नाम “परमार्थवचनिका” और “उपादान निमित्त की चिट्ठी” हैं। ये दोनों निबन्ध १७ वीं शताब्दी के हिन्दी गद्य के नमूने हैं। ये निबन्ध ब्रजभाषा में लिखे हुये हैं लेकिन अवधि भाषा का भी उन पर पर्याप्त प्रभाव दिखलायी देता है। इसके अतिरिक्त कहीं २ द्वंद्वारी भाषा का भी प्रभाव इनमें दृष्टि-गोचर होता है।

हिन्दी भाषा के अतिरिक्त कवि पञ्जाबी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। उन्होंने जो मोक्षपैडी नामक कविता लिखी है वह पञ्जाबी भाषा की सुन्दर रचना है।

जयपुर

कस्तूरचन्द कासलीवाल

ता० १५-५-५४ ई०



## शुद्धि पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध मुद्रित	शुद्ध पाठ
२	७	सचनिका	सबचनिका
२	१०	विरधौ	विरधौ
६	४	अद्भुत	अद्भुत
८	१७	इह	द्रह
११	३	मेघातीत	मेघातीत
११	८	विश्रामी	विश्रामी
१३	५	वज्रव्यपी	वज्रव्यापी
१५	११	कोपदवानव	कोपदवानल
१७	११	श्रेयस्नरो.	श्रेयस्नरो
२०	६	काचखडमन	काचखंडमन
२१	८	गुणिसग	गुणिसंग
३३	१६	कुरग	कुरंग
३४	५	विसरै	विस्तरै
३४	१७	घन	धन
३६	१२	कुळ	कुल
४०	६	जतु	जंतु
४४	१०	सताप	संताप
४६	६	ऐसो	ऐसी

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध मुद्रित	शुद्ध पाठ
४७	८	कल	भल
४६	१०	सूजी	सूजि
५५	१३	गिशाचर	निशाचर
५६	१	ताको	ताकी
५६	१३	संतम सुपुंज	संतमस पुंज
६१	२	ध्रव	ध्रुव
६५	१५	राजाको	राजको
७२	६	वनारसी	वानारसी
७२	१६	तिन में	तामे
७६	२०	विपरात	विपरीत
७८	५	कपायक	कपायके
८०	८	मनमथको	मनमंथको
८१	४	बढ	बढै
८३	३	नाभि	मृगनाभि
८८	१८	मढभावको	मूढेभावको
८६	२३	ह	हैं
६२	१३	व्यालीस आठ	चालीस आठ
६२	१७	घर	घर
६२	१६	सम	सभ
६२	२२	ध्रव	ध्रुव
६४	१०	मनहार	मरनहार

पृष्ठ संख्या	श्रंक्ति	अशुद्ध मुद्रित	शुद्ध पाठ
६४	१५	त्योँ त्योँ त्योँ	त्योँ त्योँ
६५	२	बहुरानी	बहुरागो
६७	५	श्रति	श्रुति
६८	६	गये	भये
१०१	२०	कंथु	कुंथु
१०२	१७	जिनंद सुमति	जिनंद अभिनंद सुमति
१०४	२१	कुश्रति	कुश्रुति
१०५	१६	शुशुभ अभ	शुभ. अशुभ
१०५	१८	सीधे	साधे
१०८	३	विलल	विमल
११५	७	जव	जव
११८	६	भोग जुरै	भोग न जुरै
११८	६	उरभोग	उपभोग
१२०	६	घेय	धेय
१२१	१०	उपग	उपंग
१२२	१२	कम	कर्म
१३०	८	हिर	निहार
१३०	१५	भत	भीत
१३१	२२	शिवपथसधक	शिवपथसाधक
१३२	१६	लोपना	लोचना
१३३	१६	तिहुंवादी *	तिहुंदादी

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध मुद्रित	शुद्ध पाठ
१३४	७	करंकसा	रंकसा
१३४	१८	हरुवै तन	हरुवैतन
१३४	२१	परै रे	परैरे
१३५	१	पापी	पानी
१३५	४	दुहुं वादी	दुहुंवादी
१३५	१६	तु साडा	तुसाडा
१४२	६	चोरा	चोरी
१४२	१६	धर्म ध्या	धर्मध्यान
१४३	६	विपरीत	विपरति
१४४	१२	थातै	यातै
१४४	१६	उयों	ज्यों
१४७	१०	परिगृहं	परिग्रह
१४६	६	शुल्कध्यान	शुक्लध्यान
१५०	१६	चड ड लै	चड डोलै
१५२	१८	पावनके	पवनके
१५३	८	वदवान	वादवान
१५४	२	मयमत	मयमंत
१५५	७	किराम	विराग
१५८	८	भग	भंग
१५८	१८	आप न	आपन
१५६	२	दुरमात	दुरमति

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध मुद्रित	शुद्ध पाठ
१५६	८	रच	रंच
१६२	२०	उभाभय	उवभाय
१६४	१७	पडिता	पंडिता
१७०	१६	अखडित	अखंडित
१७८	१६	पुरुषमडन	पुरुषमंडन
१७६	४	हैं	हैं
१७६	१२	पुहुष	पुहुष
१७६	१८	पुपशर	पुष्पशर
१७७	३	जिनपजत	जिनपूजत
१७७	२०	इसके	इनके
१७६	१६ वीं पंक्ति	'जिनधर्म' शीर्षक के आगे नीचे लिखा दोहा और पदें ❀	
१७६	१७ वीं पंक्ति	(दोहा नं० ६) का शीर्षक 'आगम' पदें	
१८१	७	चचल	चंचल
१८१	११	कुलान	कुलीन
१८२	६	खोखन	खोजन
१८२	६	चिद्रप	चिद्रूप
१८२	१०	जाग	जोग
१८३	१	दन	दम

❀ जो पर तजि आपाभजै, जहाँ सुदिष्टि जुत कर्म  
अशरण रूप अजोग पथ सौ कहिए जिनधर्म (१५) (क.)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध मुद्रित	शुद्ध पाठ
१८३	१६	श्रद्धा	श्रद्धा
१८३	२०	यम	दम
१८३	२१	वारज	वीरज
१८३	१	रतु	रितु
१८४	३	ध्रुव	ध्रुव
१८४	१६	साय	सोय
१८५	१०	खोय	सोय
१९१	४	कीर्त्ति	कीर्त्ति
१९८	४	परदोप	परदोप
१९९	१	परेवा चरे	परे वाचरे
१९९	७	विपाद्	विषाद्
२०३	६	वाचा	वावा
२२३	१५	पटपेवन	पटपेखन





श्रीमहावीरस्वामिने नमः

# बनारसीविलास

## विषय सूचनिका

सर्वैया इकतीस

प्रथम सहस्रनाम <sup>१</sup>सिन्दूरप्रकरधाम, <sup>२</sup>बावनीसर्वैया वेद-  
निर्णय <sup>३</sup>पचासिका । त्रेसठशलाका <sup>४</sup>भार्गना <sup>५</sup>करमकी <sup>६</sup>प्रकृति-  
कल्याणमन्दिर <sup>७</sup>संधुवन्दन <sup>८</sup>सुवासिका ॥ पैड़ी <sup>९</sup>कर्म <sup>१०</sup>की <sup>११</sup>छतीसी  
पीछे <sup>१२</sup>ध्यानकी <sup>१३</sup>बतीसी, <sup>१४</sup>अध्यातम <sup>१५</sup>बतीसी <sup>१६</sup>पचीसी <sup>१७</sup>ज्ञान  
रासिका । शिवकी <sup>१८</sup>पचीसी <sup>१९</sup>भवसिन्धुकी <sup>२०</sup>चतुरदशी, <sup>२१</sup>अध्यात-  
मफाग <sup>२२</sup>तिथिपोड़सनिवासिका ॥ १ ॥

तेरहकाठिया <sup>२३</sup>मेरे <sup>२४</sup>मनका <sup>२५</sup>सुप्यारागीत, <sup>२६</sup>पंचपद <sup>२७</sup>विधान  
सुमति <sup>२८</sup>देवीशत है । शारदा <sup>२९</sup>बड़ाई <sup>३०</sup>नवदुरगा <sup>३१</sup>निर्णय <sup>३२</sup>नाम,

× शासिका पाठान्तर है । + विलासिका पाठान्तर है ।

२६                      २७ २८                      २९                      ३० ३१  
 नौरतन कवित्त सु पूजा दानदत्त है ॥ दशबोल पहेली सुप्रश्न  
 ३२                      ३३                      ३४                      ३५  
 प्रश्नोत्तरमाला, अवस्था मतान्तर दोहरा वरणत है । अजि-  
 ३६                      ३७                      ३८                      ३९  
 तके छन्द शान्तिनाथछन्द सेनानव, नाटककवित्त चार,  
 ४०  
 वानी मिथ्यामत है ॥ २ ॥

४१                      ४२                      ४३  
 फुटकरसवैया वनाये वच गोरखके, वेद आदिभेद  
 ४४                      ४५                      ४६  
 परमारथ वचनिका । उपादान निमित्तकी चीठी तिनहीके  
 ४७                      ४८                      ४९                      ५०  
 दोहे, भैरों रामकली ओ विलावल सचनिका ॥ आशावरी  
 ५१                      ५२                      ५३                      ५४                      ५५                      ५६  
 वरवै सु धनाश्री सारंग गौरी, काफी ओ हिंडोलना  
 ५७  
 मलारकी सचनिका । भूपर उद्योत करो भव्यनके हिरदैमें,  
 विरधौ वनारसीविलासकी रचनिका ॥ ३ ॥

॥ दोहा ॥

ये वरणे संक्षेपसों, नाम भेद विरतन्त ।  
 इनमें गर्मित भेद बहु, तिनकी कथा अनन्त ॥  
 महिमा जिनके वचनकी, कहै कहां लग कोय ।  
 ज्यों ज्यों मति विस्तारिये, त्यों त्यों अधिकी होय ॥२॥

॥ इति विषयसूचनिका ॥

## अथ जिनसहस्रनाम ।

दोहा

परमदेव परनामकर, गुरुको करहुं प्रणाम ।  
 चुधिवल वरणों ब्रह्मके, सहस्रत्र्योत्तर नाम ॥ १ ॥  
 केवल पदमहिमा कहों, कहो सिद्ध गुणगान ।  
 भाषा प्राकृत संस्कृत, त्रिविध शब्द परमान ॥ २ ॥  
 एकारथवाची शब्द, अरु द्विरुक्ति जो होय ।  
 नाम कथनके कवितमे, दोष न लागे कोय ॥ ३ ॥

चौपई १५ मात्रा

प्रथमोकाररूप ईशान । करुणासागर कृपानिधान ।  
 त्रिभुवननाथ ईश गुणविन्द । गिरातीत गुणमूल अनिन्द ॥ १ ॥  
 गुणी गुप्त गुणचाहक बली । जगतदिवाकर कौतूहली ।  
 क्रमवर्ती करुणामय क्षमी । दशावतारी दीरघ दमी ॥ २ ॥  
 अलख अमूरति अरस अखेद । अचल अवाधित अमर अवेद ।  
 परम परमगुरु परमानन्द । अन्तरजामी आनन्दकन्द ॥ ३ ॥  
 प्रानिनाथ पावन अमलान । शीलसदन निर्मल परमान ।  
 तत्त्वरूप तपरूप अमेय । दयाकेतु अविचल आदेय ॥ ४ ॥  
 शीलसिन्धु निरुपम निर्वाण । अविनाशी अस्पर्श अमान ।  
 अमल अनादि अदीन अश्लोभ । अनातङ्क अज अगम अलोभ ॥ ५ ॥

१ चाणी का अविषय

अनवस्थित अध्यातमरूप । आगमरूपी अघट अनूप ।  
 अपट अरूपी अभय अमार । अनुभवमंडन अनघ अपार ॥ ६ ॥  
 विपुलपूतशासन दातार । दशातीत उद्धरन उदार ।  
 नभवत पुंडरीकवत हंस । करुणामन्दिर एनविध्वंस ॥ ७ ॥  
 निराकार निहचै निरमान । नानारसी लोकपरमान ।  
 सुखधर्मा सुखज सुखपाल । सुन्दर गुणमन्दिर गुणमाल ॥ ८ ॥

### दोहा

अम्बरवत आकाशवत, क्रियारूप करतार ।  
 केवलरूपी कौतुकी, कुशली करुणागार ॥ १२ ॥

इति ओंकार नाम प्रथमशतक ॥ १ ॥

### चौपई

ज्ञानगम्य अध्यातमगम्य । रमाविराम रमापति रम्य ।  
 अप्रमाण अघहरण पुराण । अनमित लोकालोक प्रमाण ॥ १३ ॥  
 कृपासिन्धु कूटस्थ अछाय । अनभव अनारूढ असहाय ।  
 सुगम अनन्तराम गुणग्राम । करुणापालक करुणाधाम ॥ १४ ॥  
 लोकविकाशी लक्षणवन्त । परमदेव परब्रह्म अनन्त ।  
 दुराराध्य दुर्गस्थ दयाल । दुरारोह दुर्गम द्विगपाल ॥ १५ ॥  
 सत्यारथ सुखदायक सूर । शीलशिरोमणि करुणापूर ।  
 ज्ञानगर्भ चिद्रूप निधान । नित्यानन्द निगम निरजान ॥ १६ ॥

अकथ अकरता अजर अजीत । अवपु अनाकुल विषयातीत ॥  
 मंगलकारी मंगलमूल । विद्यासागर विगतदुकूल ॥ १७ ॥  
 नित्यानन्द विमल निरुजान । धर्मधुरंधर धर्मनिधान ।  
 ध्यानी धामवान धनवान । शीलनिकेतन बोधनिधान ॥ १८ ॥  
 लोकनाथ लीलाधर सिद्ध । कृती कृतारथ महासमृद्ध ।  
 तपसागर तपपुञ्ज अछेद । भवभयभंजन अमृत अभेद ॥ १९ ॥  
 गुणावास गुणमय गुणदाम । स्वपरप्रकाशक रमताराम ।  
 नवल पुरातन अजित विशाल । गुणनिवास गुणग्रह गुणपाल ॥ २० ॥

दोहा

लघुरूपी लालचहरन, लोभविदारन वीर ।  
 धारावाही धौतमल, धेय धराधर धीर ॥ २१ ॥  
 इति ज्ञानगम्यनाम द्वितीयशतक ॥ २ ॥

पद्मरिच्छन्द ।

चिन्तामणि चिन्मय परम नेम । परिणामी चेतन परमछेम ।  
 चिन्मूरति चेता चिद्विलास । चूडामणि चिन्मय चन्द्रभास ॥ २२ ॥  
 चारित्रधाम चित्त चमत्कार । चरनातम रूपी चिदाकार ।  
 निर्वाचक निर्मम निराधार । निरजोग निरंजन निराकार ॥ २३ ॥  
 निरभोग निरास्रव निराहार । नगनरकनिवारी निर्विकार ।  
 आत्मा अनक्षर अमरजाद । अक्षर अवंध अक्षय अनाद ॥ २४ ॥

आगत अनुकम्पामय अडोल । अशरीरी अनुभूती अलोल ।  
 विश्वम्भर विस्मय विश्वटेक । ब्रजभूषण ब्रज नायक विवेक ॥ २५ ॥  
 छलभंजन छायक छीनमोह । मेधापति अकलेवर अक्रोह ।  
 अद्रोह अविग्रह अग अरंक । अद्भुतनिधि करुणापति अवंक ॥ २६ ॥  
 सुखराशि दयानिधि शीलपुंज । करुणासमुद्र करुणाप्रपुंज ।  
 वज्रोपम व्यवसायी शिवस्थ । निश्चल विमुक्त ध्रुव सुथिर सुस्थ ॥ २७ ॥  
 जिननायक जिनकुंजर जिनेश । गुणपुंज गुणाकर मंगलेश ।  
 क्षेमंकर अपद अनन्तपानि । सुखपुंजशील कुलशील खानि ॥ २८ ॥  
 करुणारसभोगी भवकुठार । कृपिवत कृशानु दारन तुसार ।  
 कैतवरिपु अकल कलानिधान । धिपणाधिप ध्याता ध्यानवान ॥ २९ ॥

### दोहा

छपाकरोपम छलरहित, छेत्रपाल छेत्रज्ञ ।  
 अंतरिक्षवत गगनवत, हुत कर्मा कृतयज्ञ ॥ ३० ॥  
 इति चिन्तामणि नाम तृतीयशतक ॥ ३ ॥

### पद्धरिछन्द ।

लोकांत लोकप्रभु लुप्तमुद्र । संवर सुखधारी सुखसमुद्र ।  
 शिवरसी गूढरूपी गरिष्ठ । बलरूप बोधदायक वरिष्ठ ॥ ३१ ॥  
 विद्यापति धीधव विगतवाम । धीवंत विनायक वीतकाम ।  
 धीरस्व शिलीद्रुम शीलमूल । लीलाविलास जिन शारदूल ॥ ३२ ॥  
 परमारथ परमात्म पुनीत । त्रिपुरेश तेजनिधि त्रपातीत ।  
 तपराशि तेजकुल तपनिधान । उपयोगी उग्र उद्योतवान ॥ ३३ ॥

उत्पातहरण उदामधाम । ब्रजनाथ विमद्वर विगतनाम ॥  
 बहुरूपी बहुनामी अजोष । विषहरण विहारी विगतदोष ॥ ३४ ॥  
 छितिनाथ छमाधर छमापाल । दुर्गम्य दयाणव दयामाल ॥  
 चतुरेश चिदात्म चिदानन्द । सुखरूप शीलनिधि शीलकन्द ॥ ३५ ॥  
 रसव्यापक राजा नीतिवत । ऋषिरूप महर्षि महमहंत ॥  
 परमेश्वर परमऋषि प्रधान । परत्यागी प्रगट प्रतापवान् ॥ ३६ ॥  
 परतत्परमसुख परममुद्र । हन्तारि परमगति गुणसमुद्र ॥  
 सर्वज्ञ सुदर्शन सदावृत्त । शंकर सुवासवासी अलित ॥ ३७ ॥  
 शिवसम्पुटवासी सुखनिधान । शिवपथ शुभंकर शिखावान् ॥  
 असमान अंशधारी अशेष । निर्वन्दी निर्जड निरवशेष ॥ ३८ ॥

दोहा

विस्मयवारी वोधमय, विश्वनाथ विश्वेश ।  
 बंधविमोचन वज्रवत, बुविनायक विबुधेश ॥ ३६ ॥

इति लोकात् नाम चतुर्थं शतक ॥४॥

छन्दरोडक ।

महामंत्र मंगलनिधान मलहरन महाजप ।  
 मोक्षस्वरूपी मुक्तिनाथ मतिमथन महातप ॥  
 निस्तरङ्ग नि सङ्ग नियमनायक नंदीसुर ।  
 महादानि महज्ञानि महाविस्तार महागुर ॥ ४० ॥  
 परिपूरण परजायरूप कमलस्थ कमलवत ।  
 गुणनिकेत कमलासमूह धरनीश ध्यानरत ॥

भूतिवान भूतेश भारद्वाज भर्म उच्छेदक ।

सिंहासननायक निराश निरभयपदवेदक ॥ ४१ ॥

शिवकारण शिवकरन भविक बंधव भवनाशन ।

नीरिंश नि समर सिद्धिशासन शिवध्यासन ॥

महाकाज महाराज मारजित मारविहंडन ।

गुणमय द्रव्यस्वरूप दशाधर दारिद्रखंडन ॥ ४२ ॥

जोगी जोग अतीत जगत उद्वरन उजागर ।

जगतबंधु जिनराज शीलसंचयसुखसागर ॥

महाशूर सुखसदन तरनतारन तमनाशन ।

अग्नितनाम अनंतधाम निरमद निरवासन ॥ ४३ ॥

चारिजवत जलजवत पद्म उप्पम पंकजवत ।

महाराम महधाम महायशवंत महासत ॥

निजकृपालु करुणालु बोधनायक विद्यानिधि ।

प्रशमरूप प्रशमीश परमजोगीश परमविधि ॥ ४४ ॥

वस्तुछन्द ।

सुरसभोगी २ शील समुदायकी चाल—

शुभकारनशील इह शील राशि संकट निवारन

त्रिगुणातम तपतिहर परमहंसपर पंचवारन ॥

परम पदारथ परमपथ, दुखभंजन दुरलक्ष ।

तोषी सुखपोषी सुगति, दमी दिगम्बर दक्ष ॥ ४५ ॥

इति महामंत्र नाम पंचम शतक ॥ ५ ॥



रोडक छन्द ।

परमप्रबोध परोक्षरूप, परमादनिकन्दन ।

परमध्यानधर परमसाधु, जगपति जगवंदन ॥

जिन जिनपति जिनसिंह, जगतमणि बुधकुलनायक ।

कल्पातीत कुलालरूप, दृग्मय दृग्दायक ॥ ४६ ॥

कोपनिवारणधर्मरूप, गुणराशि रिपुंजय ।

करुणासदन समाधिरूप, शिवकर शत्रुंजय ॥

परावर्त्तरूपी प्रसन्न, आतमप्रमोदमय ।

निजाधीन निर्वन्द, ब्रह्मवेदक व्यतीतभय ॥ ४७ ॥

अपुनर्भव जिनदेव सर्वतोभद्र कलिलहर ।

धर्माकर ध्यानस्थ धारणाधिपति धीरधर ॥

त्रिपुरगर्भ त्रिगुणी त्रिकाल कुशलातपपादप ।

सुखमन्दिर सुखमय अनन्तलोचन अविषादप ॥ ४८ ॥

लोकत्रयवासी त्रिकालसाखी करुणाकर ।

गुणआश्रय गुणधाम गिरापति जगतप्रभाकर ॥

धीरज धौरी धौतकर्म धर्मग धामेश्वर ।

रत्नाकर गुणरत्नराशि रत्नहर रामेश्वर ॥ ४९ ॥

निरलिङ्गी शिवलिङ्गधार बहुतुंड अनानन ।

गुणकदम्ब गुणरसिक रूपगुण<sup>१</sup>अंत्रिपकानन ॥

निरअंकुश निरधाररूप निजपर परकाशक ।

विगतास्रव निरबंध बंधहर बंधविनाशक ॥ ५० ॥

१ गुण रूपी वृत्तों के वन ।

वृहत अनङ्क निरंश अंशगुणसिन्धु गुणालय ।  
 लक्ष्मीपति लीलानिधान वितपति विगतालय ॥  
 चन्द्रवदन गुणसदन चित्रधर्मा सुखथानक ।  
 ब्रह्माचारी वज्रवीर्य बहुविधि निरवानक ॥ ५१ ॥

दोहा

सुखकदम्ब साधक सरन, सुजन इष्टसुखवास् ।  
 बोधरूप बहुलातमक, शीतल शीलविलास ॥ ५२ ॥  
 इति श्रीपरमप्रबोधनामक पष्ठ शतक ॥६॥  
 रूप चौपई ।

कैवलज्ञानी केवलदरसी । सन्यासी संयमी समरसी ।  
 लौकातीत अलोकाचारी । त्रिकालज्ञ धनपति धनधारी ॥५४॥  
 चिन्ताहरण रसायन रूपी । मिथ्यादलन महारसकूपी ।  
 निर्वृत्तिकर्ता मृषापहारी । ध्यानधुरंधर धीरजधारी ॥५५॥  
 ध्याननाथ ध्यायक बलवेदी । घटातीत घटहर घटभेदी ।  
 उदयरूप उद्धत उतसाही । कलुषहरणहर किल्बिषदाही ॥५६॥  
 धीतराग बुद्धीश विधारी । चन्द्रोपम वितन्द्र व्यवहारी ।  
 अगतिरूप गतिरूप विधाता । शिवविलास शुचिमय सुखदाता ॥५७॥  
 परमपवित्र असंख्यप्रदेशी । करुणासिंधु अचिन्त्य अभेषी ।  
 जगतसूर निर्म्मल उपयोगी । भद्ररूप भगवन्त अमोगी ॥५८॥

१ ब्रह्मवीज अथवा वज्रवीज भी पाठ है । २ रसायति भी पाठ है ।  
 ३ अगतिरूप भी पाठ है ।

भानोपम भरता भवनासी । द्वन्द्वविदारण बोधविलासी ।  
 कौतुकनिधि कुशली कल्याणी । गुरु गुसाईं गुणमय ज्ञानी ॥५६॥  
 निरातंक निरवैर निरासी । मेघातीत मोक्षपदवासी ।  
 महाविचित्र महारसभोगी । भ्रमभंजन भगवान् अरोगी ॥६०॥  
 कल्मषभंजन केवलदाता । धरोद्धरन धरापति धाता ।  
 प्रज्ञाधिपति परम चारित्री । परमतन्त्रवित् परमविचित्री ॥६१॥  
 संगतीत संगपरिहारी । एक अनेक अनन्ताचारी ।  
 उग्ररूपी ऊरुधगामी । विश्वरूप विजयी विश्रामी ॥६२॥

### दोहा

धर्मविनायक धर्मधुज, धर्मरूप धर्मज्ञ ।  
 रत्नगर्भ राधारमण, रसनातीत रसज्ञ ॥ ६३ ॥  
 इति केवलज्ञानी नामक सप्तम शतक ॥ ७ ॥

### रूप चौपई ।

परमप्रदीप परमपददानी । परमप्रतीति परमविज्ञानी ।  
 परमज्योति अघहरन अगेही । अजित अखंड अनंग अदेही ॥६४॥  
 अतुल अशेष अरेष अलेषी । अमन अवाच अदेख अभेषी ।  
 अकुल अगूढ अकाय अकर्मी । गुणधर गुणदायक गुणमूर्त्ती ॥६५॥  
 निस्सहाय निर्म्मम नीरागी । सुधारूप सुपथग सौभागी ।  
 हतकैतवी मुक्तसंतापी । सहजस्वरूपी सबविधि व्यापी ॥६६॥

१ पाठ भेद-धाराधरन । २ पाठ भेद-परमरसज्ञानी ।

महाकौतुकी महद् विज्ञानी । कपटविदारन करुणादानी ।  
 परदारन परमारथकारी । परमपौरुपी पापप्रहारी ॥ ६७ ॥  
 केवलब्रह्म धरमधनधारी । हतविभाव हतदोष हतारी ।  
 भविकार्दवाकर मुनिमृगराजा । दयासिंधु भवसिंधु जहाजा ॥ ६८ ॥  
 शंभु सर्वदर्शी शिवपंथी । निरावाध निःसंग निग्रन्थी ।  
 यती यंत्रदाहक हितकारी । महामोहवारन बलधारी ॥ ६९ ॥  
 चित्री चित्रगुप्त चिद्वेदी । श्रीकारी संसारउच्छेदी ।  
 चितसन्तानी चेतनवंशी । परमाचारी भरमविध्वंसी ॥ ७० ॥  
 सदाचरण स्वशरण शिवगामी । बहुदेशी अनन्तपरिणामी ।  
 वितथभूमिदारनहलपानी । भ्रमवारिजवनदहनहिमानी ॥ ७१ ॥  
 चारु चिदङ्कित द्वन्दातीती । दुर्गरूप दुर्लभ दुर्जीती ।  
 शुभकारण शुभकर शुभमंत्री । जगतारन ज्योतीश्वर जंत्री ॥ ७२ ॥

### दोहा

जिनपुङ्गव जिनकेहरी, ज्योतिरूप जगदीश ।

मुक्ति मुकुन्द महेश हर, महदानंद मुनीश ॥ ७३ ॥

इति श्रीपरमप्रदीप नाम अष्टम शतक ॥ ८ ॥

मंगलकमला की ढाल ।

दुरित दलन सुखकन्द ए । हत भीत अतीत अमन्द ए ।

शीलशरणहत क्रोप ए । अनभंग अनग अलोप ए ॥ ७४ ॥

१ परम-पाठ भेद है । २ इन ( सूर्य ) यह भी पाठ है ।

हंसगरभ हतमोह ए । गुणसंचय गुणसन्दोह ए ।  
 सुखसमाज सुख गेह ए । हतसंकट विगत सनेह ए ॥ ७५ ॥  
 क्षोभदलन हतशोक ए । अगणित बल अमलालोक ए ।  
 धृतसुधर्म कृतहोम ए । सतसूर अपूरव सोम ए ॥ ७६ ॥  
 हिमवत हतसंताप ए । वज्रव्यापी विगतालाप ए ।  
 पुण्यस्वरूपी पूत ए । सुखसिंधु स्वयं संभूत ए ॥ ७७ ॥  
 समयसार श्रुतिधार ए । अविकल्प अजल्पाचार ए ।  
 शांतिकरन धृतशांति ए । कलरूप मनोहरकान्ति ए ॥ ७८ ॥  
 सिंहासन आरूढ ए । असमंजसहरन अमूढ ए ।  
 लोकजयी हतलोभ ए । कृतकर्मविजय धृतशोभ ए ॥ ७९ ॥  
 मृत्युंजय अनजोग ए । अनुकम्प अशंक असोग ए ।  
 सुविधिरूप सुमतीश ए । श्रीमान् मनीषाधीश ए ॥ ८० ॥  
 विदित विगत अवगाह ए । कृतकारज रूप अथाह ए ।  
 वर्द्धमान गुणभान ए । करुणाधरलीलविधान ए ॥ ८१ ॥  
 अक्षयनिधान अगाध ए । हतकलिल निहतअपराध ए ।  
 साधिरूप साधक धनी ए । महिमागुणमेरु महामनी ए ॥ ८२ ॥  
 उत्पतिवैध्रुववान ए । त्रिपदी त्रिपुज त्रिविधान ए ।  
 जगजीत जगदाधार ए । करुणागृह विपतिविदार ए ॥ ८३ ॥  
 जगसाक्षी वरवीर ए । गुणगेह<sup>३</sup> महागंभीर ए ।  
 अभिनंदन अभिराम ए । परमेयी परमोद्दाम ए ॥ ८४ ॥

महाकौतुकी महद विज्ञानी । कपटविदारन करुणादानी ।  
 परदारन परमारथकारी । परमपौरुपी पापप्रहारी ॥ ६७ ॥  
<sup>१</sup>  
 केवलब्रह्म धरमधनधारी । हतविभाव हतदोष हतारी ।  
 भविकादवाकर मुनिमृगराजा । दयासिंधु भवसिंधु जहाजा ॥ ६८ ॥  
 शंभु सर्वदर्शी शिवपंथी । निराबाध निःसंग निग्रन्थी ।  
 यती यंत्रदाहक हितकारी । महामोहवारन बलधारी ॥ ६९ ॥  
 चित्री चित्रगुप्त चिद्वेदी । श्रीकारी संसारउल्लेदी ।  
 चितसन्तानी चेतनवंशी । परमाचारी भरमविध्वंसी ॥ ७० ॥  
 सदाचरण स्वशरण शिवगामी । बहुदेशी अनन्तपरिणामी ।  
 वितथभूमिदारनहलपानी । भ्रमवारिजवनदहनहिमानी ॥ ७१ ॥  
 चारु चिदङ्कित द्वन्दातीती । दुर्गरूप दुर्लभ दुर्जीती ।  
 शुभकारण शुभकर शुभमंत्री । जगतारन ज्योतीश्वर जंत्री ॥ ७२ ॥

### दोहा

जिनपुङ्गव जिनकेहरी, ज्योतिरूप जगदीश ।

<sup>२</sup>  
मुक्ति मुकुन्द महेश हर, महदानंद मुनीश ॥ ७३ ॥

इति श्रीपरमप्रदीप नाम अष्टम शतक ॥ ८ ॥

मंगलकमला की ढाल ।

दुरित दलन सुखकन्द ए । हत भीत अतीत अमन्द ए ।

शीलशरणहत कोप ए । अनभंग अनग अलोप ए ॥ ७४ ॥

१ परम-पाठ भेद है । २ इन ( सूर्य ) यह भी पाठ है ।

हंसगरभ हतमोह ए । गुणसंचय गुणसन्दोह ए ।  
 सुखसमाज सुख गेह ए । हतसंकट विगत सनेह ए ॥ ७५ ॥  
 क्षोभदलन हतशोक ए । अगणित बल अमलालोक ए ।  
 धृतसुधर्म कृतहोम ए । सतसूर अपूरव सोम ए ॥ ७६ ॥  
 हि मवत हतसंताप ए । वज्रव्यपी विगतालाप ए ।  
 पुण्यस्वरूपी पूत ए । सुखसिंधु स्वयं संभूत ए ॥ ७७ ॥  
 समयसार श्रुतिधार ए । अविकल्प अजल्पाचार ए ।  
 शांतिकरन धृतशांति ए । कलरूप मनोहरकान्ति ए ॥ ७८ ॥  
 सिंहासन आरूढ ए । असमंजसहरन अमूढ ए ।  
 लोकजयी हतलोभ ए । कृतकर्मविजय धृतशोभ ए ॥ ७९ ॥  
 मृत्युंजय अनजोग ए । अनुकम्प अशंक असोग ए ।  
 सुविधिरूप सुमतीश ए । श्रीमान् मनीषाधीश ए ॥ ८० ॥  
 विदित विगत अवगाह ए । कृतकारज रूप अथाह ए ।  
 वर्द्धमान गुणभान ए । करुणाधरलीलविधान ए ॥ ८१ ॥  
 अक्षयनिधान अगाध ए । हतकलिल निहतअपराध ए ।  
 साधिरूप साधक धनी ए । महिमागुणमेरु महामनी ए ॥ ८२ ॥  
 उतपतिवैध्रु ववान ए । त्रिपदी त्रिपुंज त्रिविधान ए ।  
 जगजीत जगदाधार ए । करुणागृह विपतिविदार ए ॥ ८३ ॥  
 जगसाक्षी वरवीर ए । गुणगेह<sup>३</sup> महागंभीर ए ।  
 अभिनंदन अभिराम ए । परमेयी परमोद्दाम ए ॥ ८४ ॥

दोहा

१

सुगुण विभूतीवैभवी, सेमुपीश सवुद्ध ।  
सकलविश्वकर्माश्रयभव, विश्वविलोचन शुद्ध ॥ ८५ ॥

इति दुरितदलननाम नवम शतक ॥ ६ ॥

मगल कमलाकद की डाल

शिवनायक शिव एव ए । प्रवलेश प्रजापति देव ए ।  
मुदित महोदय मूल ए । अनुकम्पा सिंधु अकूल ए ॥ ८६ ॥  
नीरोपम गतपंक ए । नीरीहत निर्गतशंक ए ।  
नित्य निरामय भौन ए । नीरन्ध्र निराकुल गौन ए ॥ ८७ ॥  
परमधर्मरथसारथी ए । धृत केवल रूपकृतारथी ए ।

२

परम वित्त भंडार ए । संवरमय संयमधार ए ॥ ८८ ॥  
शुभी सरवगत संत ए । शुद्धोधन शुद्ध सिद्धंत ए ।  
नैयायक नय जान ए । अविगत अनंत अभिधान ए ॥ ८९ ॥  
कर्मनिर्जरामूल ए । अघभंजन सुखद अमूल ए ।  
अद्भूत रूप अशेष ए । अवगमनिधि अवगमभेष ए ॥ ९० ॥  
बहुगुणरत्नकरंड ए । ब्रह्मांडरमणब्रह्मंड ए ।  
वरद बंधु भरतार ए । महदंग महानेतार ए ॥ ९१ ॥  
गतप्रमाद गतपास ए । निरनाथ निराथिय निरास ए ।

१ बुद्धि के ईश्वर । २ पाठ भेद-नित्य ।



महाजंत्र महास्वामि ए । महदर्थ महागतिगामि ए ॥ ६२ ॥  
 महानाथ महजान ए । महपावन महानिधान ए ।  
 गुणागार गुणवास ए । गुणमेरु गंभीरविलास ए ॥ ६३ ॥  
 करुणामूल निरंग ए । महदासन महारसंग ए ।  
 लोकबन्धु हरिकेश ए । महदीश्वर महदादेश ए ॥ ६४ ॥  
 महविभु महविधिवंत ए । धरणीधर धरणीकत ए ।  
 कृपावंत कलिग्राम ए । कारणमय करनविराम ए ॥ ६५ ॥  
 मायावेलगयन्द ए । सम्मोहतिमिरहरचन्द ए ।  
 कुमति निकन्दन काज ए । दुखगजभंजनमृगराज ए ॥ ६६ ॥  
 परमतत्त्वसत संपदा ए । त्रिगुणी त्रिकालदर्शीसदा ए ।  
 कोपदवानवनीर ए । मदनीरदहरणसमीर ए ॥ ६७ ॥  
 भवकातारकुठार ए । संशयमृणालअसिधार ए ।  
 लोभशिखरनिर्घात ए । विपदानिशिहरणप्रभात ए ॥ ६८ ॥

दोहा

सवरूपी शिवरमण, श्रीपति शीलनिकाय ।  
 महादेव मनमथमथन, सुखमय सुखसमुदाय ॥ ६९ ॥  
 इति श्रीशिवनायक नाम दशम शतक ॥ १० ॥

दोहा

इति श्रीसहस्रअठोतरी, नाम मालिका मूल ।  
 अधिक कसर पुनरुक्ति की, कविप्रमादकी भूल ॥ १०० ॥

१ करन—इन्द्रिय ।

परमपिंड ब्रह्मांडमे, लोकशिखर निवसंत ।

निरखि नृत्य नानारसी, वानारसी नमंत ॥ १०१ ॥

महिमा ब्रह्मविलासकी, मोपर कही न जाय ।

यथाशक्ति कछु वरणई, नामकथन गुणगाय ॥ १०२ ॥

संवत सोलहसो निवे, श्रावण सुदि आदित्य ।

करनक्षत्र तिथि पंचमी, प्रगट्यो नाम कवित्त ॥ १०३ ॥

इति भाषाजिनसहस्रनाम ।



ॐ

श्री सोमप्रभाचार्यविरचिता

## सूक्तमुक्तावली

तथा

स्वर्गीय कविवर बनासीदासजीकृत

भारतीयसूक्तमुक्तावली

( सिन्दूरप्रकर )

शार्दूलविक्रीडित ।

सिन्दूरप्रकरस्तपः करिशिरः क्रोडे कषायाटवी-

दावाचिर्निचयः प्रबोधदिवसप्रारम्भसूर्योदयः ।

मुक्तिस्त्रीकुचकुम्भकुङ्कुमरसः श्रेयस्त्ररोः पल्लव-

प्रोल्लासः क्रमयोर्नखद्युतिभरः पार्श्वप्रभोः पातु वः ॥ १ ॥

छप्पय ।

शोभित तपगजराज, सीस सिन्दूर पूरछवि ।

बोधदिवस आरंभ, करण कारण उदोत रवि ॥

मंगल तरु पल्लव, कषाय कांतार हुतासन ।

बहुगुणरत्ननिधान, मुक्तिकमलाकमलाशन ॥

इहिविधि अनेक उपमा सहित, अरुण चरण सताप हर ।

जिनरायपार्श्व<sup>२</sup>नखज्योति भर, नमत बनारसि जोर कर ॥

१ पाठभेद-वरण । २ पाठभेद-जिनराय पाय ।

शार्दूलविक्रीडित ।

सन्तः सन्तु मम प्रसन्नमनसो वाचां विचारोद्यताः  
 सूतेऽम्भः कमलानि तत्परिमलं वाता वितन्वन्ति यत् ।  
 किं वाभ्यर्थनयानया यदि गुणोऽस्त्यासां ततस्ते स्वयं  
 कर्तारः प्रथमं न चेदथ यशःप्रत्यर्थिना तेन किम् ॥ २ ॥

दोषकान्तवेसरीछन्द ।

जैसे कमल सरोवर वासै । परिमल तासु पवन परकाशै ।  
 त्यों कवि भाषहिं अक्षर जोर । संत सुजस प्रगटहि चहुँओर ॥  
 जो गुणवन्त रसाल कवि, तौ जग महिमा होय ।  
 जो कवि अक्षर गुणरहित, तौ आदरै न कोय ॥ २ ॥

धर्मोधिकार

इन्द्रवज्रा

ध्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य ।  
 तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्भवतोऽर्थकामौ ॥

दोधकान्तवेसरीछन्द ।

सुपुरुष तीन पदारथ साधहिं । धर्म विशेष जान आराधहिं ।  
 धरम प्रधान कहैं सव कोय । अर्थ काम धर्महितै होय ॥  
 धर्म करत संसारसुख, धर्म करत निर्वान ।  
 धर्मपंथसाधनविना, नर तिर्यच समान ॥ ३ ॥

१ पाठभेद—जगमहिजश ।

यः प्राप्य दुष्प्रापमिदं नरत्वं धर्मं न यत्नेन करोति मूढः ।  
क्लेशप्रवन्धेन स लब्धमब्धौ चिन्तामणिं पातयति प्रमादात् ॥

कवित्त मात्रिक ( ३१ मात्रा )

जैसे पुरुष कोई धन कारण, हींढत दीपदीप चढ़ यान ।  
आवत हाथ रतनचिन्तामणि, डारत जलधि जान पाषान ॥  
तैसे भ्रमत भ्रमत भवसागर, पावत नर शरीर परधान ।  
धर्मजतन नहीं करत 'वनारसि' खोवत वादि जनम अज्ञान ॥४॥

मन्दाक्रान्ता

स्वर्गस्थाले द्विपति स रजः पादशौचं विधत्ते  
पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येधभारम् ॥  
चिन्तारत्नं विकिरति कराद्वायसोड्डायनार्थं  
यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मत्येजन्म प्रमत्तः ॥ ५ ॥

मतगयन्द ( सवैया )

ज्यो मतिहीन विवेक विना नर, साजि मतङ्गज ईधन ढोवै ।  
कंचन भाजन धूल भरै शठ; मूढ सुधारससौं पग धोवै ॥  
वाहित काग उड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवै ।  
त्यौ यह दुर्लभ देह 'वनारसि' पाय अज्ञान अकारथ खोवै ॥५॥

शार्दूलविक्रीडित ।

ते धत्तूरतरुं वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं,  
चिन्तारत्नमपास्य काचशकलं स्वीकुर्वते ते जडाः ।

विक्रीय द्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभं,  
ये लब्धं परिहृत्य धर्ममधमा धावन्ति भोगाशया ॥

कवित्त मात्रिक ( ३१ मात्रा )

ज्यों जरमूर उखारि कल्पतरु, वोवत मूढ कनकको खेत ।  
ज्यों गजराज बेच गिरिवर सम, क्रूर कुबुद्धि मोल खर लेत ॥  
जैसे छांड़ि रतन चिन्तामणि, मूरख काचखंडमन देत ।  
तैसे धर्म विसारि 'वनारसि' धावत अधम विषयसुखहेत ॥६॥

शिखरिणी ।

अपारे संसारे कथमपि समासाद्य नृभवं  
न धर्मं यः कुर्याद्विषयसुखतृष्णातरलितः ।  
ब्रुडन्पारावारे प्रवरमपहाय प्रवहणं  
स मुख्यो मूर्खाणामुपलमुपलब्धुं प्रयतते ॥ ७ ॥

सोरठा ।

ज्यों जल बूड़त कोय, तज वाहन पाहन गहै ।  
त्यों नर मूरख होय, धर्म छांड़ि सेवत विषय ॥ ७ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

भक्तिं तीर्थकरे गुरौ जिनमते संघे च हिंसानृत-  
स्तेयाब्रह्मपरिग्रहव्युपरमं क्रोधाद्यरीणां जयम् ।

१ धतूरा । २ गधा ।

सौजन्यं गुणिसङ्गमिन्द्रियदमं दानं तपोभावनां  
वैराग्यं च कुरुष्व निर्वृतिपदे यद्यस्ति गन्तुं मनः ॥८॥

षट्पद ।

जिन पूजहु गुरुनमहु जैनमतवैन बखानहु ।  
संघ भक्ति आदरहु, जीव हिंसा न विधानहु ॥  
भूठ अदत्त कुशील, त्याग परिगह परमानहु ।  
क्रोध मान छल लोभ जीत, सज्जनथिति ठानहु ॥

गुणिसंग करहु इन्द्रिय दमहु, देहु दान तप भावजुत ।  
गहि मन विराग इहिविधि चहहु जो जगमें जीवनमुक्त ॥ ८ ॥

पूजा धिकार ।

पापं लुम्पति दुर्गतिं दलयति व्यापादयत्यापदं ।  
पुण्यं संचिनुते श्रियं वितनुते पुष्पाति नीगेगताम् ।  
सौभाग्यं विदधाति पल्लवयति प्रीतिं प्रसूते यशः  
स्वर्गं यच्छति निर्वृतिं च रचयत्यर्चार्हतां निर्मिता ॥९॥

३१ मात्रा सर्वैया छन्द ।

लोपै दुरित हरै दुख संकट, आपै रोग रहित नितदेह ।  
पुण्य भँडार भरै जश प्रगटै; मुक्ति पंथसौ करै सनेह ॥

१ पाठभेद-नहि जानहु । २ पाठभेद-सज्जनता ।

रचै सुहाग देय शोभा जग; परभव पहुँचावै सुरगेह ।  
 कुगति बंध दलमलाहि 'वनारसि', वीतराग पूजा'फल येह ॥६॥

स्वर्गस्तस्य गृहाङ्गणं सहचरी साम्राज्यलक्ष्मीः शुभा  
 सौभाग्यादिगुणावलिर्विलसति स्वैरं वपुर्वेश्मनि ।

संसारः सुतरः शिवं करतलक्रीडे लुठत्यञ्जसा  
 यः श्रद्धामरभाजनं जिनपतेः पूजां विधत्ते जनः ॥१०॥

देवलोक ताको घर आँगन; राजरिद्ध सेवै तसु पाय ।  
 ताके तन सौभाग आदि गुन; केलि विलास करै नित आय ॥  
 सोनर तुरत तरै भवसागरं; निर्मल होय मोक्ष पद पाय ।  
 द्रव्य भाव विधि सहित 'वनारसि', जो जिनवर पूजै मन लाय । १०।

शिखरिणी ।

कदाचिन्नातङ्कः कुपित इव पश्यत्यभिमुखं

विदूरे दारिद्र्यं चाकतमिव नश्यत्यनुदिनम् ।

विरक्ता कान्तेव त्यजति कुगतिः सङ्गमुदयो

न मुञ्चत्यभ्यर्णं सुहृदिव जिनार्चां रचयतः ॥११॥

ज्यौ नर-रहै रिसाय कोपकर; त्यौ चिन्ताभय विमुख बखान ।  
 ज्यौ कायर शंकै रिपु देखत त्यौ दारिद्र भज्जै भय मान ॥  
 ज्यौ कुनारि परिहरै खंडपति, त्यौ दुर्गति छंडै पहिचान ।  
 हितु ज्यौ विभौ तजै नहिं संगत, सो सब जिनपूजाफल जान ॥११॥



शार्दूलविक्रीडित ।

यः पुष्पैर्जिनमर्चति स्मितसुरस्त्रीनोवनैः सोऽर्च्यते

यस्तं वन्दत एकशस्त्रिजगता सोऽहर्निशं वन्द्यते ।

यस्तं स्तौति परत्र वृत्रदमनस्तोमेन स स्तूयते

यस्तं ध्यायति क्लृप्तकर्मनिधनः स ध्यायते योगिभिः॥

जो जिनंद पुजै फुल्लनिसौ , सुरनि-नैन पूजा तसु होय ।

बंदै भावसाहित जो जिनवर ; वंदनीक त्रिभुवनमें सोय ॥

जो जिन सुजस करै जन ताकी , महिमा इन्द्र करै सुरलोय ।

जो जिन ध्यान करहि 'बनारसि' , ध्यावहिं मुनि ताके गुण जोय ॥१२॥

गुरु अधिकार ।

वशस्थविलम् ।

अवद्यमुक्ते पथि यः प्रवर्त्तते प्रवर्त्तयत्यन्यजनं च निस्पृहः ।

स सेवितव्यः स्वद्वितैषिणा गुरुः स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः

परम् ॥ १३ ॥

आभासक छन्द ।

पापपंथ परिहरहिं , धरहिं शुभपंथ पग ।

पर उपगार निमित्त ; वखानहिं मोक्षमग ॥

सदा अर्वाद्धित चित्त , जु तारन तरन जग ।

ऐसे गुरुको सेवत , भागहिं करम ठग ॥ २३ ॥

मालिनी ।

विदत्तयति कुबोधं बोधयत्यागमार्थं  
 सुगतिकुगतिमार्गो पुण्यपापे व्यनक्ति ।  
 अवगमयति कृत्याकृत्यभेदं गुरुर्यो  
 भवजलनिधिपोतस्तं विना नास्ति कश्चित् ॥ १४ ॥

गीता छन्द ।

मिथ्यात दलन सिद्धांत साधक, मुकतिमारग जानिये ।  
 करनी अकरनी सुगति दुर्गति, पुण्य पाप वखानिये ॥  
 संसारसागरतरनतारन, गुरु जहाज विशेषिये ।  
 जगमाहि गुरुसम कह 'वनारसि', और कोउ न देखिये ॥ १४ ॥

शिवरणी ।

पिता माता भ्राता प्रियसहचरी सन्तुनिवहः  
 सुहृत्स्वामी माद्यत्कारमटरथाश्वः परिकरः ।  
 निमज्जन्त जन्तुं नरककुहरे रक्षितुमलं  
 गुरोर्धर्माधर्मप्रकटनपरात्कोऽपि न परः ॥ १५ ॥

मत्तगयन्द ।

मात पिता सुत बन्धु सखीजन, मीत हितू सुखकारन पीके ।  
 सेवक राज मत्तंगज वाजि; महादल साजि रथी रथनीके ॥  
 दुर्गति जाय दुखी विललाय, परै सिर आय अकेलहि जीके ।  
 पंथ कुपंथ गुरु समभावत, और सगे सब स्वारथहीके ॥ १५ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

किं ध्यानेन भवत्वशेषविषयत्यागैस्तपोमि. कृतं  
पूर्णं भावनयालमिन्द्रियजयैः पर्याप्तमाप्तागमैः ।  
किं त्वेकं भवनाशनं कुरु गुरुप्रीत्या गुणैः शासनं  
सर्वे येन विना विनाथवत्स्वार्थाय नालं गुणाः ।

वस्तु छन्द ।

✓ ध्यान धारन ध्यान धारन; विषै सुख त्याग ।  
करुनारस आरन; भूमि सैन इन्द्री निरोधन ॥  
व्रत संजम दान तप, भगति भाव सिद्धांत सोधन ॥  
ये सब काम न आवही, ज्यौ विन नायक सैन ॥  
शिवसुख हेतु 'वनारसी', कर प्रतीत गुरुवैन ॥ १६ ॥

जिनमताधिकार ।

शिखरिणी ।

न देवं नादेवं न शुभगुरुमेनं न कुगुरुं  
न धर्मं नाधर्मं न गुणपरिणद्धं न विगुणम् ।  
न कृत्यं नाकृत्यं न हितमहितं नापि निपुणम्  
विलोकन्ते लोका जिनवचनचतुर्विंहिताः ॥१७॥

कुं डलिया छन्द ।

देव अदेव हि नहीं लखै, सुगुरु कुगुरु नहिं सूक ।  
धर्म अधर्म गनै नहीं; कर्म अकर्म न वूक ॥

कर्म अकर्म न वृक्षः; गुण रु औगुण नहिं जानहिं ।  
 हित अनहित नहिं सधै, निपुण मूरख नहिं मानहिं ॥  
 कहत 'वनारसि' ज्ञानदृष्टि नहिं अंध अवेवहिं ।  
 जैनवचनदृगहीन; लखै नहिं देव अदेवहिं ॥ १७ ॥

शार्दूलावक्रीडित ।

मानुष्य विफलं वदन्ति हृदयं व्यर्थं वृथा श्रोत्रयो-  
 निर्माणं गुणदोषभेदनकलां तेषामसंभाविनीम् ।  
 दुर्वारं नरकान्धकूपगतं मुक्तिं युष्मा दुर्लभां  
 सार्वज्ञः समयो दयारसमयो येषां न कर्णोत्थिः ॥

३१ मात्रा सर्वैया छन्द ।

ताको मनुज जनम सच निष्फलः मन निष्फल निष्फल जुगकान ।  
 गुण अर दोष विचार भेद विधि, ताहि महः दुर्लभ है ज्ञान ॥  
 ताको सुगम नरक दुख संकट; अगम पंथ पदवीं निर्वाण ।  
 जिनमतवचन दयारसगर्भित; जे न सुनत सिद्धंत बखान ॥ १८ ॥

षीयूषं विषवज्जलं ज्वलनवत्तेजस्तमः स्तोमव-  
 निमत्रं शात्रववत्स्रजं भुजगवचिन्तामणिं लोष्टवत् ।  
 ज्योत्स्नां ग्रीष्मजघर्मवत्स मनुते कारुण्यपण्यापणं  
 जैनेद्रं मतमन्यदर्शनसमं यो दुर्मतिर्मन्यते ॥ १९ ॥

छप्पयं ।

अमृतकहं विष कहैं; नीरकहं पावक मानहिं ।  
 तेज तिमरसम गिनहिं; मित्रकहं शत्रु बखानहिं ॥

पहुपमाल कहिं नाग; रतन पत्थर सम तुल्लहिं ।

चंद्रकिरण आतप स्वरूप; इहि भांति जु भुल्लहिं ॥

करुणानिधान अमलानगुन; प्रगट 'वनारसि' जैनमत ।

परमत समान जो मनधरत; सो अजान मूरख अपत ॥ १६ ॥

धर्म जागरयत्यघं विघटयत्युत्थापयत्युत्पथं

मिन्ते मत्सरमुच्छिनत्ति कुनयं मथ्नाति मिथ्यामतिम् ।

चैराग्यं वितनोति पुष्यति कृपां मृषणाति तृष्णां च य-

त्तञ्जनं मतमर्चति प्रथयति ध्यायत्यधीते कृती ॥२०॥

मरहठा छन्द ।

शुभ धर्म विकारै, पापचिनाशै, कुपथउत्थापनहार ।

मिथ्यामतखंडै, कुनयविहंडै; मंडै दया अपार ॥

मृषणामदमारै, राग विडारै; यह जिनआगमसार ।

जो पूजै ध्यावै, पढै पढावै, सो जगमाहिं उदार ॥२०॥

संघ अधिकार ।

रत्नानामिव रोहणद्वितिधरः खं तारकाणामिव

स्वर्गः कल्पमहीरुहामिव सरः पङ्कैरुहाणामिव ।

पाथोधिः षयसामिवेन्दुमहसां स्थानं गुणानामसा-

वित्यालोच्य विरच्यतां भगवतः संघस्य पूजाविधिः ॥

३१ मात्रा सर्वैया छन्द ।

जैसे नभमंडल तारागण; रोहनशिखर रतनकी खान ।

ज्यों सुरलोक भूरि कल्पपद्रम; ज्यों सरवर अंबुज वन जान ॥

ज्यों समुद्र पूरन जलमंडित, ज्यों शशिञ्जविसमूह सुखदान ।  
तैसेँ संघ सकल गुणमन्दिर, सेवहु भावभगति मन आन ॥२१॥

यः संसारनिगसलालसमतिमुक्त्यर्थमुत्तिष्ठते

यं तीर्थं कथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्यः समः ।

यस्मै स्मर्गपतिर्नमस्यति मतां यस्माच्छुभं जायते

स्फूर्तिर्यस्य परा वसन्ति च गुणा यस्मिन्स संघोऽर्च्यताम् ॥२१॥

जे संसार भोग आशा तज, ठानत मुकति पन्थकी दौर ।

जाकी सेव करत मुख उपजत, जिन समान उत्तम नहिँ और ॥

इन्द्रादिक जाके पद बंदत, जो जंगम तीरथ शुचि ठौर ।

जामैँ नित निवास गुन संपति, सो श्री संघ जगत शिरमौर ॥ २२ ॥

लक्ष्मीस्तं स्वयमभ्युपैति रभसात्कीर्तिस्तमालिङ्गति

प्रीतिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं लब्धुमुत्कण्ठया ।

स्वःश्रीस्तं परिगृह्णति गृह्णति गृह्णति गृह्णति गृह्णति

यः संघं गुणसंघकेलिसदनं श्रेयोरुचिः सेवते ॥ २३ ॥

ताको आय मिलै सुखसंपति, कीरति रहै तिहूँ जग छाय ।

जिनसों प्रीत वढै ताके घट, दिन दिन धर्मबुद्धि अधिकाय ॥

छिनछिन ताहि लखै शिवसुन्दर, सुरगसंपदा मिलै सुभाय ।

‘वानारसि’ गुनरास संघकी, जो नर भगति करै मनलाय ॥ २३ ॥

यद्भक्तेः फलमर्हदादिपदवीमुख्यं कृपेः सस्यव-

च्चक्रित्वत्रिदशेन्द्रतादि तृणवत्प्रासङ्गिकं गीयते ।

शक्तिं यन्महिमस्तुतौ न दधे वाचोऽपि वाचस्पतेः

संघः सोऽघहरः पुनातु चरणन्यासैः सतां मन्दिरम् ॥

जाके भगति मुकतिपदपावत, इन्द्रादिक पद गिनत न कोय ।

ज्यों कृषि करत धानफल उपजत, सहज पयार घास भुस होय ॥

जाके गुन जस जंपनकारन, सुरगुरु थकित होत मंदखोय ।

सो श्रीसंघ पुनीत 'वनारसि', दुरित हरत बिचरत भविलोय ॥ २४ ॥

अहिंसा अधिकार ।

✓ क्रीडाभूः सुकृतस्य दूष्कृतरजः संहारवात्या भवो-

दन्वन्नौर्व्यसनाग्निमेघपटली संकेतदूती श्रियाम् ।

निःश्रेणिस्त्रिदिवौकमः प्रियसखी मुक्तेः कुगत्यर्गला

सन्वेषु क्रियतां कृपैव भवतु क्रेशैरशेषैः परैः ॥ २५ ॥

सर्वैया ३१ ।

सुकृतकी खान इन्द्र पुरीकी निसैनी जान

पापरजखंडनको, पौनरासि पेखिये ।

भवदुखपावकबुभायवेको मेघमाला,

कमला मिलायवेको दूती ज्यों विशेखिये ॥

मुगति बधूसों प्रीत; पालवेकों आलीसम,

कुगति किवार दिढ, आगलसी देखिये ॥

१ पाठभेद—कुगति के द्वार दिढ ।

ऐसी दया कीजै चित, तिहँलोकप्राणीहित,  
और करतूत काहू, लेखेमें न लेखिये ॥ २५ ॥

शिखरिणी ।

यदि ग्रावा तोये तरति तरणिर्यद्यु दयते  
प्रतीच्यां सप्तार्चिर्यदि भजति शैत्यं कथमपि ।  
यदि च्मापीठं स्यादुपरि सकलस्यापि जगतः  
प्रसूते सन्धानां तदपि न वधः कापि सुकृतम् ॥२६॥

आभासक छन्द ।

जो पच्छिम रवि उगै; तिरै पापाण जल ।  
जौ उलटै भुवि लोक, होय शीतल अनल ॥  
जो सुमेरु डिगमगै, सिद्ध कहं लगै मल ।  
तव हूहिंसा करत, न उपजत पुण्यफल ॥ २६ ॥

मालिनी ।

स कमलवनमग्रेर्वासरं भास्वदस्ता-  
दमृतमुरगवक्त्रात्साधुवादं विवादात् ।  
रुगपगममजीर्णाज्जीवितं कालकूटा-  
दभिलपति वधाद्यः प्राणिनां धर्ममिच्छेत् ॥ २७ ॥

सवैया ३१ ।

अगनिमें जैसे अरविद न विलोकियत;  
सूर अथवत जैसे वासर न मानिये ।



सांपके बदन जैसे अमृत न उपजत,  
 कालकूट खाये जैसे जीवन न जानिये ॥  
 कलह करत नहीं पाइये सुजस जैसे,  
 बाढ़तरसांस रोग नाश न बखानिये ।  
 प्राणी बधमाहिं तैसें, धर्म की निशानी नाहिं,  
 याहीतै बनारसी विवेक मन आनिये ॥ २७ ॥ .  
 शार्दूल विक्रीडित ।

आयुर्दीर्घतरं वपुर्वरतरं गोत्रं गरीयस्तरं  
 वित्तं भूरितरं बलं बहुतरं स्वामित्वमुच्चैस्तरम् ।  
 आरोग्यं विगतान्तरं त्रिजगति श्लाध्यत्वमल्पेतरं  
 संसाराम्बुनिधिं करोति सुतरं चेतः कृपार्दान्तरम् ॥२८॥

३१ मात्रा सर्वैया छन्द

दीरघ आयु नाम कुल उत्तम, गुण संपति आनंद निवास ।  
 उन्नत विभव सुगम भवसागर, तीन भवन महिमा परकास ॥  
 भुजबलवंत अनंतरूप छवि, रोगरहित नित भोगविलास ॥  
 जिनके चित्तदया तिनकेरुख, सब सुख होहि बनारसिदास ॥२८॥

सत्यवचन अधिकार ।

विश्वासायतनं विपत्तिदलनं दैवैः कृताराधनं  
 मुक्तैः पथ्यदनं जलाग्निशमनं व्याघोरगस्तम्भनम् ।  
 श्रेयःसंवननं समृद्धिजननं सौजन्यसंजीवनं  
 कीर्तैः केलिवनं प्रभावभवनं सत्यं वचः पावनम् ॥२९॥

पटपद ।

गुणनिवास विश्वास बास ; दारिद्र्यदुखखंडन ।

देवधराधन योग ; मुक्तिमारग मुखमंडन ॥

सुयशकेलि आराम , धाम सज्जन मनरंजन ।

नागबाधवशकरन , नीर पावक भयभंजन ॥

महिमा निधान संपतिसदन; मंगल मीत पुनीत मग ।

सुखरासि 'बनारसिदास' भन , सत्यवचन जयवंत जग ॥२६॥

शिखरिणी ।

यशो यश्माद्भस्मीभवति वनवह्नेरिव वनं

निदानां दुःखानां यदवनिरुहाणां जलमिव ।

न यत्र स्याच्छायातप इव तपःसंयमकथा

कथंचित्तन्मिथ्यावचनमभिधत्ते न मतिमान् ॥ ३० ॥

३१ मात्रा सबैया छन्द ।

जो भस्मंत करै निज कीरति ; ज्यों वनअग्नि दहै वन सोय ।

जाके संग अनेक दुख उपजत , बढै वृद्ध ज्यों सीचत तोय ॥

जामै धरम कथा नहिं सुनियत , ज्यों रवि बीच छांहि नहिं होय ।

सो मिथ्यात्व वचन बनारसि , गहत न ताहि विचक्षण कोय ॥३०॥

वशस्थविलम् ।

असत्यमप्रत्ययमूलकारणं कुत्रामनासन्न समृद्धिवारणम् ।

विपन्निदान परवञ्चनोर्जितं कृतापराधं कृतिभिविबर्जितम् ॥३१॥

रोडक छन्द ।

कुमति कुरीति निवास; प्रीति परतीति निवारन ।  
रिद्धिसिद्धिसुखहरन; विपति दारिद्र्य दुख कारन ॥  
परवंचन उत्पत्ति; सहज अपराध कुलच्छन ।  
सो यह मिथ्यावचन, नाहिं आदरत विचच्छन ॥ ३१ ॥

शादूर्लविक्रीडित ।

तस्याग्निजलमर्णवः स्थलमरिर्मित्रं सुराः किङ्कराः  
कान्तारं नगरं गिरिगृहमहिर्मन्यं मृगारिमृगः ।  
पातालं विलमस्त्रमुत्पलदलं व्यालः शृगालो विषं  
पीयूषं विषमं समं च वचनं सत्याश्रितं वक्ति यः ॥ ३२ ॥

सवैया ३१ ।

पावकतै जल होय; वारिधतै थल होय,  
शस्त्रतै कमल होय, ग्राम होय वनतै ।  
कूपतै विवर होय; पर्वततै घर होय,  
वासवतै दास होय, हितू दुरजनतै ॥  
सिंहतै कुरग होय; व्याल स्यालअंग होय,  
विषतै पीयूष होय; माला अहिफनतै ।  
विषमतै सम होय, संकट न व्यापै कोय,  
एते गुन होय सत्य वादीके दरसतै ॥ ३२ ॥

अदत्तादान अधिकार ।

मालिनी ।

तमभिलषति सिद्धिस्तं वृणीते समृद्धि-  
स्तमभिसरति कीर्तिषु च्छते त भवार्तिः ।

स्पृहयति सुगतिस्तं नेक्षते दुर्गतिस्तं

परिहरति विपत्तं यो न गृह्णात्यदत्तम् ॥ ३३ ॥

रोडक छन्द ।

ताहि रिद्धि अनुसरै, सिद्धि अभिलाष धरै मन ।

विपत्त संगपरिहरै, जगत विसरै सुजसधन ॥

भवआरति तिहि तजै, कुगति वंछै न एक छन ।

सो सुरसम्पति लहै, गहै नहि जो अदत्त धन ॥ ३३ ॥

शिखरणी

अदत्तं नादत्तं कृतसुकृतकामः किमपि यः

शुभश्रेणिस्तस्मिन्वसति कलहंसीव कमले ।

विपत्तस्माद्दूरं व्रजति रजनीवाम्बरमणो-

विनीतं विद्येव त्रिदिवशिवलक्ष्मीर्भजति तम् ॥ ३४ ॥

( ३१ मात्रा ) सर्वैया छन्द ।

ताको मिलै देवपद शिवपद, ज्यो विद्याधन लहै विनीत ।

तामै आय रहै शुभ-पंकति, ज्यो कलहंस कमलसों मीत ।

ताहि विलोकि दुरै दुख दारिद, ज्यो रवि आगम रैन वितीत ।

जो अदत्त धन तजत 'वनारसि' पुण्यवंत सो पुरुष पुनीत ॥३४॥

शार्दूलविक्रीडित ।

यन्निर्घतितकीर्तिधर्मनिधनं सर्वाङ्गसां साधनं

प्रोन्मीलद्वधन्धनं विरचितक्लिष्टाशयोद्वोधनम् ।

दौर्गत्यैकनिवन्धनं कृतसुगत्याश्लेषसंगोधनं

प्रोत्पर्षत्प्रधनं जिघृक्षति न तद्धीमानदत्तं धनम् ॥३५॥

मरहटा छन्द ।

जो कीरति गोपहि, धरम विलोपहि, करहि महाअपराध ।  
जो शुभगति तोरहि, दुरगति लोरहि, जोरहि युद्ध उपाध ॥  
जो संकट आनहि, दुर्गति ठानहि, वधबंधनको गेह ।  
सव औगुण मंडित, गहै न पंडित, सो अदत्तधन येह ॥३५॥  
हरिणी ।

परजनमनः पीडाक्रिडाधनं वधभावना-

भवनमवनिव्यापिव्यापल्लताधनमण्डलम् ।

कुगतिगमने मार्गः स्वर्गापवर्गपुरार्गलं

नियतमनुपादेयं स्तेयं नृणां हितकान्क्षिणाम् ॥३६॥

( ३१ मात्रा ) सर्वैया ।

जो परिजन संताप केलिवन, जो वध बंध कुबुद्धि निवास ।  
जो जग विपतिवेलघनमंडल, जो दुर्गति मारग परकास ॥  
जो सुरलोकद्वार दृढ आगल, जो अपहरण मुक्तिसुखवास ।  
सो अदत्तधन तजत साधुजन, निजहितहेत 'वनारसिदास' ॥३६॥

शीलाधिकार ।

शार्दूलचिक्रीडित ।

दत्तस्तेन जगत्यकीर्तिपटहो गोत्रे मपीकूर्चक-

आरित्रस्य जलाञ्जलिगुणगणारामस्य दाषानसः ।

संकेतः सकलापदां शिवपुरद्वारे कपाटो दृढः

शीलं येन निजं विलुप्तमखिलं त्रैलोक्यचिन्तामणिः ॥३७॥

( ३१ मात्रा ) सत्रौया ।

सो अपजशको डंक वजावत, लावत कुल कलंक परधान ।  
सो चारितको देत जलांजुलि, गुन बनको दावानल दान ॥  
सो शिवपन्थकिवार वनावत, आपति विपति मिलनको थान ।  
चिन्तामणि समान जग जो नर, शील रतन निजकरत मलान ॥३७॥

मालिनी ।

हरति कुलकलङ्कं लुम्पते पापपङ्कं

सुकृतमुपचिनोति श्लाघ्यतामातनोति ।

नमयति सुरवर्गं हन्ति दुर्गोभसर्गं

रचयति शुचि शीलं स्वर्गमोक्षौ सलीलम् ॥३८॥

रोडक छन्द ।

कुछ कलंक दलमलहि, पापमलपक पखारहि ।

दारुन संकट हरहि, जगत महिमा विस्तारहि ॥

सुरग मुकति पद रचहि, सुकृतसंचहि करुणारसि ।

सुरगन बंदहि चरन, शीलगुण कहत 'वनारसि' ॥ ३८ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

व्याघ्रव्यालजलानलादिविपदस्तेषां व्रजान्त क्षयं

कल्याणानि समुल्लसन्ति विबुधाः सांनिध्यमध्यासते ।

कीर्तिः स्फूर्तिमियति यात्युपचयं धर्मः प्रणश्यत्यघं

स्वनिर्वाणसुखानि संनिदधते ये शीलमाश्रिते ॥३९॥

मत्तगयन्द ।

ताहि न बाध भुजंगमको भय, पानि न वोरै न पावक जालै ।

ताके सधीप रहैं सुर किन्नर, सो शुभ रीत करै अघ टालै ॥

तासु विवेक वढै घट अंतर, सो सुरके शिवके सुख भालै ।  
ताकि सुकीरति होय तिहूँ जग, जो नर शील अखंडित पालै ॥३६॥

तोयत्यग्निरपि स्रजत्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सागङ्गति  
व्यालोऽप्यश्वति पर्वतोऽप्युपलति च्वेडोऽपि पीयूषति ।  
विघ्नोऽप्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागत्यपां-  
नाथोऽपि स्वगृहृत्यटव्यपि नृणां शीलप्रमात्राद्भ्रुधम् ॥४०  
षट्पद ।

अग्नि नीरसम होय, मालसम होय भुजंगम ।  
नाहर मृगसम होय, कुटिल गज होय तुरंगम ॥  
विष पियूषसम होय, शिखरपाषान् खंडमित ।  
विघन उलटि आनंद, होय रिपुपलटि होय हित ॥  
लीलातलावसम उदधिजल, गृहसमान अटवी विकट ।  
इहिविधि अनेक दुख होहिं सुख, शीलवंत नरके निकट ॥

परिग्रहाधिकार ।

कालुष्यं जनयन् जडस्य रचयन्धर्मद्रुमोन्मूलनं  
क्लिश्ननीतिकृपाक्षमाकमलिनीं लोभाभ्वुधि वर्धयन् ।  
मर्यादातटमुद्रुजञ्छुभमनोहंसप्रवासं दिश-  
न्किं न क्लेशकरः परिग्रहनदीपूरः प्रवृद्धि गतः ॥४१॥

( ३१ मात्रा ) सर्वैया ।

अंतर मलिन होय निज जीवन, विनसै धर्मतरोवरमूल ।  
किलसै द्यानीतिनलिनीवन, धरै लोभ सागर तनथूल ॥

उठै वाद मरजाद मिटै सब, सुजन हंस नहिं पावहिं कूल ।  
बढत पूर पूरै दुख संकट, यह परिग्रह सरितासम तूल ॥ ४१ ॥  
मालिनी ।

✓ कलहकलभविन्ध्यः कोपगृध्रश्मशानं  
व्यसनभुजगरन्ध्रं द्वेपदस्युप्रदोषः ।  
सुकृतवनदवाग्निर्मावर्दाम्भोदवायु-  
नयनलिनतुपारोऽत्यर्थमर्थानुरागः ॥ ४२ ॥  
मनहरण ।

✓ कलह गयन्द उपजायवेको विन्ध्यगिरि;  
कोप गीधके अघायवेको समशान है ।  
संकट भुजंगके निवास करिवेको विल  
वैरभाव चौरको महानिशा समान है ॥  
कोमल सुगुनघनखंडवेको महा पौन,  
पुण्यवन दाहिवेको दावानल दान है ।  
नीत नय नीरज नसायवेको हिम राशि,  
ऐसो परिग्रह राग दुखको निधान है ॥ ४२ ॥  
शार्दूलविक्रीडित ।

प्रत्यर्था प्रशमस्य मित्रमधृतेर्मोहस्य विश्रामभूः  
पापानां खनिरापदां पदमसद्ध्यानस्य लीलावनम् ।  
व्याक्षेपस्य निधिर्मदस्य सचिवः शोकस्य हेतुः क्लेशः  
केलीवेश्म परिग्रहः परिहृतेर्योग्यो त्रिविक्तात्मनाम् ॥ ४३ ॥



प्रशमको अहित अधीरजको बाल हित,

महामोहराजाकी प्रसिद्ध राजधानी है ।

भ्रमको निधान दुरध्यानको विलासवन,

विपतको थान अभिमानकी निशानी है ॥

दुरितको खेत रोग शोग उतपति हेत;

कलहनिकेत दुरगतिको निदानी है ।

ऐसो परिग्रह भोग सबनिको त्याग जोग,

आतम गवेषीलोग याही भांति जानी है ॥ ४३ ॥

बद्धिस्तृप्यति नेन्धनैरिह यथा नाम्भोभिरम्मोनिधि-

स्तद्वल्लोभघनो घनैरपि धनैर्जन्तुर्न संतुष्यति ।

न त्वेवं मनुते विमुच्य विभवं निःशेषमन्यं भव

यात्यात्मा तदहं मुधैव विदधाम्येनांसि भूयांसि किम् ॥

षट्पद ।

ज्यों नहिं अग्नि अघाय, पाय ईधन अनेक विधि ।

ज्यों सरिता घन नीर, तृपति नहिं होय नीरनिधि ॥

त्यों असंख धन वढत; मूढ सतोष न मानहिं ।

पाप करत नहिं डरत; बंध कारन मन आनहिं ॥

परतछ विलोकि जन्मन मरन; अथिर रूप संसारक्रम ।

समुझै न आप पर ताप गुन; प्रगट 'बनारसि' मोह भ्रम ॥४४॥

क्रोधाधिकार

यो मित्रं मधुनो विकारकरणे संत्राससंपादने

सर्पस्य प्रतिविग्रमङ्गदहने सप्तार्चिषः सोदरः ।

चैतन्यस्य निपूदने विपतरोः सत्रह्यचारी चिरं

स क्रोधः कुशलाभिलाषकुशसौर्निर्मूलमृन्मूल्यताम् । ४५ ।

गीताछन्द ।

✓ जो सुजन चित्त विकार कारन, मनहु मर्दिरा पान ।

जो भरम भय चिन्ता वढावत, असित सर्प समान ॥

जो जतु जीवन हरन विपतरु, तनदहनदवदान ।

सो कोपराश विनाशि भविजन, लहहु शिव सुखथान ॥ ४५ ॥

हरिणी ।

फलति कलितश्रेयः श्रेणीप्रसूनपरम्परः

प्रशमपयसा सिक्रो मुक्तिं तपश्चरणद्रुमः ।

यदि पुनरसौ प्रत्यासत्तिं प्रकोपहविर्भुजो

भजति लभते भस्मीभावं तदा विफलोदयः ॥ ४६ ॥

३१ मात्रा सर्वैया ।

✓ जव मुनि कोइ बोई तप तरुवर; उपशम जल सींचत चितखेत ।

उदित ज्ञान शाखा गुण पल्लव; मंगल पहुप मुक्त फलहेत ॥

तव तिहि क्रोध दवानल उपजत, महामोह दल पवन समेत ।

सो भस्मंत करत छिन अंतर, दाहत, विरखसहित मुनिचेत ॥ ४६ ॥

शार्दूलविक्रिडित ।

संतापं तनुते भिनत्ति त्रिनयं सौहार्दमुत्सादय-

त्युद्वेगं जनयत्यवद्यवचनं सूते विधत्ते कलिम् ।

कीर्तिं कुन्तति दुर्मतिं वितरति व्याहन्ति पुण्योदयं

दत्ते यः कुगतिं स हातुमुचितो रोषः सदोषः सताम् ॥

वस्तुछन्द ।

कलह मंडन कलह मंडन करन उद्वेग ।

यशखंडन हित हरन, दुखविलापसंतापसाधन ॥

दुरवैन समुच्चरन, धरम पुण्य भारग विराधन ।

विनय दमन् दुरगति गमन, कुमति रमन गुणलोप ।

ये सव लक्षण जान मुनि, तजहि ततक्षण कोप ॥ ४७ ॥

यो धर्म दहति द्रुमं दव इवोन्मथाति नीतिं लतां

दन्तीवेन्दुकलां विधुंतुद इव क्लिश्नाति कीर्तिं नृणाम् ।

स्वार्थं वायुरिवाम्बुदं विघटयत्युल्लासयत्यापदं

तृष्णां धर्म इवोचितः कृतकपालोपः स कोपः कथम् ॥ ४८ ॥

षट्पद ।

कोप धरम धन दहै, अगनि जिम विरख विनासहि ।

कोप सुजस आवरहि, राहु जिम चंद गरासहि ॥

कोप नीति दलमलहि, नाग जिम लता विहंडहि ।

कोप काज सव हरहि, पवन जिम जलधर खंडहि ॥

संचरत कोप दुख ऊपजै, वडै तृपा जिम धूपमहँ ।

करुणा विलोप गुण गोप जुत, कोप निषेध महंत कहँ ॥ ४८ ॥

मानाधिकार.

मन्दाक्रान्ता ।

यस्मादाविर्भवति विततिदुस्तरापन्नदीनां

यस्मिन्निश्रिष्टाभिरुचितगुणग्रामनामापि नास्ति ।

यश्च व्याप्तं वहति वधधीधूम्यया क्रोधदावं  
तं मानार्द्रिं परिहर दुरारोहमौचित्यवृत्ते ॥४६॥

( मात्रा ३? ) सर्वैया ।

जातै निकसिं विपति सरिता मव; जगमे फैल रही चहुं ओर ।  
जाके दिग गुणग्राम नाम नहि, माया कुमतिगुफा अति घोर ॥  
जह्वधवुद्धि धूमरेखा, सम; उदित कोप दवानल जोर ।  
सो अभिमान पहार पटंतर तजत ताहि सर्वज्ञकिशोर ॥४६॥

शिखरिणी ।

समालानं भञ्जन्विमलमतिनाडीं त्रिघटय-  
निकरन्दुर्वीकपांशूत्करमगणयन्नागमसृणिम् ।  
प्रमन्नुर्व्यां स्वैरं विनयवनवीथीं विदलयन्,  
जनः कं नानर्थं जनयति मदान्धो द्विष इव ॥५०॥

रोडक छन्द ।

भंजहिं उपशम थंभ, सुमति जंजीर विहडहिं ।  
कुवचन रज संग्रहहिं, विनयवनपंकाति खडहिं ॥  
जगमे फिरहिं स्वछन्द; वेद अंकुश नहि, मानहिं ।  
गज ज्यों नर मद्यन्ध; सहज मव अनरथ ठानहिं ॥५०॥

शार्दूलविक्रीडित ।

श्रौचित्याचरणं विलुम्पति पयोवाहं नभस्वानिव  
प्रध्वंसं विनयं नयत्यहिरिव प्राणस्पृशां जीवितम् ।

कीर्ति कैरविणीं मतङ्गज इव प्रोन्मूलयन्यञ्जसा

मानो नीच इवोपकारनिकरं हन्ति त्रिवर्गं नृणाम् ॥५१॥

करिखा छन्द ।

मान सव उचित आचार भंजन करै;

पवन संचार जिम घन विहंडहि ।

मान आदर तनय विनय लोपै सकल;

भुजग विष भीर जिम मरन मंडहि ॥

मानके उदित जगमाहिं विनसै सुयश;

हुपित मातंग जिम कुमुद खंडहि ।

मानकी रीति विपरीति करतूति जिम;

अधमकी प्रीति नर नीत छंडहिं ॥ ५१ ॥

वसन्ततिलका ।

श्रुण्णाति यः कृतसमस्तसमीहितार्थं

संजीवनं विनयजीवितमङ्गभाजाम् ।

जात्यादिमानविषजं विषमं विकारं

तं मार्दवामृतरसेन नयस्व शान्तिम् ॥ ५२ ॥

( मात्रा १५ ) चौपाई ।

मान विषम विषतन संचरै । विनय विनाशै वाँछितहरै ॥

कोमल गुन अमृत संजोग । विनशै मान विषम विषरोग ॥ ५२ ॥

मायाधिकार.

मालिनी ।

कुशलजननवन्ध्यां सत्यसूर्यास्तसध्यां

कुगतियुवतिमालां मोहमातङ्गशाज्ञाम् ।

शमकमलहिमानीं दुर्यशोराजधानीं

व्यमनशनसहायां दूरतो मुञ्च मायाम् ॥५३॥

रोडक छन्द ।

कुशल जननकों वॉक्क; सत्य रविहरन सांक्थिति ।

कुगति युवति उरमाल; मोह कुंजर निवास छिति ॥

शम वारिज हिमराशि; पाप सताप सहायनि ।

अयश खानि जग जान; तजहु माया दुख दायनि ॥ ५३ ॥

उपेन्द्रवज्रा ।

विधाय मायां त्रिविधैरुपायैः परस्य ये वञ्चनमाचरन्ति ।

ते वञ्चयन्ति त्रिदिवापन्नर्गसुखान्महामोहसखाः स्वमेव ॥५४॥

वेसरि छन्द ।

मोह मगन माया मति संचहि । करि उपाय औरनको वंचहि ।

अपनी हानि लखे नहिं सोय । सुगति हरै दुर्गति दुख होय ॥५४॥

वंशस्थविलम् ।

मायामविश्वासविलासमन्दिरं

दुराशयो यः कुरुते धनाशया ।

सोऽनर्थसार्थं न पतन्तमीक्षते

यथा विडालो लगुडं पयः पिवन् ॥ ५५ ॥

पद्मरि छन्द ।

माया अविश्वास विलास गेह । जो करहि मूढ जन धन सनेह ।  
सो कुगति बंध नहि लखै एम । तजि भय विलाव पय पियत जेम ॥५५॥

वसन्ततिलका ।

मुग्धप्रतारणपरायणमुज्जिहीते

यत्पाटवं कपटलम्पटचित्तवृत्तेः ।

जीर्यत्युपस्रवमवश्यमिहाप्यकृत्वा

नापथ्यभोजनमिवामयमायतौ तत् ॥ ५६ ॥

अभानक छन्द ।

ज्यों रोगी कर कुपथ; वढावै रोग तन ।  
स्वादलंपटी भयो, कहै मुझ जनम धन ॥  
त्यों कपटी करि कपट, मुगधको धन हरहि ।  
करहि कुगतिको वंध; हरष मनमें धरहि ॥ ५६ ॥

लोभाधिकार.

शार्दूलविक्रीडित ।

यद्गुर्गामटवीमटन्ति विकटं क्रामन्ति देशान्तरं

गाहन्ते गहनं समुद्रमतनुक्लेशां कृषिं कुर्वते ।

सेवन्ते कृपणं पतिं गजघटासंघट्टदुःसंचरं

सर्पन्ति प्रधनं धनान्धितधियस्तल्लोभविस्फूर्जितम् ॥५७॥

सज्जनाधिकार.

शिखरिणी ।

वरं क्षिप्तः पाणिः कुपितफणिनो वक्रकुहरे

वरं भ्रमपापातो ज्वलदलनकुण्डे विरचितः ।

वरं प्रासप्रान्तः सपदि जठरान्तर्विनिहितो

न जन्यं दौर्जन्यं तदपि त्रिपदां सन्न विदुषः ॥६१

( १६ मात्रा ) चोपाई ।

वरु अहिवदन हृत्थ निज डारहिं । अगनि कुंडमें तनपर जारहिं ।

दारहिं उदर करहिं विष भक्षण । पै दुष्टता न गहहि विचक्षण ॥६१॥

वसन्ततिलका ।

सौजन्यमेव विदधाति यशश्चर्यं च ।

स्वश्रेयसं च विभवं च भवक्षय च ।

दौर्जन्यमावहसि यत्कुमते तदर्थम्

धान्येऽनलं क्षिपसि तज्जलसेकसाध्ये ॥ ६२ ॥

मत्तगयन्द ( सबैया ) ।

ज्यो कृषिकार भयो चितवातुल, सो कृषिकी करनी इम ठानें ।

वीज बवै न करै जल सिंचन, पावकसों फलको थल भानें ॥

त्यो कुमती निज स्वारथके हित; दुर्जनभाव हिये माहि आनैं ।

संपति कारन बंध विदारन; सज्जनता सुखमूल न जानें ॥ ६२ ॥



पृथ्वी ।

वरं विभववन्ध्यता सुजनभावभाजां नृणा-

मसाधुचरिताजिता न पुनरूर्जिताः संपदः ।

कृशत्वमपि शोभते सहजमायतौ सुन्दरं

विपाकविरसा न तु श्वयधुसंभवा स्थूलता ॥ ६३ ॥

आभानक छन्द ।

वरु दरिद्रता होउ, करत सज्जन कला ।

दुराचारसों मिलै, राज सो नहिं भला ॥

ज्यो शरीर कृश सहज, सुशोभा देत है ।

सूर्जिं थूलता वढै, मरनको देत है ॥ ६३ ॥

शादूर्लविक्रीडित ।

न त्रूते परदूषणं परगुणं वक्त्यल्पमप्यन्वहं

संतोषं वहते परद्विषु परावाधासु धत्ते शुचम् ।

स्वश्लाघा न करोति नोऽभक्ति नयं नौचित्यमुल्लङ्घय-

त्युक्तोऽप्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतच्चरित्रं सताम् ॥६४॥

षट्पद ।

नहिं जंपहि पर दोष, अल्प परगुण बहु मानहि ।

हृदय धरहि संतोष, दीन लखि करुणा ठानहि ॥

उचित रीति आदरहि, विमल नय नीति न छंडहि ।

निज सलहन परिहरहि, राम रचि विषय विहंडहि ॥

मडहि न कोप दुरवचन सुनि, सहज मधुर धुनि उच्चरहि ।

कहि 'कवरपाल' जग जाल वसि, ये चरित्र सज्जन करहि ॥६४॥

## मनहरण ।

सहै घोर संकट समुद्रकी तरंगनिमें;  
 कपै चितभीत पंथ, गाहै बीच वनमें ।  
 ठानै कृषिकर्म जामें; शर्मको न लेश कहुं;  
 संकलेशरूप होय; जूझ मरै रनमें ॥  
 तजै निज धामको विराम परदेश धावै,  
 सेवै प्रभु कृपण मलीन रहै मनमें ।  
 डोलै धन कारज अनारज मनुज मूढ,  
 ऐसो करतूति करै, लोभकी लगनमें ॥ ५७ ॥

मूलं मोहविषद्रु मस्य सुकृताम्भोराशिकुम्भोद्भवः  
 क्रोधाग्नेररणिः प्रतापत्रणिप्रच्छादने तोयदः ।  
 क्रीडासन्नकलेर्विवेकशशिनः स्वर्मानुरापन्नदी-  
 सिन्धुः कीर्तिलताकलापकलभो लोभः पराभूयताम् ॥ ५८ ॥

पूरन प्रताप रवि, रोकिवेको धाराधर;  
 सुकृति समुद्र सोखिवेको कुम्भनंदहै ।  
 कोप द्रव पावक जननको अरणि दारु;  
 मोह विष भूरुहको; महा हृद कंद है ॥  
 परम विवेक निशिमणि असिवेको राहु;  
 कीरति लता कलाप; दलन गयंद है ।  
 कलहको केलिभौन आपदा नदीको सिन्धु,  
 ऐसो लोभ याहूको विपाक दुख द्वंद है ॥ ५८ ॥

वसंततिलका ।

निःशेषधर्मवनदाहविजृम्भमाणे

दुःखौघमस्मनि विसपदकीर्तिधूमे ।

बाढं धनेन्धनसमागमदीप्यमाने

लोभानखे शलभतां लभते गुणौघः ॥ ६ ॥

परम धरम वन दहै, दुरित अंवर गति धारहि ।

कुयश धूम उदगरै, भूरि भय भस्म विथारहि ॥

दुख फलंग फुंकरै, तरल वृष्णा कल काढहि ।

धन ईधन आगम, सँजोग दिन दिन अति बाढहि ॥

लहलहै लोभ पावक प्रवल; पवन मोह उद्धत वहै ।

दृज्माहि उदारता आदि बहु; गुण पतंग कँवरा कहै ॥ ५६ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

जातः कल्पतरुः पुरः सुरगवी तेषां प्रविष्टा गृहं

चिन्तारत्ननुपस्थितं करतले प्राप्तो निधिः संनिधिम् ।

विश्वं वश्यमवश्यमेव सुलभाः स्वगोपवर्गश्रियो

ये संतोषमशेषदोषदहनध्वंसाम्बुदं विभ्रते ॥ ६० ॥

( ३१ मात्र ) सबैया ।

विलसै कामधेनु ताके घर, पूरै कल्पवृक्ष सुखपोष ।

अखय भँडार भरै चिंतामणि; तिनको सुलभ सुरग औ मोष ॥

ते नर स्ववश करै त्रिभुवनको; तिनसों विमुख रहै दुख दोष ।

सवै निधान सदा ताके ढिग; जिनके हृदय वसत संतोष ॥ ६७ ॥

## सज्जनाधिकार.

शिखरिणी ।

वरं क्षिप्तः पाणिः कुपितफणिनो वक्रकुहरे

वरं भ्रम्पापातो ज्वलदलनकुण्डे विरचितः ।

वरं प्रासप्रान्तः सपदि जठरान्तर्विनिहितो

न जन्यं दौर्जन्यं तदपि विपदां सन्न विदुषः ॥६१

( १६ मात्रा ) चौपाई ।

वरु अहिवदन हत्थ निज डारहिं । अगनि कुंडमै तनपर जारहिं ।

दारहिं उदर करहिं विष भक्षन । पै दुष्टता न गहहि विचक्षन ॥६१॥

वसन्ततिलका ।

सौजन्यमेव विदधाति यशश्चयं च ।

स्वश्रेयस च विभवं च भवक्षय च ।

दौर्जन्यमावहसि यत्कुमते तदर्थम्

धान्येऽनलं क्षिपसि तज्जलसेकसाध्ये ॥ ६२ ॥

मत्तगयन्द ( सबैया ) ।

ज्यो कृषिकार भयो चितवातुल, सो कृषिकी करनी इम ठाने ।

बीज बवै न करै जल सिंचन; पावकसों फलको थल भानें ॥

त्यो कुमती निज स्वारथके हित, दुर्जनभाव हिये मंहि आने ।

संपति कारन वंध विदारन; सज्जनता सुखमूल न जानें ॥ ६२ ॥

पृथ्वी ।

वरं विभववन्ध्यता सुजनभावभाजां नृणा-  
मसाधुचरितान्जिता न पुनरुज्जिताः संपदः ।  
कृशत्वमपि शोभते सहजमायतौ सुन्दरं  
विपाकविरसा न तु श्वयधुसंभवा स्थूलता ॥ ६३ ॥

आभानक छन्द ।

वरु दरिद्रता होउ, करत सज्जन कला ।

दुराचारसों मिलै; राज सो नहिं भला ॥

ज्यो शरीर कृश सहज, सुशोभा देत है ।

सूक्ष्म थूलता बढै, मरनको हेत है ॥ ६३ ॥

शादूलविक्रीडित ।

न ब्रूते परदूषणं परगुणं वक्त्यल्पमप्यन्वहं

संतोषं बहते परद्विषु पराबाधासु भ्रुते शुचम् ।

स्वश्लाघा न करोति नोऽभक्तिं नयं नौचित्यमुल्लङ्घय-

त्युक्तोऽप्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतच्चरित्रं सताम् ॥६४॥

षट्पद ।

नहिं जपहि पर दोष, अल्प परगुण बहु मानहि ।

हृदय धरहि सतोष, दीन लखि करुणा ठानहि ॥

उचित रीति आदरहि, विमल नय नीति न छंडहि ।

निज सलहन परिहरहि, राम रचि विषय विहंडहि ॥

मडहि न कोप दुरवचन सुनि, सहज मधुर धुनि उच्चरहि ।

कहि 'कवरपाल' जग जाल बसि, ये चरित्र सज्जन करहि ॥६४॥

## गुणिसंगाधिकार ।

धर्मं ध्वस्तदयो यशश्च्युत्तनयो वित्तं प्रमत्तः युमा-  
 न्काव्यं निष्प्रतिभस्तपः शमदमैः शून्योऽल्यमेधः श्रुतम् ॥  
 वस्त्वालोकमलोचनश्चलप्रना ध्यानं च वाञ्छत्यसौ  
 यः सङ्गं गुणिनां विमुच्य विमतिः कल्याणमाकांक्षति ॥

मत्तगयन्द ( सर्वैवा )

सो करुणाविन धर्मं विचारत, नैन विना लखिवेको उमाहै ।  
 सो दुरनीति धरै यश हेतु, सुधी विन ज्ञागमको अवगाहै ॥  
 सो हियशून्य कवित्त करै, 'समता विन सो तपसों तन दाहै ।  
 सो थिरता विन ध्यान धरै शठ; जो सत संग तजै हित चाहै ॥

हारिणी

हरति कुमतिं भिन्ते मोहं करोति विवेकितां  
 वितरति रति सूते नीतिं तनोति विनीतताम् ।  
 प्रथयति यशो धत्त धर्मं व्यपोहति दुर्गतिं  
 जनयति नृणां कि नाभीष्टं गुणोत्तमसंगमः ॥ ६६ ॥

घनाक्षरी ।

कुमतिं निकट होय महा मोह मंद होय;  
 'जगमगै सुयश विवेक जगै हियसों ।  
 नीतिको दिढाव होय विनैको वढाव होय;  
 उपजै उछाह ज्यों प्रधान पद लियेसों ॥  
 धर्मको प्रकाश होय दुर्गतिको नाश होय;

वरतै समाधि ज्योः पियूष रस पियेसों ।  
 तोप परि पूर होय, दोष दृष्टि दूर होय,  
 एते गुन होहिं सत-संगतिके कियेसों ॥ ६६ ॥  
 शार्दूलविक्रीडित

लब्धुं बुद्धिकलापमापदमपाकतुं विहतुं पाथ  
 प्राप्तुं कीर्तिमसाधुतां विधुवितुं धर्म समासेवितुम् ।  
 रोद्धुं पापविपाकमाकलयितुं स्वर्गापवर्गश्रियं  
 चेत्त्वं चित्त समीहसे गुणवर्ता सङ्गं तदङ्गीकुरु ॥६७॥  
 कुंडलिया।

‘कौरा’ ते मारग.गहै, जे गुनिजनसेवंत ।  
 ज्ञानकला तिनके जगै, ते पावहिं भव अंत ॥  
 ते पावहिं भव अंत, शांत रस ते चित धारहिं ।  
 ते अघ आपद हरहिं, धरमकीरति विस्तारहिं ॥  
 होंहिं सहज जे पुरुष, गुनी वारिज के भौरा ।  
 ते सुर संपति लहैं, गहैं ते मारग ‘कौरा’ ॥ ६७ ॥  
 हारिणी ।

हिमति महिमाभोजे चण्डानिलत्युदयाम्बुदे  
 द्विग्दति दयारामे क्षेमक्षमाभृति वज्रति ।  
 समिधति कुमत्यग्रौ कन्दत्यनीतिलतासु यः  
 किमभिलषतां श्रेयः श्रेयान्स निगुणिसंगमः ॥ ६८ ॥

षपटद ।

जो महिमा गुन हनहि, तुहिन जिम वारिज वारहि ॥  
 जो प्रताप संहरहि, पवन जिम मेघ विडारहि ॥

जो सम दम दलमलहि, दुरद जिम उपवन खंडहि ।  
 जो सुखेम द्वय करहि, वज्र जिम शिखर विहंडहि ॥  
 जो कुमति अग्नि ईवनसरिस, कुनयलता दृड मूल जग ।  
 सो दुष्टसंग दुख पुष्ट कर, तजहि विचक्षणता सुमग ॥ ६८ ॥

इन्द्रियाधिकार ।

शाङ्खलविक्रीडित ।

आत्मानं कुपथेन निर्गमायतुं यः शूकलाश्वायते  
 कृत्याकृत्यविवेकजीवितहतौ यः कृष्णसर्पायते ।  
 यः पुण्यद्रमखण्डखण्डनविधौ स्फूर्जत्कुजारायते  
 तं लुप्तव्रतमुद्रमिन्द्रियगणं जित्वा शुभंयुभवं ॥ ६९ ॥

हरिगीतिका ।

जे जगत जनको कुपथ डारहिं, वक्र शिखित तुरगसे ।  
 जे हरहिं परम विवेक जीवन, काल दारुण डरगसे ॥  
 जे पुण्यवृत्तकुजार तीखन, गुपति व्रत मुश करै ।  
 ते करनसुभट प्रहार भविजन, तव सुमारग पग धरै ॥ ६९ ॥

शिखरिणी ।

प्रतिष्ठां यन्निष्ठां नयति नयनिष्ठां विघटय-  
 त्यकृत्येष्वाधत्ते मतिमतपसि प्रेम तनुते ।  
 विवेकस्योत्सेकं विदलयति दत्ते च विपदं  
 पदं तद्दोषाणां करणनिकुरुम्भं कुरु वशे ॥ ७० ॥



घनाक्षरी ।

ये ही हैं कुगतिके निदानी दुख दोष दानी,

इनहीकी सगतसो संग भार वाहिये ।

इनकी भगनतासों विभोको विनाश होय,

इनहीकी प्रीतसों अनीत पन्थ गहिये ॥

ये ही तपभावकों बिडारै दुराचार धारै,

इनहीकी तपत विवेक भूमि दहिये ।

ये ही इन्दी सुभट इनहिं जीतै सोई साधु,

इनको मिलापी सो तो महापापी कहिये ॥ ७० ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

धत्तां मौनमगारमुज्झतु विधिप्रागल्भ्यमभ्यस्यता-

मस्त्वन्तर्गणमागमश्रममुपादत्तां तपस्तप्यताम् ।

श्रेयः पुञ्जनिकुञ्जभञ्जनमहावातं न चेदिन्द्रिय-

व्रातं जेतुमवैति भस्मनि हुतं जानीत सर्वं ततः ॥७१॥

सवैया ।

मौनके धैया गृह त्यागके कैया विधि,

रितके सधैया पर निन्दासों अपूठे हैं ।

विद्याके अभ्यासी गिरिकंदराके वासी शुचि,

अगके अचारी हितकारी बैन बूठे हैं ।

आगमके पाठी मन लाय महा काठी भारी,

कष्टके सहनहार रामाहुसों रूठे हैं ॥

१ छूठे-पाठ भेद है ।

इत्यादिक जीव सब कारज करत रीते,

इन्द्रिनके जीते विना सरवंग भूठे हैं ॥ ७१ ॥

शार्दूल विक्रडित ।

धर्मध्वंसधुरीणमभ्रमरसावारीणमापत्प्रथा-

लङ्कमीणमशर्मनिर्मितिकलापारीणमेकान्ततः ।

सर्वान्नीनमनात्मनीनमनयात्यन्तीनमिष्टे यथा

कामीनं कुपथाध्वनीनमजयन्नचौघमक्षेमभाक् ॥७२॥

सत्रैया ।

धर्मतरुभंजनको महा मत्त कुंजरसे;

आपदा भंडारके भरनको करोरी हैं ।

मत्यशील रोकवेको पौढ परदार जैसे;

दुर्गतिके मारग चलायवेकों धोरी हैं ॥

कुमतिके अधिकारी कुनैपंथके विहारी;

भद्रभाव ईवन जरायवेकों होरी है ।

मृपाके सहाई दुरभावनाके भाई ऐसे,

विषयाभिलाषी जीव अघके अघोरी है ॥ ७२ ॥

कमलाधिकार ।

शार्दूल विक्रीडित ।

निम्नं गच्छति निम्नगेव नितरां निद्रेव विष्कम्भते

चैतन्यं मदिरेव पुष्यति मदं धूम्येव धत्तेऽन्धताम् ।

चापल्यं चपलेव चुम्बति दवज्वालेव तृष्णां नय-

त्युल्लासं कुलटाङ्गनेव कमला स्वैरं परिभ्राम्यति ॥७३॥

मत्तगन्द छन्द ।

नीचकी ओर ढरै सरिता जिम, घूम बहावत नीदकी नाई ।  
चंचलता प्रघटै चपला जिम, अंध करै जिम धूमकी भाई ॥  
तेज करै तिसना दव ज्यों मद, ज्यों मद पोषित मूढकी ताई ।  
ये करतूति करै कमला जग, डोलत ज्यों कुलटा विन साई ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

दायादाः स्पृहयन्ति तस्करगणा मुष्णन्ति भूमीभुजो  
गृह्णन्ति च्छलमाकलय्य हुतभुग्भस्मीकरोति क्षणात् ।  
अम्भः प्लावयते क्षितौ विनिहितं यद्वा हरन्ते हठा-  
द्द्वृत्तास्तनया नयन्ति निधनं धिग्बह्वधीनं धनम् ॥७४॥

सर्वैया ।

बंधु विरोध करै निशवासर, दंडनकों नरवै छल जोवै ।  
पावक दाहत नीर बहावत, ह्वै दृगओट मिशाचर डोवै ॥  
भूतल रक्षित जक्ष हरै करकै दुरवन्ति कुसंतति खोवै ।  
ये उतपात उठै धनके डिग, दामधनी कहु क्यों सुद्ध सोवै ॥ ७४ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

नीचस्पापि चिरं चट्टनि रचयन्त्यायान्ति नीचैर्नतिं  
शत्रोरप्यगुणात्मनोऽपि विदधत्युच्चैर्गुणोत्कीर्तनम् ।  
निर्वेदं न विदन्ति किंचिदकृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे  
ऋष्टं किं न मनस्विनोऽपि मनुजाः कुर्वन्ति वित्तार्थिनः ॥

## वनाक्षरी ।

नीच धनवंत ताहि निरख असीस देय;  
 वह न विलोकै यह चरन गहत है ।  
 वह अकृतज्ञ नर यह अज्ञताको धर,  
 वह मद लीन यह दीनता कहत है ।  
 वह चित्त कोप ठानै यह वाको प्रभु मानै,  
 वाके कुवचन सब यह पे सहत है ।  
 ऐसी गति धारै न विचारै कछु गुण दोष,  
 अरथाभिलाषी जीव अरथ चहत है ॥ ७५ ॥  
 शार्दूल विक्रीडित ।

लक्ष्मीः सर्पति नीचमणवपयः सङ्गादिवाम्भोजिनी-  
 संसर्गादित्र कण्टकाकुलपदा न कापि धत्ते पदम् ।  
 चैतन्यं विपसंनिधेरिव नृणामुज्जासयत्यञ्जसा  
 धर्मस्थाननियोजनेन गुणिभिर्ग्राह्यं तदस्याः फलम् ॥ ७६ ॥

## सवैया ।

नीचहीकी ओरकों उमंग चलै कमला सो,  
 पिता सिंधु सलिलस्वभाव याहि दियो है ।  
 रहै न सुथिर है सकंटक चरन याको,  
 वसी कंजमाहिं कंजकोसो पद कियो है ॥  
 जाको मिलै हितसों अचेत कर डारै ताहि;  
 विषकी वहन तातै विपकोसो हियो है ।  
 ऐसी ठगहारी जिन धरमके पंथडारी,  
 करकै सुकृति तिन याको फल लियो है ॥ ७६ ॥

दानार्थकार.

चारित्रं चिनुते तनोति विनयं ज्ञानं नयत्युन्नति  
 पुष्पाति प्रशमं तपः प्रबलयत्युल्लासयत्यगमम् ।  
 पुण्यं कन्दलयत्ययं दलयति स्वर्गं ददास्ति क्रमा-  
 निर्वाणश्चियमातनोति निहितं पात्रे पवित्रे धनम् ॥७७

कवित्त

चरन अखंड ज्ञान अति उज्जल; विनय विवेक प्रशम अभलान ।  
 अनघ सुभाव सुकृति गुण संचय, उच्च अमरपद बंध विधान ॥  
 आगमगन्ध रम्य लपकी रुचि, उद्धत भुक्ति पंथ सोपान ।  
 ये गुण प्रकट होंय तिनके घट, जे नर देहि सुपत्तहि दान ॥ ७७ ॥

दारिद्र्यं न तमीक्षते न भजते दौर्भाग्यमालम्बते  
 नाकीर्तिर्न परामवोऽभिलषते न व्याधिरास्कन्दति ।  
 दैन्यं नाद्रियते दुनोति न दरः क्लिश्नन्ति नैवापदः  
 पात्रे यो वितरत्यनर्थदलनं दानं निदानं श्रियाम् ॥ ७८

षट्पद ।

सो दरिद्र दल मलहि; ताहि दुर्भाग न गंजहि ।  
 सो न लहै अपमरन; सु तो विपदा भयभंजहि ॥  
 तिहि न कोइ दुख देहि, तासु तन व्याधि न बड्डइ ।  
 ताहि कुयश परहरहि, सुमुख दीनता न कड्डइ ॥  
 सो लहहि उच्चपदजगत महँ, अघ अनरथ नासहि सरव ।

कहै कुँवरपोल सो धन्य नर, जो सुखेत वोवै दरव ॥७८॥  
 लक्ष्मीः कामयते मतिमृगयते कीर्तिस्तमालोकते  
 प्रीतिश्च म्वति सेवते सुभगता नीरोगताल्लिङ्गति ।  
 श्रेयःसंहतिरभ्युपैति वृणुते स्वर्गोपभोगस्थिति-  
 मुक्तिर्वाञ्छति यः प्रयच्छति पुमान्पुण्यार्थमर्थं निजम् ॥

सर्वैया इकतीसा

ताहिको सुबुद्धि वरै रमा ताकी चाह करै ।  
 चंदन सरूप हो सुयश ताहि चरचै ।  
 सहज सुहाग पावै सुरग समीप आवै,  
 बार बार मुकति रमनि ताहि अरचै ॥  
 ताहिके शरीरकों अलिंगति अरोगताई,  
 मंगल करै मितार्ई प्रीति करै परचै ।  
 जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत,  
 धरमके हेतको सुखेत धन खरचै ॥ ७९ ॥

मन्दाक्रान्ता ।

तस्यासन्ना रतिरनुचरी कीर्तिरुत्कण्ठिता श्रीः  
 स्निग्धा बुद्धिः परिचयपरा चक्रवर्तित्वन्नृद्धिः ।  
 पाणौ प्राप्ता त्रिदिवकमला कामुकी मुक्तिसंपत्  
 सप्तचेज्यां वपति विपुलं वित्तवीजं निजं यः ॥ ८० ॥

पद्मावती छन्द ।

ताकी रति कीरति दासी सम, सहसा राजरिद्धि घर आवै ।  
 सुमति सुता उपजै ताके घट, सो सुरलोक संपदा पावै ॥

ताकी दृष्टि लखै शिव मारग, सो निरबंध भावना भावै ।  
जो नरत्याग कपट 'कुं'वरा' कह, विधिसों सप्तखेत धन वावै ॥८०॥

तपप्रभावाधिकार ।

शार्दूलषिक्रीडित ।

यत्पूर्वाजितकर्मशैलकुलिशं यत्कामदावानल-

ज्वालाजालजलं यदुग्रकरणग्रामाहिमन्त्राक्षरम् ।

यत्प्रत्यूहतमःसमूहदिवसं यल्लब्धिलक्ष्मीलता-

मूलं तद्द्विविधं यथाविधि तपः कुर्वीत वीतस्पृहः ॥८१॥

षट्पद् ।

जो पूरव कृत कर्म, पिंड गिरदलन वज्रधर ।

जो मनमथ दच ज्वाल, माल सँग हरन मेषभर ॥

जो प्रचंड इंद्रिय भुजंग, थंभन सुमंत्र वर ।

जो विभाव संतम सुपुंज, खंडन प्रभात कर ॥

जो लब्धि बेल उपजंत षट, तासु मूल दृढता सहित ।

सो सुतप अंग बहुविधि दुविधि, करहि विबुधि बंधारहित ॥ ८१ ॥

यस्माद्भिन्नपरम्परा विघटते दास्यं सुराः कुर्वते

कामः शाम्यति दाम्यतीन्द्रियगाणः कल्याणमुत्सर्पति ।

उन्मीलन्ति महर्द्धयः कलयति ध्वंसं च यः कर्मणां

स्वाधीनं त्रिदिवं शिवं च भवति श्लाघ्यं तपस्तत्र किम् ॥

घनाक्षरी ।

जाके आदरत महा रिद्धिसों मिलाप होय,

मदन अख्याप होय कर्म वन दाहिये ।

विधन विनास होय गीरवाण दास होय,

ज्ञानको प्रकाश होय भौ समुद्र थाहिये ॥

देवपद खेल होय मंगलसों मेल होय,

इन्द्रनिकी जेल होय मोखपथ गाहिये ।

जाकी ऐसी महिमा प्रकट कहै "कौरपाल",

तिहुलोक तिहुंकाल सों तप सराहिये ॥८२॥

कान्तारं न यथेतरो ज्वलयितुं दत्तो दवाग्निं विना

दावाग्निं न यथापरः श्मयितुं शक्नो विनाम्भोधरम् ॥

निष्णातः पवनं विना निरसितुं नान्यो यथाम्भोधरं

कर्मौघं तपसा विना किमपरो हन्तुं समर्थस्तथा ॥८३॥

भक्तगयन्द ।

जो धर कानन दाहनको दव; पावकसों नहि दूसरो दीसै ।

जो दवआग बुझै न ततक्षण; जो न अखंडित मेघ बरीसै ॥

जो प्रघटै नहि जौलग मारुत; तौलग घोर घटा नहि खीसै ।

त्यो घटमें तपवज्रविना कृद; कर्मकुलाचल और न पीसै ॥८३॥

सगधरा ।

सैतोषस्थूलमूलः प्रशमपरिकरस्कन्धबन्धप्रपञ्चः

पञ्चाक्षीरोधशाखः स्फुरदभयदलः शीलसंपत्प्रवालः ।

श्रद्धाम्भः पूरसेकाद्विपुलकुलबलैश्वर्यसौन्दर्यभोगः

स्वर्गादिप्राप्तिपुष्पः शिवपदफलदः स्यात्तपःकल्पवृक्षः ॥



षट्पद ।

सुहृद् मूल संतोष; प्रशम गुन प्रबल पेड ध्रुव ।

पंचाचार सु शाख; शील संपति प्रवाल हुव ॥

अभय अंग दलपुंज; देवपद पदुप सुमंडित ।

सुकृतभाव विस्तार; भाव शिव सुफल अखंडित ॥

परतीत धार जल सिंच क्रिय; अति उतंग दिन दिन पुषित ।

जयवंत जगत यह सुतपतरु; मुनि बिहंग सेवहिं सुखित ॥ ८४ ॥

भावनाधिकार ।

शार्दूलविक्रीडित ।

नीरागे तरुणीकटाक्षितमिव त्यागव्यपेतप्रभोः

सेवाकष्टमिवोपरोपणमिवाभ्मौजन्मनामश्मनि ।

विष्वग्वर्षमिवोषरक्षितितले दानार्हदचोतपः-

स्वाध्यायाध्ययनादि निष्फलमनुष्ठानं विना भावनाम् ॥

पञ्चावती छन्द ।

ज्यों नीराग पुरुषके सनमुख; पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी ।

ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन; ऊसरमे वरषा जिम छूठी ॥

ज्यों शिलमाहिं कमलको बोवन, पवन पकर जिम बांधिये मूठी ।

ये करतूति होय जिम निष्फल; ज्यों विनभावाक्रिया सब भूँठा ॥८५॥

सर्वं ज्ञीप्सति पुण्यमीप्सति दयां धित्सत्यधं भित्सांत

क्रोधं दित्सति दानशीलतपसां साफल्यमादित्सति ।

कल्याणोपचयं चिकीर्षति भवाम्भोधेस्तटं लिप्सते  
मुक्तिस्त्रीं परिरिप्सते यदि जनस्तद्भावयेद्भावनाम् ॥८६

घनाक्षरी ।

पूरब करम दहैं, सरवज्ञ पद लहैं;  
गहैं पुण्यपंथ फिर पापमैं न आवना ।  
करुनाकी कला जागै कठिन कषाय भागै,  
लागै दानशील तप सफल सुहावना ॥  
पानै भवसिंधु तट खोलै मोक्षद्वार पट,  
शर्म साध धर्मकी धरामैं करै धावना ।  
एते सब काज करै अलखको अंगधरै;  
चेरी चिदानंदकी अकेली एक भावना ॥ ८६ ॥

पृथ्वी ।

विवेकवनसारिणीं प्रशमशर्मसंजीवनीं  
भवारणवमहातरीं मदनदावमेधावलीम् ।  
चलाक्षमृगवागुरां गुरुकषायशैलाशनिं  
विमुक्तिपथवेसरीं भजत भावनां किं परैः ॥८७

सवैया इकतीसा

प्रशमके पोषवेको अमृतकी धारासम,  
ज्ञानवन सींचवेको नदी नीरभरी है ।  
चंचल करण मृग बांधवेको वागुरासी;  
कामदावानल नासवेको मेघ भरी है ।

प्रबल कषायगिरि भंजवेको वज्र गदा,

भो समुद्र तारवेको पौढी महा तरी है ।

मोक्षपन्थ गाह्वेकों वेशरी विलायतकी,

ऐसी शुद्ध भावना अखंड धार ढरी है ॥ ८७ ॥

शिखरिणी ।

घनं दत्तं वित्तं जिनवचनमभ्यस्तमखिलं

क्रियाकाण्डं चण्डं रचितमवनौ सुप्तमसकृत् ।

तपस्तीव्रं तप्तं चरणमपि चीर्णं चिरतरं

न चेच्चित्ते भावस्तुषवपनवत्सर्वमफलम् ॥८८॥

आभानक छन्द ।

गहि पुनीत आचार, जिनागम जोवना ।

कर तप संजम दान, भूमि का सोवना ॥

ए करनी सब निफल, होय विन भावना ॥

ज्यो तुष बोए हाथ, कछू नहि आवना ॥८८॥

वैरागाधिकार ।

हारिणी ।

यदशुभरजःपाथो दृप्तेन्द्रियद्विरदाङ्क शं

कुशलकुसुमोद्यानं माद्यन्मनःकपिशृङ्खला ।

विरतिरमणीलीलावेशम स्मरज्वरभेषजं

शिवपथरथस्तद्वैराग्यं विमृश्य भवाभयः ॥८९॥

वनाक्षरी ।

अशुभता धूर हरवेकों नीर पूर सम,

विमल विरत कुलबधू को सुहाग है ।

उदित मदन जुर नाशवेकों जुरांकुश,

अक्षगज थंभनको अंकुशको दाग है ॥

चंचल कुमन कपि रोकवेको लोहफन्द,

कुशल कुसुम उपजायवेको वाग है ।

सूधा मोक्षमारग चलायवेको नाभी रथ

ऐसो हितकारी भयभंजन चिराग है ॥ ८६ ॥

वसन्ततिलका ।

चण्डानिलः स्फुरितमब्दचयं दवाचि-

वृक्षत्रजं तिमिरमण्डलमर्कविम्बम् ।

वज्रं महीध्रनिवहं नयते यथान्तं

वैराग्यमेकमपि कर्म तथा समग्रम् ॥ ६० ॥

अभानक छन्द ।

ज्यो समीर गंभीर, घनाघन छय करै ।

वज्र विदारै शिखर, दिवाकर तम हरै ॥

ज्यो दव पावक पूर, दहै वनकुजको ।

त्यो भजै वैराग, करमके पुंजको ॥ ६० ॥

शिखरिणी ।

नमस्या देवानां चरणवरिवस्या शुभगुरो-

स्तपस्या निःसीमक्लमपदमुपास्या गुणवताम् ।

निषधारण्ये स्यात्करणदम्बविद्या च शिवदा

विरागः क्रूरागः क्षपणनिपुणोऽन्तः स्फुरति चेत् ॥

पद्मावती छन्द ।

कीनी तिन सुदेवकी पूजा, तिन गुरुचरणकमल चित लायो ।  
सो बनवास बस्यो निशत्रासर, तिन गुनव्रत पुरुष यश गायो ॥  
तिन तप लियो कियो इन्द्री दम्, सो पूरन विद्या पढ आयो ।  
सब अपराध गए ताको तज, जिन वैरागरूप धन पायो ॥ ६१ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

भोगान्कृष्णभुजङ्गभोगविषमान्राज्यं रजःसंनिभं

बन्धुन्बन्धनिबन्धनानि विषयग्रामं विषान्नोपमम् ।

भूतिं भूतिसहोदरां तृणतुल्यं स्रष्टुं विदित्वा त्यज-

स्तेष्व्वासक्रिमनाविलो विलभते मुक्तिं विरक्तः पुमान् ॥

घनाक्षरी छन्द ।

जाको भोग भाव दीसै कारे नागकेसे फन,  
राजको समाज दीखै जैसे राजकोष है ।  
जाको परिवारको बढाव घेराबंध सुके,  
विषे सुख सौजको विचारे विषपाष है ॥

लसै यो विभूति ज्यों भस्मिको विभूति कहै,  
बनता विलासमें विलोकै हृद दोष है ।

ऐसो जान त्यागै यह महिमा विरागताकी,  
ताहीको वैराग सही ताकेऽडिग मोष है ॥ ६२ ॥

इति २२ अधिकार समाप्त ।

अथ उद्यदेश गाथा ।

उपेन्द्रवज्रा ।

जिनेन्द्रपूजा गुरुपर्युपास्तिः सत्त्वानुकम्पा शुभपात्रदानम् ।  
गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य नृजन्मवृक्षस्य फलान्यमूनि ॥६३

मत्तगयन्द ।

कै परमेश्वरकी अरचा विधि, सौ गुरुकी उपसर्पन कीजे ।  
दीन विलोक दया धरिये चित, प्रासुक दान सुपत्तहि दीजे ॥  
गाहक हो गुनको गहिये, रुचिसों जिन आगमको रस पीजे ।  
ये करनी करिये गृह में बस, यो जगमें नरभौ फल लीजे ॥ ६३ ॥

शिखरिणी ।

त्रिसंध्यं देवार्चां विरचय च यं प्रापय यशः

श्रियः पात्रे वापं जनय नयमार्गं नय मनः ।

स्मरक्रोधाधारीन्दलय कलय प्राणिषु दयां,

जिनोक्तं सिद्धान्तं शृणु वृणु जवान्मुक्तिकमलाम् ॥

हरिगीता छन्द ।

जो करै साध त्रिकाल सुमरण, जास जगयश विस्तरै ।  
जो सुनै परमानहिं सुरुचिसों, नीत मारग पग धरै ॥  
जो निरख दीन दया प्रभुंजै, कामक्रोधादिक हरै ।  
जो सुधन सप्त सुखेत खरचै, ताहि शिवसंपति बरै ॥ ६४ ॥

शार्दूलविक्रीडित ।

कृत्वार्हत्पदपूजनं यतिजनं नत्वा विदित्वागमं,  
हित्वा सङ्गमधर्मकर्मठधियां पात्रेषु दत्त्वा धनम् ।  
गत्वा पद्धतिमुत्तमक्रमजुषां जित्वान्तरारित्रजं  
स्मृत्वा पञ्चनमस्क्रियां कुरु करक्रोडस्थमिष्टं सुखम् ॥

वस्तु छन्द ।

देव पुज्जहिं देव पूज्जहिं, रचहिं गुरु सेव ।  
परमागमरुचि धरहिं, तजहि दुष्टसंगत ततक्षण ।  
गुणि संगति आदरहिं, करहिं त्याग दुर्भक्ष भक्षण ॥  
देहि सुपात्रहिं दान नित, जपै पंचनवकार ।  
ये करनी जे आचरहिं, ते पावै भवपार ॥ ६५ ॥

हारिणी ।

असरति यथा कीर्तिदिद्भु क्षपाकरसोदरा-  
भ्युदयजननी याति स्फीतिं यथा गुणसन्ततिः ।  
कलयति यथा वृद्धिं धर्मः कुकर्महतित्तमः  
कुशलसुलभे न्याय्ये कार्यं तथा पथि वर्तनम् ॥६६॥

दोहा छन्द ।

गुन अरु धर्म सुथिर रहै, यश प्रताप गंभीर ।  
कुशल वृत्त जिम लह लहै, तिहिं मारग चल वीर ! ॥ ६६ ॥

शिखरिणी ।

करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणमनं-  
मुखे सत्या वाणी श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः ।

दि स्वच्छा वृत्तिर्विजयि भुजयोः पौरुषमहो-

विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम् ॥६७॥

कवित्त छन्द ।

बंदन विनय मुकट सिर ऊपर, सुगुरुवचन कुंडल जुगकान ।  
अंतर शत्रुविजय भुजमंडन, मुकतमाल उर गुन अमलान ॥  
त्याग सहज कर कटक विराजत, शोभित सत्य वचन मुख पान ।  
भूषण तजहि तऊ तन मंडित, यातै सन्तपुरुष परधान ॥ ६७ ॥

सादूलोविक्रीडित ।

वाञ्छा सज्जनसंगमे गुरुजने प्रातिगुरोर्नम्रता,  
विद्याया व्यसनं स्वयोषितिरतिलोकापवाद्भयं  
भक्तिश्चाहति शक्तिरात्मदमनै संसर्गमुक्त्रिखले,  
यस्यैताः परिणामसुन्दरकलाः श्लाघ्यः स एव क्षितौ ॥६८॥

धनाक्षरी ।

गहँ जे सुजन रीत गुणी सो निवाहँ प्रीत,  
सेवा साथै गुरुकी विनसो कर जोरकै ।  
विद्याको विसन धरै परतिय संग हरै,  
दुर्जनकी संगतिसो बैठे मुख मारकै ॥  
तजै लोकनिन्द्य काज पूजै देव जिनराज,  
करै जे करन थिर उमंग बहोरकै ।  
तेई जीव सुखी होय तेई मोख सुखी होय,  
तेई हाहि परम करम फन्द तोरकै ॥ ६८ ॥



शादू लविक्रीडित ।

निन्दां मुञ्च शमामृतेन हृदयं स्वं सिञ्च वञ्च क्रुधं,  
सन्तोषं भज लोभं मुत्सृज जनेष्वात्मप्रशंसां त्यज ।  
मायां वर्जय कर्म तर्जय यशः साधर्मिकेष्वर्जय,  
श्रेयो धारय हत वारियमदं स्वं संसृतेस्तारय ॥ ६६ ॥

धनाक्षरी ।

परनिन्दा त्याग कर मनमै वैराग धर,  
क्रोध मान माया लोभ चारों परिहर रे ॥  
हिरदेमें तोष गहु समतासों सीरोरहु,  
धरमको भेद लहु खेदमें न पर रे ॥  
करमको वंश खोय मुक्तिको पन्थ जोय,  
सुकृतिको बीज बोय दुर्गतिसों डर रे ।  
अरे नर ऐसो होहि बार बार कहू तोहि,  
नहि तो सिंधार तू निगोद तेरो घर रे ॥ ६६ ॥

आलस्यं त्यज श्रयोद्यमसलं सेवस्य पादौ गुरोः,  
दुष्पापानि वचांसि कृत्यमखिलं जानीह्यकृत्यं तथा ।  
देवं पूजय संघमर्चय कृपामन्योपकारं तपो-  
दानं सत्यं वचो भवाद्भयमयं पंथा ऋजु सद्गतेः ॥१००॥

३१ मंत्रा सखैया छन्द ।

आलस त्याग जाग नर चेतन, बल सँभार मत्त करहु विलंब ।  
इहां न सुख लवलेश जगतमहि, निब विरषमें लगै न अंब ॥  
ताते तू अंतर विपक्ष हर, कर विलक्ष निज अक्षकदंब ।  
गह गुन ज्ञान धैठ चारितरथ, देहु मोष मग सन्मुख वंब ॥१००॥

मालिनी ।

अभजदजितदेवाचार्यपद्मोदयाद्रि-

द्युमणिविजयसिंहाचार्यपादारविन्दे ।

मधुकरसमतां यस्तेन सोमप्रभेण

व्यरचि मुनिपनेत्रा सूक्तिमुक्तावलीयम् ॥ १०१ ॥

कवित्त छन्द ।

जैन वंश सर हंस दिगम्बर; मुनिपति अजितदेव अति आरज ।

ताके पद वादीमदभंजन; प्रघटे विजयसेन आचारज ॥

ताके पट्ट भये सोमप्रभ; तिन ये ग्रन्थ कियो हित कारज ।

जाके पढत सुनत अवधारत; ह्वै सुपुरुष जे पुरुष अनारज ॥१०१॥

विभिन्नप्रतियों में निम्नलिखित संस्कृत श्लोक और मिलते हैं पर इनका पद्यानुवाद नहीं मिलता ।

भवारण्यं मुक्त्वा यदि जिगमिषुमुं किं नगरां

तदानीं मा कार्पीविपर्याचपवृक्षेषु वसतिम् ।

यतश्छायाप्येषां प्रथयति महामोहमचिरा-

दयं जन्तुर्यस्मात्पदमपि न गन्तुं प्रभवति ॥ १ ॥

पात्रे धर्म निबंधनं तदितरे श्रेष्ठं दया ख्यापकं,

मित्रे प्रीतिविवर्द्धनं रिपुजने वैरापहारक्षमं ।

भृत्ये भक्तिभरावहं नरपतौ सन्मानसंपादकं,

भद्रादौ सुयशस्करं वितरणं नक्वाप्यहो निःफलं ॥२॥(दानअ.)

यदि वहति हि दंडं नग्नमुंडं जटां वा,  
 यदि वसति गुहायां वृक्षमूले शिलायां ।  
 यदि पठति पुराणं वेदसिद्धांततत्त्वं,  
 यदि हृदयमशुद्धं सर्वमेतन्नकिंचित् ॥ ३ ॥ (भावना अ. )  
 यथा च सीदंति गुरुपदेशाः यथा न स्युःपिशुनप्रवेशाः ।  
 यथा च धर्मं समुपैति वृद्धिं प्रवर्त्तनीयं च तथा भवद्भिः ॥४॥

सोमप्रभाचार्यमभा च यन्न पुंसां तमः पंकमपाकरोति ।  
 तदप्यमुष्मिन्नुपदेशलेशे निशम्यमाने निशमेति नाशं ॥५॥

भाषाग्रन्थकर्त्ताकी ओरसे नामादि.

दोहा छन्द ।

नाम सूक्तिमुक्तावली, द्वाविंशति अधिकार ।  
 शत श्लोक परमान सब; इति ग्रन्थविस्तार ॥ १ ॥  
 “कुँवरपाल बनारसी,” मित्र जुगल इकचित्त ।  
 तिनहिं ग्रन्थ भाषा कियो; बहुविधि छन्द कवित्त ॥ २ ॥  
 सोलहसै इक्यानवे; ऋतु ग्रीषम वैशाख ।  
 सोमवार एकादशी, करनछत्र सित पाख ॥ ३ ॥

इति श्रीसोमप्रभाचार्यवरचिता सिन्दूरप्रकरापरपर्याया सूक्तिमुक्तावली

भाषाछन्दानुवादसहिता समाप्ता ।

१ पाठ भेदः—सोम प्रभाचार्यमभा च लोके वस्तु प्रकाशं कुरुते यथाशु ।  
 तवायमुच्चैरुपदेशलेशः शुभोत्सवज्ञानगुणांस्तनोति ॥

## अथ ज्ञान बावनी

वनाक्षरी ।

ओंकार शब्द विशद याके उभयरूप,

एक आतमीक भाव एक पुदगलको ।

शुद्धता स्त्रभाव लये उठ्यो राग चिदानन्द,

अशुद्ध विभाव लै प्रभाव जड़बलको ।

त्रिगुण त्रिकाल तातैं व्यय ध्रुव उतपात,

ज्ञाताको सुहात वात नहीं लाग खलको ॥

“बनारसीदासजूके” हृदय ‘ओंकार’ वास,

जैसो परकाश शशि पक्षके शुक्लको ॥ १ ॥

निरमल ज्ञानके प्रकार पंच नरलोक,

तामें श्रुतज्ञान परधान करी पायो है ।

ताके मूल दोय रूप अक्षर अनक्षरमें,

अनक्षर अग्र पिंड सैनमें बतायो है ॥

वावन वरण जाके असंख्यात सन्निपात,

तिनमें नृप ‘ओंकार’ सल्लनसुहायो है ।

‘बनारसी दास’ अंग द्वादश विचार यामें,

ऐसे ‘ओंकार’ कंठ पाठ तोहि आयो है ॥ २ ॥

‘महामंत्र-गायत्री’ के मुख ब्रह्मरूप मंड्यो,

आतम प्रदेश कोई परम प्रकाश है ।

तापर अशोक वृक्ष छत्रध्वज चामर सो,  
 पवन अगनि जल वसै एक वास है ॥  
 सारीके अकारतामें रुद्र रूप चितवत,  
 महातम महावृततामें बहु भास है ।  
 ऐसो 'ओंकार' को अमूल चूल मूलरस,  
 'बानारसीदासजूके' वदन विलास है ॥ ३ ॥  
 सिद्धरूप शिवरूप भेष अवभेष्टरूप,  
 नररूप न्यायरूप विधिरूप बातमा ।  
 गुणरूप ज्ञानरूप ज्ञायक गंभीररूप,  
 भोगरूप भोगीरूप सरस सुहातमा ॥  
 एकरूप आदिरूप अगम अनादिरूप,  
 असंख्य अनंतरूप जातिरूप जातमा ।  
 'बानारसीदास' द्रव्यपूजा व्यवहाररूप,  
 शुद्धता स्वभावरूप यहै शुद्ध आतमा ॥ ४ ॥  
 घुंधवाल हृदै भयो शुद्धता विसरि गयो,  
 परगुण रंगि रह्यो पर ही को रुखिया ।  
 निजनिधि निकट विकट भई नैन विन,  
 क्षणकमें सुखी तामे क्षणकमें दुखिया ॥  
 समकित जल विना त्रषित अनादि काल,  
 विषय कषायवह्नि अरण्यमे घुखिया ।  
 'बानारसीदास' जिन रीति विपरीति जाके  
 मेरे जानै ते तो नर मूढनमें मुखिया ॥ ५ ॥

अनुभवज्ञानतै निदान आनमान छूट्यो,  
 सरधानवान वान छहों द्रव्य करसैं ।  
 करम उपाधि रोग लोग जोग भोग राते,  
 भोगी त्रिया योगी करामातहूको तरसैं ॥  
 दुर्गति विषाद न उछाह सुर भौनवास,  
 समता सुक्षिति आतमीक मेघ वरसैं ।  
 'बानारसीदासजूके' वदन रसन रस,  
 ऐसे रसरसिय ते अरसको परसैं ॥ ६ ॥  
 आवरण समल विमल भयो ताके तुलें,  
 मोह आदि हने काहु काल गुनकसिया ।  
 स्तीन भयो लवलागी मगन विभावत्यागी,  
 ज्योतिके उदोत होत निज गुन पसिया ॥  
 'बानारसीदास' निज आतम प्रकाश भये,  
 आवें ते न जाहिं एक ऐसे वासवसिया ।  
 अरस परस दस आदि हीं अनन्त जन्तु,  
 सुरससवादराचै सोई साँचो रसिया ॥ ७ ॥  
 इस ही सुरसके सवादी भये ते तो सुनौ,  
 तीर्थकरचक्रवर्ति शैली अध्यातमकी ।  
 अल वासुदेव प्रति वासुदेव विद्याधर,  
 चारणमुनिन्द्र इन्द्र छेदी बुद्धि भ्रमकी ॥  
 अट्टाबीस लवधिके विविध सधैया साधु,  
 सिद्धिगति भये कीन्हीं सुगम अगमकी ।

‘बानारसीदास’ ऐसो अमीकुंडर्पिंड पायो,

तहाँलौं पहुंच कालक्रमकी न जमकी ॥ ८ ॥

इतर निगोदमे विभाव ताके बहुरूप,

तामें हू स्वभाव ताको एक अंश आवै है ।

बहै अंश तेजपुंज वादर अगनि जैसें,

एकतैं अनेक रस रसना बढावै है ॥

आगें जोर बह्यो घ्राण चक्षु श्रोत्र नरदेह,

देह देही भिन्न दीखे भिन्नता ही भावै है ।

‘बानारसीदास’ निज ज्ञानको प्रकाश भयो,

शुद्धतामें वास किये सिद्धपद पावै है ॥ ९ ॥

उदै भयो भानु कोऊ पंथी उठ्यो पंथकाज,

कहै नैनतेज थोरो दीप कर चहिये ।

कोऊ कोटीध्वज नृप छत्रछांह पुरतज,

ताहि हौंस भई जाय ग्रामवास रहिये ॥

मंगल प्रचंड तज काहू ऐसी इच्छा भई,

एक खर निज असवारी काज चहिये ।

‘बानारसीदास’ जिनवचन प्रकाश सुन,

और वैन सुन्यो चाहै तासों ऐसी कहिये ॥ १० ॥

ऊंचे वंशकी बढ़ाई प्रीतपनों प्रीतिताँई,

गुण गरवाई पिहुलाई घनो फेर है ।

बचन विलासको निवास बन सघनाई,

चतुर नागर नर सुरनको घेर है ॥

कीरति सराहको प्रवाह बहै महानदी,  
 एतो देश उपमा है सवै जग जेर है ।  
 हेरि हेरि देख्यो कोऊ और न अनेरो ऐंभो,  
 'वानारसीदास' वसुधामे गिरि मेर है ॥ ११ ॥

रीति विपरीति रंग राच्यो परगुण रस,  
 छायो भूठे भ्रम ताते छूटी निधि घरकी ।  
 तेरे घर ऋद्धि है अनंत आपरंग आये,  
 नेकु जो गरुरी फेरे हाय होय हरकी ॥  
 कायके उपायसेती एती होंस पूरै भले,  
 निजत्रियारूठे जेती होंस पूजै नरकी ।  
 'वानारसीदास' कहै मूढ़को विचार यह,  
 कोटीध्वज भयो चाहै आस करै परकी ॥ १२ ॥

ऋतु वरसात नदी नाले सर जोरचढे,  
 बढै नाहिं मरजाद सागरके फैलक ।  
 नीरके प्रवाह तृण काठवृन्द वहे जात,  
 चित्रावेल आइ चढै नाहीं काहू गैलकी ॥  
 'वानारसीदास' ऐसे पंचनके परपंच,  
 रंचक न संच आवै वीर बुद्धि छैलकी ।  
 कछु न अनीत न क्यौं प्रीति परगुणसेती,  
 ऐसी रीति विपरोत अध्यातमशैलकी ॥ १३ ॥  
 लवरूपातीत लागी पुण्यपाप भ्रांति भागी,  
 सहज स्वभाव मोहसेनावल भेदकी ।



ज्ञानकी लवधि पाई आतमलक्षधि आई,

तेज पुंज कांति जागी उमग अनन्दकी ॥

राहुके विमान बढ़ें कला प्रगटत पूर,

होत जगाजोत जैसे पूनमके चदकी ।

‘वानारसीदास’ ऐसे आठ कर्म भ्रमभेद,

सकति संभाल देखी राजा चिदानन्दकी ॥ १४ ॥

लिखतपढ़त ठाम ठाम लोक लक्षकोटि,

ऐसो पाठ पढ़े कछू ज्ञान हू न बढ़िये ।

मिथ्यामती पचि पचि शास्त्रके समूह पढ़े,

बन्धीकलवाजे पशुचामडोल मढिये ॥

दीपक संजोय दीनो चक्षुहीन ताके कर,

विकट पहार वापै कवहूँ न चढिये ।

‘वानारसीदास’ सो तो ज्ञानके प्रकाश भये,

लिख्यो कहा पढ़ै कछू लख्यो है सो पढ़िये ॥१५॥

एक मृतपिण्ड जैसे जलके सयोग छते,

भाजन विशेष कोट क्षणकमें खेद है ।

तैसें कर्मनीरचिदानन्दकी प्रणति दीखै,

नरनारी नपुंसक त्रिविध सुवेद है ॥

‘वानारसीदास’ अब वाको धूप याको तप,

छूटत संयोग ये उपाधिनको छेद है ।

पुगलके परचै विशेष जीव भेद भये,

पुगल प्रसंग विना आतम अभेद है ॥ १६ ॥

ये ही ज्ञान सबद सुनत सुर ताहि सुन,  
 षटरस स्वाद मानै तू तो ताहि मान रे ।  
 पिंड बिरह्वांडकी खबर खोजै ताहि खोज,  
 परगुण नि न गुण जानै ताहि जान रे ॥  
 विषय कषायके विलास मंडै ताहि छंड,  
 अमल अखंड ऋद्धि आनें ताहि आन रे ।  
 'वानारसीदास' ज्ञाता होय सोई जानै यह,  
 मेरे मीत ऐसी रीत चित्तसुधि ठान रे ॥ १७ ॥  
 उद्यम करत नर स्वारथके काज सब,  
 स्वारथके उद्यमको ह्वै रह्यो बहर सो ।  
 स्वारथको भजै निरस्वारथको तज रह्यो,  
 शहरको वन जानै वनको शहर सो ॥  
 स्वारथ भलो है जो तू स्वारथको पहिचानै,  
 स्वारथ पिछाने विन स्वारथ जहर सो ।  
 'वानारसीदास' ऐसे स्वारथके रंगराचे,  
 लोकनके स्वारथको लागत कहर सो ॥ १८ ॥  
 उलट पलट नट खेलत मिलत लोक,  
 याके उलटत भव एक तान ह्वै रह्यो ।  
 अज हूं न ठाम आवै विकथा श्रवण भावै,  
 महामोह निद्रामे अनादि काल स्वैरह्यो ॥  
 'वानारसीदास' जागे जागै तासों बनि आवै,  
 जिनवर उकति अमृत रस छ्वैरह्यो ।

उलटि जो खेलै तो तो ख्याज सो उठाय धरै,  
 उलटिके खेले विन खोटे ख्याल ह्वै रह्यो ॥ १६ ॥  
 कौन काज मुगध करत बध दीनपश,  
 जागी ना अगमज्योति कैसो जज्ञ करि है ।  
 कौन काज सरिता समुद्र सरजल डोहै,  
 आतम अमल डोह्यो अजहूं न डरि है ॥  
 काहे परिणाम संकलेश रूप करै जीव !  
 पुण्यपाप भेद किये कहूं न उधरि है ।  
 'बानारसीदास' जिन उकति अमृत रस,  
 सोई ज्ञान सुने तू अनंत भव तरि है ॥ २० ॥  
 खेलत अनन्तकाल भये पै न खेद पावै,  
 तीन सौ तेताल राजू मापकी तलकमें ।  
 केई स्वांग धर खेले वरष असंख्य कोटि  
 केई स्वांग फेर लावै पलक पलकमे ॥  
 खेलें जेते जन्तु तातें खेलने अनन्त गुणों,  
 'बानारसीदास' जानै ज्योतिकी भलकमे ।  
 खेले तैं बहुत ख्याल देखे तैं अल्प जन्तु,  
 देखे ते भी खेल बैठे 'ख्याल है खलकमें' ॥ २१ ॥  
 गुरुमुख 'तुवक' सुवक भरे श्रुत सोर,  
 कालकी लबाधि 'कलचंपी' दरम्यानकी  
 'जामकी' अगमबुद्धि जोग उपजोग शुद्धि,  
 'रंजक' अरथ 'ज्वाला' लागी शुभ ध्यानकी ॥

इत 'ज्ञातादल' उत 'मोहसेना' आई बन,  
 'वानारसीदास' जू 'कुमक' लीजो न्यानकी ।  
 जीवै न अवश्य जाके बन्दूक की 'गोली' लागै,  
 जागै न मिथ्यात जोपै 'गोली' लागै 'ज्ञानकी' ॥२२॥  
 अटमें विघट घाट उलट ऊरधवाट,  
 परगुण साधें ते अनन्त काल तंथको ।  
 'सुषमना' आदि 'इला पिंगला' की सोंज भई,  
 षटचक्रवेधी गण जीत्यो मनमथको ॥  
 सुलट्यो है कमल 'वनारसी' विशेष ताको,  
 सुनिवेकी इच्छा भई जिनमत ग्रन्थको ।  
 ऐसे ही जुगति पाय जोगी जोग निधि साधै,  
 जोगनिधि साधै तो सिधावै सिद्धपंथको ॥ २३ ॥  
 नीच मतिहीन कहै सो तो न वहै केवलीपै,  
 कहै कर्महीन सो तो सिद्ध परमितको ।  
 धियागारी धरें धिया सारसुत ऐसी धरी,  
 मेधाके मिलापसों मथन निज चितको ॥  
 मूरख कहैं ते साधें परम अवधिवार,  
 तहां न विचार कछु हित अनहितको ।  
 'वानारसीदास' तोसो निज ज्ञान गेह आये,  
 लोगनकी गारी सो सिंगार समकितको ॥ २४ ॥  
 चंचलता वाला वैस भोरी दै दै भूमि फिरै,  
 वर तरु भूमि देखै घूमत भरमते ।

यों ही पर योगपरणतिसेती परबंध,  
 १ औदयिक भाव मूढ पावेना मरमते ॥  
 निजकृत मानै ताते घटनि विशेष मानै,  
 २ वढेपरजाय याही कठिन करमते ।  
 'वनारसीदास' ऐसे विंकल विभांघ छूटे,  
 बुद्धि विसराम पायै स्वभाव धस्मते ॥ २५ ॥  
 छत्रधार बैठे घने लोगनकी भीरभांर,  
 दीखत स्वरूप सुसनेहिनीसी नारी है ।  
 सेना चारि साजिके बिराने देश दोही फेरी,  
 फेरसार करें मानो 'चौपर' पत्तारी है ॥  
 कहत 'वनारसी' बजाय धौसा बारवार,  
 ३ रागरस राच्यो दिन चारहीक्री वारी है ।  
 खुल्यो ना खजानो न खजानचीको खोजंपायो,  
 राज खसि जायगो खजाने विन ख्वारी है ॥२६॥  
 जागो राय चेतन सहज दल जुरि आये,  
 ४ मुके कर्मरिपुभाव मनमें उमाहवी ।  
 सरहद भई याकी लोकालोक परिमाणे,  
 ५ इन्द्रचन्द्र चितवत चौपकर चाहवी ॥  
 'वनारसीदास' ज्ञाता ज्ञान सेना वनि आई,  
 ६ आदि छतें अन्त विन ऐसी ही निवाहवी ।  
 खजानची शुभध्यान ज्ञानको खजानो पूरो,  
 ७ सूर्यो आप साहिव सुथिर ऐसी साहिवी ॥ २७ ॥

‘भाग’ उठें वामें यामें ‘क्रोधफेन’ फैलि रहे,

‘त्रिवलतरंगरंग’ दूहूँ नमें आवना ।

वामें ‘वृणकाठ धनधान्यपरिग्रह’ यामें,

वामें ‘मलपंक’ याहि ‘वधद्रोह’ भावना ॥

‘वानारसीदास’ वामे ‘आकृति अनेक’ उठें,

यहां ‘कुलकोड’ योनि जाति दोष लावना ।

बह्यो जात ‘जल’ तामें येते ‘कविभाव’ उठें,

आतमा बहिर तामें कहाँते स्वभावना ॥ २८ ॥

निजकाज सबहीको अध्यातम शैली सांभ,

मूढ क्यों न खोज देखै खोज औरवानमें ।

सदा यह लोकरीति सुनी है ‘वनारसीजू’

वचनप्रशाद नैकु ज्ञानीनके कानमें ॥

चेरी जैसें मलिमलि धोवत बिराने पांव,

परमनरंजिवेको सांभ ओ विहानमें ।

निजपांव क्यों न धौवै ? कोई सखी एसो कहै,

मो सी कोऊ आलसन और न जहानमें ॥ २९ ॥

देककरि मूरख बिरानें घर टिक रह्यो,

जानै मेरो यही घर में भी याही घरको ।

घर परमारथ न जानै तातैं भ्रमघेरो,

ठौर बिना और ठौर अधर पधरको ॥

पंचको भखायो कहै परपंच वंचद्रोह,

संग्रह समूह कियो सो तो पिंड परको ।

‘वानारसीदास’ ज्ञाताबुन्दमें विचार देख्यो,

परावर्त्त पूरणी जनम ऐसे नरको ॥ ३० ॥

ठांव मृगमद नाभि पुदगलगुन,

विसतरथो पौनते विशेष दूँढै वनमें ।

साहिष के काज मूढ अटत अनेक ठौर,

तनको जो भिन्न मानै तो तो तेरे तनमें ॥

कंठमाहिँ मणि कोऊ मूरख विसरि गयो,

सो तो उपखानों सांचो भयो दीन जनमें ।

‘वानारसीदास’ जिहँ काजको जगत फिरै,

सो तो काज सरै तेरे एक ही वचनमें ॥ ३१ ॥

भूल्यो तू निगोद कोऊ काल पाय डॉकि आयो,

प्रत्येक शरीर पच थाँवरमें तें धर थो ।

पुनि विकलिंदी इंदी पंच परकार चार,

नरक तिर्यंच देव, पुनि पुनि संचरथो ॥

‘वानारसीदास’ अब नरभव कर्म भूमि,

गंठिभेद कीन्हों मोक्षमारगमें पै धरथो ।

चेतरे चतुर नर अज हूँ तू क्यों न चेतै ?

इस अवतार आयो एते घाट उतरथो ॥ ३२ ॥

दूँढै लौण सागरमें नेक हूँ न ढील करै,

चारजल वसै वाके चारजल पै नहीं ।

सीतवदासीताहरिकान्तारक्ताश्रोतस्वाद,

स्वादो होय सोई स्वादै कोई काहूँ दै नहीं ॥

सुभरि विभावंसिधु समता स्वभावंश्रोत,

॥ 'वानारसी' लाभै तक्रो भ्रमनको भै नहीं ।

संगी मच्छ सारिखो स्वभावज्ञाता गहि राख्यो,

। राख्यो सोई जानै भैयां कहवेको है नहीं ॥३३॥

नैननतैं अगम अगम याही वैननतैं,

। उलट पलट वहै कालकूट कहरी ।

मूल विन पाये मूढ़ कैसें जोग साधि आवैं,

। सहज समाधिकी अगम गति गहरी ॥

अध्यातम सुन्यो तो पै सरधान हूँ न आवैं,

। तौ तौ भैया तै तौ बडी राजनीति चहरी ।

'वानारसीदास' ज्ञाता जापै सधै सोई जाने,

उदधि उधानतैं अधिक मनलहरी ॥ ३४ ॥

तत्त्व निजकाज कह्यो सत्त्व परशुण गह्यो,

। मनकी लहर मानों डसें नाग कारेसे ।

छिनकमें तपी छिन जपी हूँ के जापजपै,

छिनकमें भोगी छिन जोग परजारेसे ॥

'वानारसीदास' एते पूर्वकृत बंध ताके,

औदयिक भाव तेई आपो कर धारेसे ।

जब लग मत्त तौलों तत्त्वकी प्रहुंच नाही,

तत्त्व पायें मूढमती लागें मतवारेसे ॥ ३५ ॥

थिर थंभ उपल त्रिपुल ज्योति सरतीर,

सत्ता आये आपनी न कोऊ काके दलको ।



भासै प्रतिविम्ब अम्बु वायुसों अनेक फैन,  
 धूजतो सो दीखै पै न धूजै थंभ थलको ॥  
 जाकी दृष्टि पुगललों चेतन न भिन्न चितै,  
 आचरण देखे सरधान न विमल को ।  
 'वानारसीदास' ज्ञान आतम सुथिर, गुण,  
 डोलै परजायसो विकार कर्मजलको ॥ ३६ ॥  
 द्रव्यथकी दोउनकी सरहद देहमात्र,  
 भावथकी लोकपरिमाण वांकी इधिना ।  
 भाव सरहद योकी अलोकते अधिकाई,  
 ये तो शुभ काजकारी वार्ते कछू सिधि ना ॥  
 याके तो अभेद ऋद्धि अमल अखड पूर,  
 वाके सेना परदल कछू निज रिधि ना ।  
 'वानारसीदास' दोउ मीढि देखी दुनियांमे,  
 एक दिसि तेरी विधि एक दिसि विधिना ॥ ३७ ॥  
 धर्मदेव नरको वचन जैसो गिरिराज,  
 मिथ्याती वचन शुद्धारथको पटंतरो ।  
 पारस पाषाण जैसे जाति एक जेतो भेद,  
 मूरख दरश जैसे दरश महंतरो ॥  
 'वानारसीदास' कंकसार अन्यसार जैसो,  
 जनमको द्यौस जैसो द्यौस मरणंतरो ।  
 अध्यातम शैली अन्य शैलीको विचार तैसो,  
 ज्ञाताकी सुदृष्टिमाहिं लागै एतो अंतरो ॥ ३८ ॥

नरभव पाय पाय बहु भूमि धाय धाय,

पर गुण गाय गाय बहु देह धारी है ।

नरभव पीछे देह नरक अनेक भव,

फिर नर देव नर असंख्यात वारी है ॥

एक देवभव पीछे तिर्यच अनंत भव,

'वानारसी' संसारनिवास दुःखकारी है ।

ज्ञायक सुमतिपाय मोह सेना विछुराय,

अव चिदानंदराय शक्ति सँभारी है ॥ ३६ ॥

पामर वरण 'शूद्र' वास तव देह बुद्धि,

अशुभको काज ताहि तातैं वडी लाज है ।

वैश्यको विचार वाके कछू करतूति फेर,

'वैश्य' वास वसै तोलों नाहि जोगराज है ॥

'क्षत्री' शुद्ध परचंड जैतवार काज जाके,

'वानारसीदास' ब्रह्म अगम अगाज है ।

जैसे वास वसै लोय तामें तैसी बुद्धि होय,

'जैसी बुद्धि तैसी क्रिया क्रिया तैसो काज है ॥४०॥

फटिक पापाण ताहि मोतीकर मानै कोऊ,

घुंघची रक्त कहा रतन समान है ।

हस वक सेत इहां सेतको न हेत कछू,

रीरी पीरी भई कहा कंचनके वान है ॥

भेष भगवानके समान कोऊ आन भयो,

मुद्राको मंडान कहा मोक्षको सुथान है ।

'बानारसीदास' ज्ञाता ज्ञानमें विचार देखो,  
 काय जोग कैसो होउ गुण परधान है ॥ ४१ ॥  
 वेदपाठवाले ब्रह्म कहै पै विचार विना;  
 शिव कोई भिन्न जान 'शैव' गुणगावहीं ।  
 'जैनी' पर जतन जतन निजभिन्न जान,  
 'बानारसी' कहै 'चारवाक' धुंधधावहीं ॥  
 'बौद्ध' कहै बुद्ध रूप काहू एक देशवसे,  
 'न्यायके करनहार' ऊरध बतावहीं ।  
 छहों दरशनमाहिं छतो आहि छिपि रह्यो,  
 छूट्यो न मिथ्यात तारैं प्रगट न पावही ॥ ४२ ॥  
 भेषधर कोटिक नट्यो है लखचौरासी मे.  
 विना गुरुज्ञान वरतै न विचसावमे ।  
 गुरु भगवान तूही भगवानभ्रान्ति छूटै,  
 भ्रान्तिसे सुगुरुभाषै जैसें खीर तावमें ॥  
 'बानारसीदास' ज्ञाता भगवानभेद पायो,  
 भयो है उछाह तेरे वचन कहावमें ।  
 भेषधार कहै भैया भेषहीमें भगवान,  
 भेषमें न भगवान भगवान भावमें ॥ ४३ ॥  
 मोक्ष चलिवेको पंथ भूले पंथ पथिक ज्यों,  
 पंथवलहीन ताहि 'सुखरथ' सारसी ।  
 सहजसमाधि जोग साधिवेको 'रंगभूम'  
 परम अगम पद पढिवेको 'पारसी' ॥

भवसिन्धु तारिवेको शवद धरै है 'पोत'

ज्ञानघाट पाये 'श्रुतलंगर' लैभारसी ।

'समकित नैननिको याके वैन 'अंजन' से,

आतमा निहारिवेको आरसी बनारसी' ॥ ४४ ॥

जिनवाणी 'दुग्ध' माहिं 'विजया' सुमतिडार,

निजस्वाद 'कदवृन्द' चहलपहलमे ।

विवे- विचार उपचार ए 'कसू'भों' कीन्हों,

'मिथ्यासोफी' मिटि गये ज्ञानकी गहलमे ॥

'शीरनी' शुकलध्यान अनहद 'नाद' तान,

'गान' गुणमान करै सुजस सहलमें ।

'वानारसीदास', मध्यनायक सभासमूह,

अध्यातमशैली चली मोचके महलमे ॥ ४५ ॥

रसातल तलै पच गोलक अनन्त जतु;

तामें दोऊ राशि अन्तरहित स्वरूप है ।

कटुक मधुर जौलों अगानत भिन्नताई,

चिक्कणताभाव एक जैसे तेलरूप है ॥

जैसे कोऊ जात अध चौइन्द्री न कहियत,

द्रव्यको विचार मूढ़भावको निरूप है ।

'वानारसीदास' प्रभु, वीर जिन ऐसो कह्यो,

आतम अभव्य भैया सोऊ सिद्धरूप है ॥ ४६ ॥

लक्ष कोटि जोरिजोरि कंचन अम्वार कियो,

करता मैं-याको येतो करै मेरी शोभ को ।

धामधन भरो मेरे और तो न काम कछू,  
 सुख विसराम सो न पावे कहूं थोभको ॥  
 ऐसो बलवंत देख मोह नृप खुशी भयो,  
 सैनापति थाप्यो जैसे अहंभार मोभको ।  
 'बानारसीदास' ज्ञाता ज्ञानमें विचार देख्यो,  
 लोगनको लोभ लाग्यो लागे लोग लोभको ॥४७ ॥  
 बावन वरण ये ही पढ़त वरण चारि,  
 काहू पढ़ें ज्ञान बढें काहू दुख द्वंदजू ।  
 वरण भंडार पंच वरण रतनसार,  
 भौर ही भंडार भाववरण सुछंदजू ॥  
 वरणतें भिन्नता सुवरणमे प्रतिभासै,  
 सुगुण सुनत ताहि होत है अनंद जू ।  
 'बानारसीदास' जिनवाणी वरणन कियो,  
 तेरी वाणी वरणाच करै बड़े वृन्द जू ॥ ४८ ॥  
 शकबंधी सांचो 'शिरीमाल जिनदास' सुन्यो;  
 ताके वश 'मूलदास' विरध बढ़ायो है ।  
 ताके वंश चित्तिमे प्रगट भयो खड्गसेन,  
 'बानारसीदास' ताके अवतार आयो है ॥  
 वीहोलिया गोत गर वतन उद्योत भयो,  
 'आगरेनगर' ताहि भेंटे सुखपायो है ।  
 'बानारसी' 'बानारसी' खलक बखान करै,  
 ताको वंश नाम ठाम गाम गुण गायो है ॥ ४९ ॥  
 खुशी हू के मन्दिर 'कपूरचन्द' साहु बैठे,

बैठे 'कौरपाल' सभा जुरी मनभावनी ।  
 'बानारसीदास' जूके वचनकी वात चली,  
 याकी कथा ऐसी ज्ञाताज्ञानमनलावनी ॥  
 गुणवंत पुरुष के गुण कीरतन कीजे,  
 'पीतांबर' प्रीति करी सज्जन सुहावनी-।  
 वही अधिकार आयो 'ऊंचते विछोना पायो'  
 हुकम प्रसादतें भयी है 'ज्ञानवावनी' ॥ ५० ॥  
 सोलह सो छियासीये संवत कुंवारमास,  
 पक्ष उजियारे चन्द्र चढ़नेको चाव है ।  
 विजैदशी दिन आयो शुद्ध परकाश पायो,  
 उतरा आषाढ़ उडुगन यहै दाव है ।  
 'बानारसीदास' गुणयोग है शुक्लवाना,  
 पौरिषप्रधान गिरी करण कहाव है ।  
 एक तो अरथ शुभ महूरत वरणाव,  
 दूसरे अरथ यामें दूजो वरणाव है ॥ ५१ ॥  
 हेतवंत जेते ताको सहज उदारचित्त,  
 आगे कहों एतो वरदान मोहि दीजियो ।  
 उत्तम पुरुष 'शिरीवानारसीदास' यश,  
 पन्नगस्वभाव एक ध्यानसों सुनीजियो ॥  
 पचनस्वभाव विसतार कीज्यो देशदेश,  
 भ्रमर स्वभाव निज स्वाद रस पीजियो ।  
 वायन कवित्त ये तो मेरी मतिमान भये,  
 हंसके स्वभाव ज्ञाता गुण गहलीजियो ॥ ५२ ॥  
 इति श्रीवानारसी नामाङ्कित ज्ञानवावनी ।

## अथ वेदनिर्णयपंचासिका.

चूडामणि छन्द ।

जगत्तविलोचन जगतहित, जगतारण जग जाना ।

वन्दहु जगचूडामणी, जगनायक परधाना ॥

नमहुं ऋषभस्वामी प्रमुख, जिनचौबीस महन्ता ।

गुरुचरण चितराख मुख, कहूं वेदविरतन्ता ॥ १ ॥

मनहरण ( ( खड़ीबोली ) )

वेवलीकथितवेद अन्तर गुप्त भये,

जिनके शब्दमे अमृतरस चुका है ।

अथ ऋग्वेद यजुर्वेद शाम अथर्वण,

इनहीं का परभाव जगत मे हुआ है ॥

कहत 'बनारसी' तथापि मैं कहूँगा कछु,

सही समझेंगे जिनका मिध्यात मुवा है ।

भतवारो मूख न मानें उपदेश जैसे,

उलुबा न जाने किसीओर भानु उवा है ॥ २ ॥

दोहा ।

कहेहुं वेदपंचासिका, जिनवानो परमान ।

नर अजान जानें नहीं, जो जाने सो जान ॥ ३ ॥

ब्रह्मानाम 'युगादिजिन,' रूप चतुर्मुख धार ।

समवसरण मंडानमें 'वेद' वखानें चार ॥ ४ ॥

### वनाक्षरी ।

प्रथम पुनीत 'प्रथमानुयोगवेद' जामें,  
 त्रैसठशलाका महापुरुषों की कथा है ।  
 दूजो वेद 'करणानुयोग' जाके गरभ में,  
 करनी अनादि लोकालोक धिति जथा है ॥  
 'चरणानुयोग' वेद तीसरो प्रगट जामे,  
 मोखर्पथकारण आचार सिंधु मथा है ।  
 चौथोवेद 'दरव्यानुयोग' जामें दरवके,  
 षट्भेद करम उछेद सरवथा है ॥ ५ ॥

प्रथमवेद यथा:—

षट्पद ।

'तीर्थंकर' चौबीस, 'काम' चौबीस मनुजतन ।  
 'जिनमाता जिनपिता, सकल व्याप्तीसआठ मन ॥  
 'चक्रवर्ति' द्वादश प्रमान, एकादश 'शंकर' ।  
 नव 'प्रतिहर' नव 'वासुदेव', नव 'राम' शुभंकर ॥  
 'कुल्लकर' महन्त चवदह पुरुष, नव 'नारद' इत्यादि नर ॥  
 इनको चरित्र अरु गुणकथन, 'प्रथमवेद' यह भेद घर ॥ ६ ॥

द्वितीयवेद यथा:—

अगम अनंत अलोक, अकृत अनिमित्त अखंड सम ।  
 असंख्यातपरदेश, पुरुषआकार लोक नभ ॥  
 ऊरध स्वर्ग अधो पताल, नरलोक मध्यभुव ।  
 दीप असंख्य उदधि, असंख मंडलाकार अ व ॥



तिस मध्य अढ़ई दीपलग, पंचमेरु सागर जुगम !  
यह मनुजक्षेत्र परिमाण छिति, सुरविद्याधरको सुगम ॥ ७ ॥

मनहरण ।

सोलह सुरग नवग्रीव नव नवोत्तर,  
पंच पंचानुत्तर ऊपर सिद्धशिला है ।  
ता ऊपर सिद्धक्षेत्र तहां हैं अनन्तसिद्ध,  
एकमें अनेक कोऊ काहूसों न मिला है ॥  
अधोलोक पातालकी रचना अनेकविधि,  
नीचे सात नरकनिवास बहु विला है ।  
इत्यादि जगततिथि कही 'दूजेवेद' माहि,  
सोई जीव माने जिन मिथ्यात उगिला है ॥ ८ ॥

तृतीयवेद यथाः-

मिथ्याकरतूति नाली सासादन रीति भाखी,  
मिश्रगुणथानककी राखी मिश्र करनी ।  
सम्यक्वचन सार कखो नानापरकार,  
श्रावकआचार गुन एकादश धरनी ॥  
परमादीमुनिकी क्रिया कहीं अनेकरूप,  
भारी मुनिराजकी क्रिया प्रमादहरनी ।  
चारित्रकरण त्रिधा श्रेणिधारा दुविधा है,  
एक दोषमुखी एक मोखमुखी वरनी ॥ १० ॥

चौपाई ।

उपशम क्षिपक यथावत चारित, परकृत अनुमोदनकृतकारित ।  
द्विविधि त्रिविधि पनविधि आचारा, तेरह विधि सत्रह परकारा ॥११॥

दोहा ।

धरनन सख्य असंख्यविधि, तिनके भेद अनंत ।  
सदाचार गुणकथन यह, 'तृतीयवेद' विरतंत ॥ १२ ॥  
'चतुर्थवेद' यथा—रूपक धनाक्षरी ।

जीव पुद्गल धर्म, अधर्म आकाश काल,  
येहो छहो दरव, जगत के धरनहार ।  
एक एक दरवमें, अनंत अनंत गुन,  
अनंत अनंत परजायके करनहार ॥

एक एक दरवमें, शक्ति अनंत वसै,  
कोऊ न जनम धरै कोऊन मनहार  
निहचै निवेद कर्मभेद चौथेवेद माहिं,  
बगवानं सुगुरु मानै मोहको हरनहार ॥ १३ ॥  
चौपाई ।

येही चारवेद जगमाहिं । सर्व ग्रन्थ इनकी परछाहिं ॥  
ज्यों ज्यों धरम भयो विच्छेद । त्यों त्यों त्यों गुप्त भये ये वेद १४  
दोहा ।

द्वादशांगवानी विमल, गर्भित चारों वेद ।  
ते किन कीन्हें कब भये, सो सब वरनों भेद ॥ १५ ॥  
युगलधर्म रचना कहों, कुलकर रीति बखान ।  
“ऋषभदेव ब्रह्मा” कथा, सुनहु भविक धर कान ॥ १६ ॥  
“युगलधर्म यथा,”—चौपाई ।

प्रथमहिं “जुगलधर्म” है जैसा । गुरुपरसाद कहहुं कछु तैसा ॥  
जन्महिं जुगलनारिनर दोऊ । भाई बहिन न मानै कोऊ ॥ १७ ॥

दोहा ।

सुरसे सीरे सोमसे, बहुरानी बहुमित्र ।  
होहिं एकसे जुगल सब, कौतूहली विचित्र ॥ १८ ॥

मनहरण ।

सबहीके चित्त अतिसरलस्वभावी नित्त,  
सबहीके थिरचित्त कोऊ न सुगलिया ।  
हिये पुण्यरसपोष सहजसंतोष लिये,  
गुननके कोष दुखदोषके उगलिया ॥  
कोऊ नहि लरै कोऊ काहूको न धन हरै,  
कोऊ कवहूँ न करै काहूकी चुगलिया ।  
समतासहित संकलेशतारहित सब,  
सुखिया सदीव ऐसे जीव है जुगलिया ॥ १९ ॥  
भूषन नवीन वस्त्र मलहीन सबहीके,  
घर घर निकट कलपतरुवाटिका ।  
नाही रागद्वेषभाव नाहीं बंधको बडाव,  
नाही रोग ताप न विलोकै कोऊ नाटिका ॥  
विविधपरिग्रह सबके घर देखिये पै  
काहूके न पोरि परद्वार न कपाटिका ।  
अलपअहारी सब मृदुतनधारी सब,  
सुन्दरअकारी सब ऐसी परिपाटिका ॥ २० ॥

दोहा ।

घर घर नाटक होहि नित. घर घर गीत संगीत ।  
कवहूँ कोऊ न देखिये, वदनपीत भयभीत ॥ २१ ॥

## मनहरण ।

जिनके अल्प संकल्प विकल्प दोऊ,  
 थोरो मुखजल्प अल्पअहमेवता ।  
 जिनके न कोऊ अरि दीरघ शरीर धरि,  
 त्रिपतिकी दशा धरै विपत्ति न वेवता ॥  
 जिनके विपै वढ़ाव पत्योपमतीन आव,  
 सवै नर राव कोऊ काहूको न सेवता ।  
 ऐसे भद्रमानुष जुगल अवतार पाय,  
 करि करि भोग मरि मरि होंहि देवता ॥ २२ ॥  
 जिनके जनम माहि मातपिता मर जाहि,  
 व्यापै न वियोग दुख शोक नहि धरना ।  
 अपने अँगूठाको अमृतरसपान कर,  
 जिनको अपनो तन वर्द्धमान करना ॥  
 अन्तकाल जिनको असातावेदनी न होय,  
 छींक आये अथवा जँभाई आये मरना ।  
 जिनको शरीर खिर जाय ज्यों कपूर उडै,  
 ऐसो जिनवानीमे “जुगलधर्म” वरना ॥ २३ ॥

## चौपाई ।

जुगलधर्म जब लेय मरोरा । वाकी काल रहै कछु थोरा ॥  
 प्रगटहि तहां चतुर्दशप्रानी । “कुलकर नाम कहावें ज्ञानी ॥ २४ ॥  
 सब सुजान सबकी गति नीकी । सब शंका भेटहि सबजीकी ।  
 होहि विधिन्न ‘कल्पतरु ज्यों ज्यों । ‘कुलकर’ आगम भाषहि त्योंत्यों ॥

## दोहा ।

कह्यो सवनि भरि भरि जनम, हरि हरि भांति कहाव ।  
 धरि धरि तन मरि मरि गये, करि करि पूरण आव ॥ २६ ॥  
 इहिविधि चवदह मनु भये, कछु कछु अन्तरकाल ।  
 तीन ज्ञान संयुक्त सब, मति श्रति अवधि रसाल ॥ २७ ॥

## चौपाई ।

तेरह मनुके नाव जु आने । नाभिराय चौदहें बखाने ॥  
 मरुदेवी तिनकीं चरनारी । शीलवंत सुन्दरि सुकुमारी ॥ २८ ॥  
 ताके गर्भ भये अवतारी । ऋषभदेवजिन' समकितधारी ।  
 तीनज्ञान संयुक्त सुहाये । अगणित नाम जगतमें गाये ॥२९॥

ऋषभदेव कथनः—

## दोहा ।

“ऋषभदेव” जे जे दशा; धरिं किये जे काम ।  
 ते ते पदगर्भित भये, प्रगट जगतमें नाम ॥ ३० ॥  
 जे “ब्रह्माके” नाम सब, जगतमाहिं विख्यात ।  
 ते गुणसों करतूतिसों, “ऋषभदेव” की बात ॥ ३१ ॥

## चौपाई ।

जनमत नाम भयो शुभवेला । “आदिपुरुष” अवतार अकेला ॥  
 मातापिता नाम जब राखा । “ऋषभकुमार” जगत सब भाखा ॥३२॥  
 “नाभि” नाम “राजा” के जाये । “नाभिकमलउत्पन्न” कहाये ।  
 इन्द्र नरेन्द्र करें जब सेवा । तब कहिये “देवनको देवा” ॥३३॥

जुगलरीति तज नीति उधरता । तातें कहैं सृष्टिके “करता” ।  
 अस्मिंसिद्धिवाणिजके दाता । ताकारण “विधि” नाम ‘विधाता’ ॥  
 क्रियाविशेष रचीं जग जेती । जगत “विरञ्चि” कहैं प्रभु सेती ॥  
 जुग की आदि प्रजा जब पालें । जब जग नाम “प्रजापति” आले ॥ ३५

दोहा ।

कियो नृत्य काहू समय, नटी अप्सरा वाम ।  
 जगत कहै ब्रह्मा रचो, तिय “तिलोत्तमा” नाम ॥ ३६ ॥

चौपाई ।

गुरुविन गये महामुनि जब ही । नाम “स्वयंभू” प्रगटो तबहीं ॥  
 ध्यानारूढ़ परमतप सार्धे । “परमइष्ट” कह जगत अरार्धे ॥ ३७ ॥  
 “भरतखंडके” प्राणी जैते । प्रजा “भरतराजा” के तेते ।  
 “भरतनरेश” “ऋषभ” की साखा । तातें लोक ‘पितामह’ भाखा ३८  
 केवलज्ञानरूप जब होई । तब “ब्रह्मा” भाषै सब कोई ।  
 कंचनगढ़गर्भित जग भासै । नाम “हिरण्यगर्भ” परकासै ॥ ३६ ॥

दोहा ।

कमलासनपर बैठिके । देहि धर्म उपदेश ।  
 चमर छत्र लख जग कहै । “कमलाशन” लोकेश ॥ ४० ॥

चौपाई ।

आत्मभूमि रूप दरसावै । तबहिं “आत्मभू” नाम कहावै ॥  
 सकलजीवकी रक्षा भाखै । नाम “सहस्रपातु” जग राखै ॥ ४१ ॥  
 समवसरनमहिं चौमुखि दीसै । “चतुरानन” कह जगत अशीसै ॥  
 अक्षरविना “वेद” धुनि भासै । रचना रच “गणधर” परगासै ॥ ४२ ॥

‘चारवेद’ कहिये तब सेती । द्वादशांगकी रचना एती ॥

जब धुनि सुनि अनंतता गहिये । तब प्रभु “अनंतातमा कहिये ॥४३॥

“आदिनाथआदीश्वर” जोई । आदि अन्तविन कहिये सोई ॥

करै जगत इनहींकी पूजा । ये ही “ब्रह्म” और नहिं दूजा ॥४४॥

जबलों जीव मृषामग दौरै । तबलों जानै “ब्रह्मा” औरै ॥

जब “समकित” नैननसों सूझै । “ब्रह्मा ऋषभदेव” तब बूझै ॥४५॥

दोहा ।

“आदीश्वर ब्रह्मा” भये, किये ‘वेद’ जिन चार ।

नामभेद मतभेदसों, बड़ी जगतमें रार ॥ ४६ ॥

ब्रह्मलोक कथनः—

चौपाई ।

और उक्ति मेरे मन आवै । सांचीबात सबनको भावै ॥

“ब्रह्मा ब्रह्मलोक”को वासी । सो वृत्तान्त कहों परकासी ॥४७॥

कुंडलिया ।

ऊपर सब सुरलोक के, “ब्रह्मलोक” अभिराम ।

सो “सरवारथसिद्धि” तसु, पंचानुत्तर” नाम ॥

पंचानुत्तर नाम, धाम एका अवतारी ।

तहां पूर्वभव वसे, ऋषभजिन समकितधारी ॥

“ब्रह्म लोकसों चये, भये “ब्रह्मा” इहि भूपर ।

तातें लोक कहान, देव “ब्रह्मा” सब ऊपर ॥ ४८ ॥

चौपाई ।

“आदीश्वर” युगादि शिवगामी । तीनलोकजनअतरजामी ॥

ऋषभदेव ब्रह्मा जगसाखी । जिन सब जैनधर्मविधि भाखी ॥ ४९ ॥

ऋषभदेवके अगनितताऊं । कहों कहां लौं पार न पाऊं ॥  
वे अगाध मेरी मति हीनी । तातें कथा समापत कीनी ॥ ५० ॥

षट्पद ।

इहिविविध ब्रह्मा भये, ऋषभदेवाधिदेव मुनि ।  
रूप चतुर्मुख धारि, करी जिन प्रगट वेदधुनि ॥  
तिनके नाम अनंत, ज्ञानगर्भित गुणगूम्हे ।  
मैं तेते वरणये, अरथ जिन जिनके वूम्हे ॥  
यह “शब्दब्रह्मसागर” अगम, परमब्रह्म गुणजलसहित ।  
किमि लहै “बनारसि” पार पद, नर विवेक भुजबलरहित ॥ ५१ ॥

इति वेदनिर्णयपंचासिका

अथ त्रेशठशलाकापुरुषोंकी नामावली

वस्तुछन्द ।

नमो “जिनवर” नमो जिनवरदेव चौबीस ।  
नरद्वादश “चक्रधर” नव “मुकुन्द” नव “प्रतिनारायण” ।  
नव “हलधर” सकल मिलि, प्रभु त्रेशठ शिवपथपरायण ॥  
ए महंत त्रिभुवनमुकुट, परमधरमधनधाम ।  
ज्यों ज्यों अनुक्रम अवतरे, त्यों त्यों वरनों नाम ॥ १ ॥

सोरठा ।

केई तद्भव सिद्ध, निकटभव्य केई पुरुष ।  
मृषागंठि उरविद्ध, सुमति शलाकाधर सकल ॥ २ ॥



वस्तुछन्द ।

“ऋषभजिनवर” ऋषभजिनवर “भरतचक्रीश ।  
 “श्रीअजित जिनेश” हुव, “सगर” चक्री “संभवतीर्थकर” ।  
 “अभिनन्दन सुमति” जिन, “पद्मप्रभ सुपास श्रीशंकर” ॥  
 “श्रीचन्द्रप्रभु सुविध” जिन, “शीतल” जिन “श्रेयांश ।  
 “अश्वघ्रीव” प्रतिहर भयो, “हलधर विजय” सुवंश ॥ ३ ॥

सोरठा ।

हरि “त्रिपृष्टि” जिन जाय, “वासुपूज्य जिन द्वादशम ।  
 “तारक” प्रतिहरि वाय हलधर “अचल द्विपृष्टि” हरि ॥ ४ ॥

वस्तुछन्द ।

“विमल” जिनवर विमल जिनवर “मेरु” प्रतिविष्णु ।  
 वल “धर्म स्वयंभू” हरि, जिन “अनंत मधु” प्रतिदामोदर ।  
 वल “सुप्रभ” नाम हुव, “पुरुषोत्तम” हरि तासु सोदर ॥  
 “धर्म” जिनेश “निशुंभ” प्रति, नारायण नरभेस ।  
 राम “सुदर्शन” नाम हुव, हरि “नरसिंह नरेस ॥ ५ ॥

सोरठा ।

“मधव” नाम चक्रेश, चक्री “सनतकुमार” हुव ।  
 चक्री “शांति” नरेश, भयहु “शांति” जित शांतिकर ॥ ६ ॥

वस्तुछन्द ।

“कंथु” चक्री, “कुंथु” चक्री, “कुंथु” सर्वज्ञ ।  
 “अर” सार्वभौम हुव, “अर” जिनेश “प्रह्लाद” प्रतिहरि ।

वलभद्र “सुनंदि” हुव, “पुंडरीक” हरि वंधु तासु घर ॥

सार्वभौम “सुभौम” हुव, ‘बलि” प्रतिहरि अवतार ।

“नन्दमित्र” वलदेव हित, केशव “दत्तकुमार” ॥ ७ ॥

सोरठा ।

“पदम” चक्रि जिन “मल्लि, विजयसेन” पटखंडजित ।

“मुनिसुव्रत” हरि अल्लि, चक्रवर्ति “हरिपेण” हुव ॥ ८ ॥

षस्तुछन्द ।

भयहु “रावण” भयहु रावणनाम प्रतिकृष्ण ।

रघुनन्दन “राम” हुव, वासुदेव “लक्ष्मण” गण्णजै ।

“नमि” जिनवर “नेमि” जिन, “नरासंध” प्रतिहरि भण्णजै ॥

हलधर “पदम मुरारि” हरि, “ब्रह्मदत्त” चक्रीस ।

पास जिनेसुर “वीर” जिन, नर तीनत्रिवीस ॥ ९ ॥

सोरठा ।

त्रिभुवनमाहिं उदार, त्रेशठ पद उत्कृष्ट जिय ।

भाविभूत उपचार, वन्दै चरण “वनारसी ॥ १० ॥

तीर्थकर नामावली—षट्पद ।

ऋषभ अजित संभव जिनंद सुमति धर ।

श्रीपदमप्रभ श्रीसुपास, चन्द्रप्रभ जिनवर ॥

सुविधिनाथ शीतल श्रेयांसप्रभु वासुपूज्यं वर ।

विमल अनन्त सुधर्म शांति जिन कुंथुनाथ अर ॥

प्रभु मल्लिनाथ त्रिभुवनतिलक, मुनिसुव्रत नमि नेमि नर ।

पारस जिनेश वीरेश पद, नमति “वनारसी” जोर कर ॥११॥

चक्रवर्तिनामः—दोहा ।

भरत सगर मघवा सनत,—कुँवर शांति कुँथेश ।  
अर सुभौम पदमारुची, जय हर्षेण ब्रह्मेश ॥ १२ ॥

प्रतिनारायण नामः—दोहा ।

अश्वप्रीव तारक मधू, मेरु निशुँभ प्रह्लाद ।  
बलिराजा रावण जरा, सन्ध सुप्रतिहरिवाद ॥ १३ ॥

नारायणनामः—दोहा ।

त्रिपिष द्विपिष्ट स्वयंभु पुरु,—घोत्तम नरसिंहेश ।  
पुण्डरीक दत्ताधिपति, लछ्मण हरिमथुरेश ॥ १४ ॥  
बलभद्रनाम—दोहा ।

विजय अचल बल धर्मधर, सुप्रभ सुदर्शन नाम ।  
सुनंदि नंदिमित्रेश रघु, नाथपदम नवराम ॥ १५ ॥  
इति श्रीत्रेशठशलाकापुरुषोकी नामावली

अथ मार्गणाविधान लिख्यते

दोहा ।

वन्दहु देव जुगादिजिन, सुमरि सुगुरु मुखभाख ।  
चवदह मारगणा कहहुं, वरणहुं वासठ साख ॥ १ ॥

चौपाई ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९  
संजम भव्य अहार कषाय । दरशन ज्ञान जोग गति काय ॥

१० ११ १२ १३ १४  
लेश्या समकित सैनी वेद । इन्द्रिय सहितचतुदर्शभेद ॥ २ ॥

ए चौदह मारगणा सार । इनके वासठ भेद उदार ॥  
 वासठ संसारी जिय भाव । इनहिं उलंघि होय शिवराव ॥ ३ ॥  
 संजम सात भव्य द्वै भाय । द्विविधि अहारी चार कषाय ।  
 दर्शन चार आठविधि ज्ञान । जोग तीन गति चारविधान ॥ ४ ॥  
 षट काया लेश्या षट होय । षट समकित सैनीविधि दोय ॥  
 वेद तीनविधि इन्द्रिय पंच । सकल ठीक गति वासठ संच ॥ ५ ॥  
 इनके नाम भेद विस्तार । वरणहुं जिनवानी अनुसार ।  
 वासठरूप स्वांग धर जीव । करै नृत्य जगमाहिं सदीव ॥ ६ ॥  
 प्रथम असंजम रूप विशेष । देशसंजमी दृजो भेष ॥  
 तीजो सामायिक सुखधाम । चौथा छेदउत्थापन नाम ॥ ७ ॥  
 पंचम पद परिहारि विशुद्धि । सूक्ष्म सांपराय षट बुद्धि ॥  
 जथाख्यात चारित सातमा । सातों स्वांग धरै आतमा ॥ ८ ॥  
 भव्य अभव्य स्वांग धर दुधा । करै जीव जग नाटक मुधा ॥  
 अनहारक आहारी होय । नाचें जीव स्वांग धर दोय ॥ ९ ॥  
 कबहुं क्रोध अगनि लहलहै । कबहुं अष्ट महामद गहै ॥  
 कबहुं मायामयी सरूप । कबहुं मगन लोभ रसकूप ॥ १० ॥  
 चार कषाय चतुर्विध भेष । धर जिय ताटक करै विशेष ॥  
 कहुं चक्षुदर्शनसों लखै । अचक्षुदर्शनसों चखै ॥ ११ ॥  
 कहुं अवधि दर्शन सु प्रयुंज । कहुं सुकेवलदर्शन पुंज ॥  
 धर दर्शन मारगणा चारि । नाटक नटै जीव संसारि ॥ १२ ॥  
 कुमतिज्ञान मिथ्यामति लीन । कुश्रति कुआगम में परवीन ॥  
 धरै विभंगा अवधि अजाम । सुमति ज्ञान संसकित परवान ॥ १३ ॥

सुश्रुतिज्ञान परमागम सुणै । अवधि ज्ञान परमारथ मुणै ॥  
 मनपर्जय जानहि मनभेद । केवलज्ञान प्रगट सब वेद ॥ १४ ॥  
 एही आठ ज्ञानके अंग । नचै जीव इनरूप रसग ॥ १५ ॥  
 मनोजोगमय होय कदाचि । बोलै वचन जोगसों राचि ॥ १५ ॥  
 कायजोगमय मगन स्वकीय । नाचै त्रविधि जोग धर जीय ॥  
 सुरगति पाय करै सुखभोग । समसुखदुख नरगति संजोग ॥ १६ ॥  
 बहुदुख अल्पसुखी तिरजंच । नरक महादुख है सुख रंच ॥  
 चहुंगति जम्मन मरण कलेस । नटै जीव नानारसभेस ॥ १७ ॥  
 पृथिवी काय देह जिय धरै । अपकायिकमय है अवतरै ॥  
 अगनिकायमहि तपत स्वभाय । वायुकायमहि कहिये वाय ॥ १८ ॥  
 वनसपती रूपी दुखमूल । लहि त्रसकाय धरै तन थूल ॥  
 षटकाया षटविधि अवतार । धरि धरि मरै अनन्ती वार ॥ १९ ॥  
 धरै कृष्णलेश्या परिणाम । नीललेश्यमय आतमराम ॥  
 फिर धरै लेश्या कापोत । सहज पीतलेश्यामय होत ॥ २० ॥  
 चेतन पदमलेश्य परिवान । करै शुक्ललेश्या रसपान ॥  
 इहिविधि षट लेश्यापद पाय । जगवासी शुशुभ अभ कमाय ॥ २१ ॥  
 धर मिथ्यात्व भूठ सरदहै । वमि समकित सासादन गहै ॥  
 सत्य असत्य मिश्र समकाल । सीधे समकित चायक चाल ॥ २२ ॥  
 उपसम बोध धरै बहुवार । वेदै वेदकरूप विचार ॥  
 धर षट समकित स्वांग विधान । करै नृत्य जिय जान अजाना ॥ २३ ॥  
 सैनीरूप असैनीरूप । दुविधिस्वांग जिय धरै अनूप ॥  
 पुरुषवेद नृण अगनि उद्गाह । त्रियवेदी कारीसादाह ॥ २४ ॥  
 वनदवदाह नपुंसकवेद । नटै जीव धर रूप त्रिभेद ॥

थावरमाहिं इकेन्द्री होय । त्रस संखादिक इन्द्रिय दोय ॥ २५ ॥  
 पिपीलिकादिक इन्द्री तीनि । चौरिन्द्रिय जिय भ्रमरादीनि ॥  
 पंचेन्द्री देवादिक देह । सब बासठि मारगणा एह ॥ २६ ॥  
 जावत जिय मारगणारूप । तावत्काल वसै भवकूप ॥  
 जब मारगणा मूल उछेद । तव शिव आपै आप अभेद ॥ २७ ॥

दोहा ।

ये बासठ विधि जीवके, तनसम्बन्धी भाव ।  
 तज तनबुद्धि “वनारसी” कीजे मोक्ष उपाव ॥ २८ ॥  
 इति वासठ मार्गणा विधान ।

## अथ कर्मप्रकृतिविधान

वस्तुछन्द ।

परमशंकर परमशंकर, परमभगवान्  
 परब्रह्म अनादि शिव, अज अनंत गणपति विनायक ।  
 परमेश्वर परमगुरु, परमपंथ उपदेशदायक ॥  
 इत्यादिक बहु नाम धर जगतबंध जिनराज ।  
 जिनके चरण “वनारसी” बंदै निजहितकाज ॥ १ ॥

दोहा ।

नमों केवली के वचन, नमों आतमाराम ।  
 कहौं कर्मकी प्रकृति सब, भिन्न भिन्न पद नाम ॥ २ ॥

चौपाई ( १५ मात्रा )

एकहि करम आठविधि दीस । प्रकृति एकसौ अड़तालीस ॥  
 तिनके नाम भेद विस्तार । वरणहुं जिनवाणी अनुसार ॥ ३ ॥  
 प्रथमकर्म "ज्ञानावरणीय" । जिन सत्र जीव अज्ञाना कीय ॥  
 द्वितीय "दर्शनावरण" पहार । जाकी ओट अलख करतार ॥ ४ ॥  
 तीजा कर्म "वेदनी" जान । तासों निरात्राध गुणहान ॥  
 चौथा "महामोह" जिन भनै । जो समकित अरु चारित हनै ॥ ५ ॥  
 पंचम "आवकरम" परधान । हनै शुद्ध अवगाहप्रमान ।  
 छट्टा "नामकर्म" विरतंत । करहि जीवको मूरतिवंत ॥ ६ ॥  
 'गोत्र' कर्म सातमों बखान । जासों ऊंच नीच कुल मान ॥  
 अष्टम 'अन्तराय' विख्यात । करै अनन्तशक्तिको घात ॥ ७ ॥

दोहा ।

एही आठों करममल, इनमें गर्भित जीव ।

इनहिं त्याग निर्मल भयो, सो शिवरूप सदीव ॥ ८ ॥

चौपाई ।

कहो कर्मतरु डाल सरीस । प्रकृति एकसौ अड़तालीस ॥  
 "मतिज्ञानावरणी" जो कर्म । सो आवरि राखै मतिधर्म ॥ ९ ॥  
 "श्रुतिज्ञानावरणी" बल जहां । शुभश्रुतज्ञान फुरै नहिं तहां ॥  
 "अवधिज्ञान आवरण" उदोत । जियको अवधिज्ञान नहिं होत ॥ १० ॥  
 'मनपरजय आवरण' प्रमान । नहिं उपजै मनपर्जय ज्ञान ॥  
 "केवलज्ञानावरणी" कूप । तामहिं गर्भित केवलरूप ॥ ११ ॥  
 वरणी ज्ञानावरणकी, प्रकृति पंचपरकार ।  
 अब दर्शन आवरण तरु, कहहुं तासु नव डार ॥ १२ ॥

“चक्षुदर्शनावरणी” बंध । जो जिय करै होहि सो अंध ।  
 “अचक्षुदर्शनावरण” बधेव । शब्द फरस रस गंध न बेव ॥ १३ ॥  
 “अवधिदर्शनावरण” उदोत । विलल अवधिदर्शन नहिं होत ॥  
 “केवलदर्शनावरण” जहां । केवलदर्शन होय न तहां ॥ १४ ॥  
 “त्यानगृद्धि” निद्राबश परै । सो प्राणी विशेष बलधरै ॥  
 उठि उठि चलै कहै कछु बात । करै प्रचंड कर्मउतपात ॥ १५ ॥  
 “निद्रानिद्रा उदय स्वकीय । पलक उघाड़ सकै नहिं जीव ॥  
 “प्रचलाप्रचला” जावतकाल । चंचल अंग बहै मुख लाल ॥ १६ ॥  
 “निद्रा” उदय जीव दुख भरै । उठि चलै बैठे गिरि परै ॥  
 रहै आंख “प्रचलासों” घुली । आधी मुद्रित आधी खुली ॥ १७ ॥  
 सोवतमाहिं सुरति कछु रहै । बारवार “लघु निद्रा” गहै ॥  
 इति “दर्शनावरणि” नवधार । कहों वेदनी द्वयपरकार ॥ १८ ॥

दोहा ।

“साता” करम उदोतसों जीव विषयसुख वेद ।  
 करम “असाताके” उदय, जिय वेदै दुख खेद ॥ १९ ॥

चौपाई ।

अब मोहनी दुविधि गुरुभनै । इक दरशन इक चारित हनै ॥  
 दर्शनमोह तीन विधि दीस । चारितमोह विधान पचीस ॥२०॥  
 प्रथम मिथ्यातमोह की दौर । जिय सरदहै और की और ॥  
 दूजी मिश्रमोह की चाल । सत्य असत्य गहै समकाल ॥ २१ ॥  
 समकितमोह तीसरी दशा । करै मलिन समकित की रसा ॥  
 अब कषाय सोलहविधि कहों । नोकषाय नवविधि सरदहों ॥२२॥



प्रथमकषाय कहावै कोप । जाके उदय छिमागुण लोप ।  
द्वितिकषाय मान परचंड । विनय विनाश करै शतखंड ॥२३॥  
तीजी माया रूप कषाय । जाके उदय सरलता जाय ॥  
लोभ कषाय चतुर्थमभेद । जासु उदय संतोष उछेद ॥ २४ ॥

दोहा ।

ये ही चारकषाय मल, अनुक्रम सूक्ष्म थूल ।

चारों कीजे चौगुने, चन्द्रकला समतूल ॥ २५ ॥

अनन्तानुवधीय कषाय । जाके उदय न समकित थाय ॥  
अप्रत्याख्यानिया उदोत । पंचमगुणथानक नहिं होत ॥२६॥  
प्रत्याख्यान कहावै सोय । जहां सर्वसंयम नहिं होय ॥  
सो संज्वलन नाम गुरु भनै । यथाख्यातचारित जो हनै ॥२७॥  
क्रोध मान माया अरु लोभ । चारों चारचारविधि शोभ ॥  
ए कषाय सोलह दुखधाम । अब नव नोकषाय के नाम ॥ २८ ॥  
रागद्वेषकी हांसी जोय-हास्य कषाय कहावै सोय ॥  
सुखमें मगन होय जिय जहां । रति कषाय रस वरसै तहां ॥२९॥  
जहां जीवको कछु न सुहाय । तहां मानिये अरति कषाय ॥  
थरहर कंपै आतमराम । जामहिं सो कषाय भय नाम ॥३०॥

रुदन विलाप वियोग दुख, जहां होय सो सोग ।

जहां ग्लानि मन ऊपजै, सो दुर्गच्छा रोग ॥ ३१ ॥

नगर दाह सम परगट दीस । गुप्त पजावा अग्नि सरीस ॥

महा क्लृपता धरें सदीव । वेद नपुंसकधारी जीव ॥ ३२ ॥



ते तिराणवै कहूँ वखान । हिंड अपिंड वियालिस जान ॥  
प्रथमपिंड प्रकृती गतिनाम । सुर नर पशु नारक दुखधाम ॥४४॥

सोरठा ।

सुरगतिसों सुर गेह, नरशरीर नरगति उदय ।  
पशुगतिसों पशुदेह, नरक बसावै नरक गति ॥ ४५ ॥

चौपाई ।

चहुंगति आनुपूरवी चार । द्वितिय पिंड प्रकृती अवधार ॥  
मरण समय तज देह स्वकीय । परभव गमन करै जब जीव ॥४६॥  
आनुपूरवी प्रकृति पिरेरि । भावीगति में आनें घेरि ॥  
आनपूरवी होय सहाय । गहै जीव नूतन परजाय ॥ ४७ ॥  
तृतीय प्रकृति इन्द्रिय अधिकार । इग दुग तिग चहु पंच विचार ॥  
फरस रसन नासा हग कान । जथाजोग जिय नाम बखान ॥४८॥  
तन इन्द्रिय धारै जो कोय । मुख नासा हग कान न होय ॥  
सो एकेन्द्रिय थावर काय । भू जल अग्नि वनस्पति वाय ॥४९॥  
जाके तन रसना द्वय थोक । संख गिडोला जलचर जोक ॥  
इत्यादिक जो जगम जन्त । तेद्वै इंद्री कहै सिद्धन्त ॥ ५० ॥  
जाके तन मुख नाक हजूर । घुन पिपीलिका कानखजूर ॥  
इत्यादिक तेइन्द्रिय जीव । आंख कानसों रहत सदीव ॥ ५१ ॥  
जाके तन रसना नासा आंखि । विच्छु सलभ टीड अलि माखि ॥  
इत्यादिक जे आतमराम । ते जगमे चौइंद्री नाम ॥ ५२ ॥  
देह रसन नासा हग कान । जिनके ते पंचेद्री जान ॥  
नर नारकी देव तिरजंच । इन चारहुके इंद्री पंच ॥ ५३ ॥

चौथी प्रकृति शरीर विचार । औदारिक वैक्रियक अहार ॥  
 तैजस कार्माण मिल पंच । औदारिक मानुष तिरजंच ॥ ५४ ॥  
 वैक्रिय देव नारकी धरै । मुनि तपवल आहारक करै ॥  
 तैजस कार्माण तन दोय । इनको सदा धरें सबकोय ॥ ५५ ॥  
 जैसी उदय तथा तिन गही । चौथी पिंड प्रकृति यह कही ॥  
 अब बंधन संघातन दोय । प्रकृति पचमी छठवीं सोय ॥ ५६ ॥  
 बंधन उदय काय बंधान । संघातनसों दिड संघान ॥  
 दुहुंकी दश शाखा द्वय खंध । जयाजोग काया संबंध ॥ ५७ ॥  
 अब सातमी प्रकृति परसंग । कहों तीन तन अंग उपंग ॥  
 औदारिक वैक्रियक अहार । अंग उपंग तीन तनधार ॥ ५८ ॥  
 दोहा ।

सिर नितंब उर पीठ करि, जुगल जुगल पद टेक ।

आठ अंग ये तनविपै, और उपंग अनेक ॥ ५६ ॥

तैजस कार्माण तन दोय । इनके अंग उपंग न होय ॥

कहहुं आठमी प्रकृति विचार । षट् संस्थान रूप आकार ॥ ६० ॥

जो सर्वंग चारु परधान । सो है समचतुरस्र संठान ॥

ऊपर थूल अधोगत छाम । सो निगोधपरिमंडल नाम ॥ ६१ ॥

हेट थूल ऊपर कृश होय । सातिक नाम कहावै सोय ॥

कूबर सहित वक्र वपु जासु । कुबज अकार नाम है तासु ॥ ६२ ॥

लघुरूपी लघु अंग विधान । सो कहिये वामन संठान ॥

जो सर्वंग असुंदर भुंड । सो संठान कहावै हुंड ॥ ६३ ॥

कही आठमीप्रकृति छभेद । अब नौमी रंहनन निवेद ॥

है संहनन हाड़को नाम । सो षटविधि थंभै तन धाम ॥ ६४ ॥

बज्र कील कीलित संधान । ऊपरि बज्रपट्ट वंधान ॥  
 अंतर हाड बज्रमय वाच । सो है बज्रवृषभनाराच ॥ ६५ ॥  
 जहँ सब हाड बज्रमय जोय । बज्रमेल सो अविचल होय ॥  
 ऊपर वेढरूप सामान । नाम बज्रनाराच बखान ॥ ६६ ॥  
 बज्र समान होहिं जहँ हाड । ऊपर बज्ररहित पट आड ॥  
 बज्ररहित कीलीसों विद्ध । सो नाराच नाम परसिद्ध ॥ ६७ ॥  
 जाके हाड बज्रमय नाहिं । अर्द्धवेध कीली नसमाहिं ॥  
 ऊपर वेठबंधन नहिं होय । अर्द्धनराच कहावै सोय ॥ ६८ ॥  
 जहां न होय बज्रमय हाड । नहिं पटबंधन कीली गाड ॥  
 कीली विन दिढ बंधन होय । नाम कीलिका कहिये सोय ॥ ६९ ॥  
 जहां हाडसों हाड न बंधै । अमिल परस्पर संधि न संधै ॥  
 ऊपर नसाजाल अरु चाम । सो सेवट संहनन नाम ॥ ७० ॥  
 ये संहनन छविधि वरणई । नवमी प्रकृति समापति भई ॥  
 दशमी प्रकृति गमन आकाश । ताके दोय भेद परकाश ॥ ७१ ॥

दोहा ।

शुभविहाय गतिके उदय, भली चाल जिय धार ।

अशुभविहाय उदोतसों, ठानै अशुभ विहार ॥ ७२ ॥

पद्धरिछन्द ।

अब कहूं ग्यारमी प्रकृतिसच । जो वरणभेद परकार पंच ॥

सित अरुण पीत दुति हरित श्याम । ये वर्ण प्रकृति के पंच नाम ॥ ७३ ॥

जो वर्ण प्रकृति जाके उदोत । ताको शरीर तिह वर्ण होत ॥

रस नाम प्रकृति वारमी जान । सो पंचभेद विवरण बखान ॥ ७४ ॥

कटु मधुर तिक्त आमल कषाय । रसउदय रसीली होय काय ।  
जाको जो रस प्रकृती उदोत । ताके तन तैसो स्वाद होत ॥७५॥  
तेरहीं प्रकृति गंधमयी होय । दुर्गंध सुगन्ध प्रकार दोय ॥  
जो जीव जो प्रकृति करै बंध । तिह उदय तासु तन सोह गंध ॥७६॥  
अब फरस नाम चौदवीं बानी । तिस कहों आठ शाखा बखानि ॥  
चीकनी रुच कोमल कठोर । लघु भारी शीतल तप्त जोर ॥७७॥

दोहा ।

प्रकृति चीकनीके उदय, गहै चीकनी देह ।

रूखी प्रकृति उदोतसों, रूखीकाया नेह ॥ ७८ ॥

कठिन उदयसों कठिन तन, मृदु उदोत मृदु अंग ।

तपत उदयसों तपततन; शीतउदय शीतंग ॥ ७९ ॥

पद्धरिछन्द ।

जहँ भारी नाम परकृति उदोत । तहँ भारी तनधर जीव होत ॥

लघुप्रकृति उदयधर जीव जोय । अति हरुई काया धरै सोय ॥८०॥

ए पिंडप्रकृति दशचार भाखि । इनहीं की पैसठ कही साखि ॥

अब अठ्ठावीस अपिण्ड ठामि । तिनके गुणरूप कहों बखानि ॥८१॥

जब प्रकृति अगुरुलघु उदय देय । तब जीव अगुरुलघु तन धरेय ॥

उपघात उदय सो अंग व्याप । जासों दुख पावै जीव आप ॥८२॥

परघात उदयसों होय अंग । जो करै औरको प्राण भंग ॥

उस्सासप्रकृति जब उदय देय । तब प्राणी सास उसास लेय ॥८३॥

आतप उदोत तन जथा भान । उद्योत उदय तन शशि समान ॥

त्रस प्रकृति उदय धर जीव जोय । जंगम शरीरधर चलै सोय ॥८४॥

थावर उदोतघर प्राणधार-। लहि थिर शरीर न करै विहार ॥  
 सूक्ष्म उदोत लघु देह जास । सो मारै मरै न और पास ॥८५॥  
 वादर उदोत तन थूल होय । सबही के मारे मरै सोय ॥  
 परजापति प्रकृति उदय करंत । जिय पूरी परजापति धरंत ॥८६॥  
 जो प्रकृति अपर्जापत धरेय । सो पूरै परजापत न लेय ॥  
 प्रत्येक प्रकृति जाके उदोत । सो जीव वनस्पति काय होत ॥८७॥  
 जब तुचा काठ फल फूल पात । जहँ बीज सहित जिबराशिसात ॥  
 जो एक देहमें जीव एक । सो जीवराशिकहिये प्रत्येक ॥ ८८ ॥  
 प्रत्येक वनस्पति द्विविधिजान । सुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित बखान ॥  
 जो धारै राशि-अनन्तकाय । सो सुप्रतिष्ठित कहिये सुभाय ॥८९॥  
 जामे नहिं होय निगोदधाम । सो अप्रतिष्ठित प्रत्येकनाम ॥  
 अब साधारणवनस्पति काय । सो सूक्ष्म वादर,द्विविधि थाय ॥९०॥  
 सूक्ष्म निगोद जगमे अमेय । वादर यह दूजा नामवेय ॥  
 धरि भिन्न भिन्न कार्माण काय । मिलि जीव अनन्त इकत्र-आय-६१  
 संग्रहहि एक नो कर्म देह । तिस कारण नाम निगोद एह ॥  
 सो पिण्ड निगोद अनन्तरास । जियरूप अनंतानंत भास ॥९२॥  
 भर रहे लोकनभमें सद्बोव । ज्यों घड़ामाहिं भर-रहै घीव ॥  
 सूक्ष्म अरु वादर दोय साख । पुनि नित्य अनित्य दुभेदभाख ॥९३॥  
 जो गोलकरूपी पंचधाम । अंडर खडर इत्यादि नाम ॥  
 ते सातनरकके हेतु जान । पुनि सकललोकनभमें बखान ॥९४॥

दोहा ।

एक निगोद शरीरमे, जीव अनंत अपार ।

धरें जन्म सब एकठे, मरहिं एक ही बार ॥ ९५ ॥

मरण अठारह बार कर, जनम अठारह वेव ।

एक ग्वास उस्वासमें, यह निगोदकी देव ॥ ६६ ॥

एक निगोदशरीरमें, एते जीव वखान ।

तीन कालके सिद्ध सब, एक अंश परिमान ॥ ६७ ॥

बढ़ै न सिद्ध अनंतता, घटै न राशि निगोद ।

जैसेके तैसे रहें, यह जिनवचनविनोद ॥ ६८ ॥

ताते वात निगोदकी, कहै कहांलों कोय ।

साधारण प्रकृतीउदय, जिय निगोदिया होय ॥ ६९ ॥

यह साधारण प्रकृतिलों, वरणी चौदह साख ।

वाकी चौदह जे रहें, ते वरणीं मुख भाख ॥ १०० ॥

पद्धरिछन्द ।

थिरप्रकृति उदय थिरता अभंग । अस्थिर उदोतसों अथिर अंग ॥

शुभप्रकृति उदय शुभरीति सर्व । जहँ अशुभउदय तहँ अशुभपर्व ॥१॥

सौभागप्रकृति जाके उदोत । सो प्राणी सबको इष्ट होत ।

दुर्भागप्रकृतिके उदय जीव । सबको अनिष्ट लागै सदीव ॥ २ ॥

जहँ सुस्वरप्रकृति उदय वखान । तहँ कंठ कोकिला मधुरवान ॥

जो दुस्वरप्रकृति उदोत धार । ताकी ध्वनि ज्यों गर्दभपुकार ॥ ३ ॥

आदेयप्रकृति जाके उदोत । ताको बहु आदर मान होत ॥

जब अनादेय को उदय होय । तब आदर मान करै न कोय ॥४॥

जसनामउदय जिस जीव पाहिं । ताकी जस कीरति जगत माहिं ॥

जहँ प्रगट भालमहं अजसरेख । तहँ अपजस अपकीरति विशेष ॥५॥

निर्माणचितेरा उदय आय । सब अंगउपंग रचै बनाय ॥

तीर्थकरनामप्रकृति उदोत । लहि जीव तीर्थकरदेव होत ॥ ६ ॥



दोहा ।

ये तिरानवे और दश, तन सम्बन्धी आन ।

मिलहिं एकसौतीन सब, होहिं नाम की वान ॥ ७ ॥

चौपाई ।

नामप्रकृति संपूरण भई । पिंड अपिंड कही जो जुई ॥

पिण्डप्रकृति चौदह वनि रहो । तिनकी पैसठ शाखा कही ॥ ८ ॥

अट्ठाइस अपिंड वरनई । ते सब मिलि तिरानवे भई ॥

वरनों गोत करम सातमा । जासों ऊंच नीच आतमा ॥ ९ ॥

ऊंचगोत उद्योत प्रवान । होवै जीव उच्चकुलथान ॥

नीचगोत फल संगति पाय । जीव नीचकुल उपजै आय ॥ १० ॥

दोहा ।

गोत्रकर्मकी द्वयप्रकृति, तेहू कहीं बखानि ।

अंतराय अब पंचविधि, तिनकी कहीं कहानि ॥ ११ ॥

चौपाई ।

अंतराय अष्टम बटमार । सो है भेद पंच परकार ॥

अंतराय तरुकी द्वै डार । निचहै एक एक विवहार ॥ १२ ॥

कहों प्रथम निहचै की बात । जासु उदय आतमगुण घात ॥

परगुन त्याग होहि नहिं जहां । दान अन्तराय कहि तहां ॥ १३ ॥

आतमतत्त्वलाभकी हान । लाभअन्तराई सो जान ॥

जबलों आतमभोग न होय । भोगअन्तराई है सोय ॥ १४ ॥

वारवार न जमै उपयोग । सो है अन्तराय उपभोग ॥

अष्टकर्मको करै न जुदा । वीरज अन्तरायका उदा ॥ १५ ॥  
 निहचै कही पंच परकार । अब सुन अन्तराय विवहार ॥  
 छतीवस्तु कछु देय न सकै । दान अन्तराई वल ठकै ॥ १६ ॥  
 उद्यम करै न संपति होय । लाभ अन्तराई है सोय ॥  
 विषयभोग सामग्री छती । जीव न भोग कर सकै रती ॥ १७ ॥  
 रोग होय कै भोग जु रै । भोगअन्तरायवल फुरै ॥  
 एक भोगसामग्री सार । ताको भोग जु वारंवार ॥ १८ ॥  
 कीजे सो कहिये उपभोग । ताहू को न जु रै संजोग ॥  
 यह उरभोगघातकी कथा । वीरजअन्तराय सुन जथा ॥ १९ ॥  
 शक्ति अनंत जीवकी कही । सो जगदशामाहिं दव रही ॥  
 जगमें शक्ति कर्मआधीन । कवहूँ सबल कवहूँ बलहीन ॥ २० ॥  
 तनइन्द्रियवल फुरै न जहां । वीरजअन्तराय है तहां ॥  
 तातें जगतदशा परवान । नय राखी भाखी भगवान ॥ २१ ॥

### दोहा ।

ये वरणी व्यवहार की, अन्तराय विधि पंच ॥  
 अन्तर वहिर विचारतैं, संशय रहै न रंच ॥ २२ ॥  
 स्यादवाद जिनके वचन, जो मानै परमान ।  
 सो जानै सब नवदशा, और न कोऊ जान ॥ २३ ॥  
 सर्वघातियकी प्रकृति, देशघातियावान ॥  
 वाकी और अघातिया, ते सब कहों बखान ॥ २४ ॥

केवलज्ञानावरणी वान । केवलदरश आवरण जान ॥

निद्रो पच चौकरी तीन । प्रकृती द्वादश लीजे चीन ॥ २५ ॥

अनंतबंध अप्रत्याख्यान । प्रत्याख्यान चौक त्रिक जान ॥

सव मिथ्या मिश्रित मिथ्यात । ए इकवीस प्रकृति सव घात ॥२६॥

दोहा ।

सर्वघातियाकी कही, विंशति एक बखान ।

अव वरणों छवीसविंश, देशघातियावान ॥ २७ ॥

चौपाई ।

केवलज्ञानावरणी विना । बाकी चार आवरण गिना ॥

केवलदरशावरण छोड़ । बाकी तीनों लीजे जोड़ ॥ २८ ॥

चारभेद संज्वलनकपाय । नवविधि नोकषाय समुदाय ॥

समयप्रकृति मिथ्यात बखान । अन्तरायकी पाँचों वान ॥ २९ ॥

ए छवीस प्रकृति सव भई । देशघातियाकी वरनई ॥

बाकी रही एकसौ एक । ते सब कही घाति अतिरेक ॥ ३० ॥

दोहा ।

द्विविधिगोत्र द्वय वेदनी, आयु चारविधिजानि ॥

मिल तिरानवे नाम की, एकोत्तरशत वानि ॥ ३१ ॥

चौपाई ।

जे घातहिं सव आतमदर्ष । ते ही कही घातिया सर्व ॥

जे कछु घात करहिं कछु नाहिं । देशघातिया ते इन माहिं ॥ ३२ ॥

जे न करहिं आतमबल घात । ते अघातिया कहीं विख्यात ॥

अव सुन पुण्यपापके भेद । भिन्न भिन्न सव कहों निवेद ॥ ३३ ॥

इक सातावेदनी स्वभाव । नरकआयु विन तीनों आव ॥  
 ऊचगोत्र मानुपगति भलि । मानुपआनुपूरवी रली ॥ ३४ ॥  
 सुरगति सुरानुपूरवि जान । जात पंचेन्द्री एक वखान ॥  
 पंच शरीर पंच संघात । वधनसहित पंचसंगात ॥ ३५ ॥  
 अंग उपंग तीनविधि भास । विंशति वर्ण गंध रस फास ॥  
 पहिला समचतुरस्र सँठान । वज्रवृषभनाराच वखान ॥ ३६ ॥  
 भली चाल आतप उद्योत । पर परघात अगुरुलघु होत ॥  
 सास उसास प्रतेक प्रवान । त्रस वादर पर्यापत जान ॥ ३७ ॥  
 थिर शुभ शुभग सुस्वर आदेय । जसनिर्म्माण तीर्थकर घेय ॥  
 पुण्यप्रकृतिकी अडसठ वान । पापप्रकृति अब कहीं वखान ॥ ३८ ॥  
 सर्वघातियाकी इकवीस । देशघातिया की छव्वीस ।  
 ये सैतालिस प्रकृति कहीं । बाकी और कहहुँ जो रही ॥ ३९ ॥  
 प्रकृति असाता नीचकुल, नरकआयु गति दोय ।  
 पशु नारकि इन दुहुनकी, आनुपूरवी जोय ॥ ४० ॥  
 चार जाति पंचेन्द्री विना । पंचसंहनन प्रथम न गिना ॥  
 समचतुरस्रविन पंचअकार । वर्णादिक त्रिंशति परकार ॥ ४१ ॥  
 वुरी चाल थावर उपघात । सूक्ष्म साधारण विख्यात ॥  
 अनादेय अपर्यत दशा । दुर्भग दुस्वर अशुभ अपजशा ॥ ४२ ॥  
 अथिरसमेत एकसौ वान । ए सब पापप्रकृति परवान ॥  
 केती बंध उदय केतीक । तिनकी बात कहीं अब ठीक ॥ ४३ ॥

दोहा ।

चारबंध वरणादिमें, बाकी सोलह नाहिं ।

एक बंधमिथ्यातमें, द्वै गर्भित इसमाहिं ॥ ४४ ॥

तनबंधन संघातकी, प्रकृति पंचदश जान ।  
 पंच बंध दश बंध विन, ये अट्टाइस वान ॥ ४५ ॥  
 अट्टाइसको बंध नहिं, बंध एकसोवीस ॥  
 इनमें दोय बढाइये, होहिं उदयबावीस ॥ ४६ ॥

चौगई ।

बंध उदय विशेष यह बात । एक मिथ्यात तीन मिथ्यात ॥  
 एई दोय अधिक परनई । प्रकृति एकसोवाविस भई ॥ ४७ ॥  
 अब विपाक वरनों विधि चार । पुद्गल जीव क्षेत्र भव धार ॥  
 जे पुद्गलविपाककी वान । ते वासठविधि कहों वखान ॥ ४८ ॥  
 पंच शरीर बंधसंघात । अंग उपग अठारह बात ॥  
 छह संहनन छहों संठान । वर्णादिक गुन वीस वखान ॥ ४९ ॥  
 थिर उदोत आतप निरमान । अथिर अगुरुलघु अशुभ विधान ॥  
 साधारण प्रतेक उपघात । शुभ परघात सुवासठ बात ॥ ५० ॥  
 जीव विपाक अठत्तर गनी । द्विविधि गोत्र द्वयविधि चेदनी ॥  
 सर्वघात अरु देशविघात । सैंतालीस प्रकृति विख्यात ॥ ५१ ॥  
 तीर्थकर वादर उस्वास । सूक्ष्म परजापत परकास ॥  
 अपरजापति सुस्वर गेय । दुस्वर अनादेय आदेय ॥ ५२ ॥  
 जस अपजस त्रस थावर वान । दुर्भग शुभग चाल द्वयजान ॥  
 इन्द्री जाति पंचविधि गही । गति चारों एती सब कही ॥ ५३ ॥

दोहा ।

जीवविपाककी कही, प्रकृति अठत्तर ठौर ॥

क्षेत्रविपाकी अब कहों, भवविपाकिनीऔर ॥ ५४ ॥

आनुपूरवी चार विधि, क्षेत्रविपाकी जान ।  
 चार आयुवल्की प्रकृति, भवविपाकिया बान ॥ ५५ ॥  
 वाति अवाति त्रिविधि कहे, पुण्य पाप द्वय चाक ।  
 बंध उदय दोऊ कहे, वरनें चार विपाक ॥ ५६ ॥  
 अब इन आठों करमकी, थिति जघन्य उतकृष्ट ।  
 कहां वात संचेपसों, सुनों कान दे इष्ट ॥ ५७ ॥

चौपाई ।

ज्ञानावरणीकी थिति दीस । कोडाकोडीसागरतीस ॥  
 यह उत्कृष्टदशा परवान । एकमुहूर्त जघन्य बखान ॥ ५८ ॥  
 द्वितिय दर्शनावरणीकर्म । थिति उत्कृष्ट कहां सुन मर्म ॥  
 कोडाकोडी तीस समुद्र । एकमुहूरतकी थिति जुद्र ॥ ५९ ॥  
 तीजा कम वेदनी जान । कोडाकोडीतीस बखान ॥  
 यह उत्कृष्ट महाथिति जोय । जघन मुहूरतवारह होय ॥ ६० ॥  
 चौथा महामोह परधान । थिति उत्कृष्ट कही भगवान ॥  
 सागरसत्तरकोडाकोडि । लघुथिति एकमुहूरत जोडि ॥ ६१ ॥  
 पंचम आयु कही जगदीस । उत्कृष्टी सागर तेतीस ॥  
 थिति जघन्य सुमुहूरतएक । यों गुरु कही विचार विवेक ॥ ६२ ॥  
 छद्म नाम कर्मथिति कहां । कोडाकोडी बीस सरदहों ॥  
 सागर यह उत्कृष्टविधान । आठमुहूर्त जघन्य बखान ॥ ६३ ॥  
 गोत्रकर्म सातवां सरीस । उत्कृष्टी थिति सागरबीस ॥  
 कोडाकोडिकाल परमान । लघुथिति आठ मुहूरत मान ॥ ६४ ॥

अष्टम अंतराय दुखदानि । उत्कृष्टी थिति कहीं बखानि ॥  
सागरकोडाकोडी तीस । लघुथिति एकमुहूरत दीस ॥ ६५ ॥

वरनी आठों कर्मकी, थिति उत्कृष्ट जघन्य ॥

चाकी मध्यम और थिति, ते अखसंख्यधा अन्य ॥ ६६ ॥

अब वरनों पत्योपमकाल । तथा सागरोपमकी चाल ॥

कूपभरे जे रोम अपार । ते वरनों नाना परकार ॥ ६७ ॥

पत्योपमके भेद अनेक । तातें यहां न वरना एक ॥

जोजन कूप रोमकी बात । कही जैनमतमें विख्यात ॥ ६८ ॥

कूपकथा जैसी कछु कही । सो पत्योपम कहिये सही ॥

पत्योपम दश कोड़ाकोड़ि । सब एकत्र कीजिये जोड़ि ॥ ६९ ॥

एक सागरोपम सो काल । यह प्रमान जिनमतकी चाल ॥

यहै सागरोपमकी कथा । यथा सुनी मैं वरणी तथा ॥ ७० ॥

आठकर्म अठतालसों, प्रकृतिभेद विस्तार ।

कै जानें जिन केवली, कै जानै गनधार ॥ ७१ ॥

अल्पबुद्धि जैसी मुझ सहि । तैसी मैं वरनी इसमार्हि ॥

पंडित गुनी हंसो मत काय । अल्पमती भाषारुवि होय ॥ ७२ ॥

कर्मकांड अगम अगम, यथाशक्ति मन आन ।

भाषा मैं रचना कही, बालबोधमें जान ॥ ७३ ॥

कलसा-गीताछन्द

यह कर्म प्रकृतिविधान अविचल, नाम ग्रन्थ सुहावना ।

इसमार्हि गर्भित सुपुत्रचेतन, गुपत चारह भावना ॥

जो जान भेद बखान सरदहिं, शब्द अर्थ विचारसो ।

सो होय कर्मविनाश निर्मल, शिवस्वरूप 'वनारसी' ॥ ७४ ॥

दोहा ।

सवत् सत्रहसौ समय, फाल्गुणमास वसन्त ।

ऋतु शशिवासर सप्तमी, तव यह भयो सिद्धंत ॥ ७५ ॥

इति श्रीकर्मप्रकृतिविधान

अथ कल्याणमन्दिरस्तोत्र भाषानुवाद

दोहा ।

परमज्योति परमात्मा, परमज्ञान परवीन ।

बंदों परमानंदमय, घट घट अंतरलीन ॥ १ ॥

चौपाई ( १५ मात्रा )

निर्भयकरन परम परधान । भवसमुद्र जलतारण जान ॥

शिवमन्दिर अघहरण अनिन्द । बन्दहुं पासचरणअरविन्द ॥२॥

कमठमानभंजन वरवीर । गरिमासागर गुणगंभीर ॥

सुरगुरु पार लहें नहिं जासु । मैं अजान जंपों-जस तासु ॥३॥

प्रभुस्वरूप अति अगम अथाह । क्यों हमसे इह होय निवाह ।

ज्यों दिनअंध उलूको पोत । कहि न सकै रविकिरनउदोत ॥४॥

मोहहीन जानै मनमाहिं । तोउ न तुमगुण वरएँ जाहिं ॥

प्रलयपयोधि करै जल वौन । प्रगटहिं रतन गिनै तिहि कौन ॥५॥

तुम असंख्य निर्मलगुणखानि । मैं मतिहीन कहों निजवानि ॥

ज्यों बालक निज वांह पसार । सागरपरिमित कहै विचार ॥६॥



जो जोगीन्द्र करहि तप खेद । तउ न जानहि- तुमगुणभेद-॥  
 भगतिभाव मुक्त मन अभिलाख । ज्यों पंखी बोलहि निज भाख ॥७॥  
 तुम जसमहिमा अगम अपार । नाम एक त्रिभुवन आधार ॥  
 आवै पवन पद्मसर होय । ग्रीपमतपत निवारै सोय ॥८॥  
 तुम आवत भविजन मनमाहि । कर्मनिबध शथिल हो जाहि ॥  
 ज्यों चदनतरु बोलहि मोरत डरहि भुजङ्ग लगे बहुओर ॥९॥  
 तुम निरखतजन दीनदयाल । संकटतें छूटहि ततकाल ॥  
 ज्यों पशु घेर लेहि निशिचोर । ते तज भागहि देखत भोर ॥१०॥  
 तू भविजन तारक किम होह । ते चित धार तिरहि लै तोह ॥  
 यह ऐसै करि जान स्वभाउ । तिरै मसक ज्यों गर्भितवाउ ॥११॥  
 जिन सब देव किये वश वाम । तै छिनमें जीत्यो सो काम ॥  
 ज्यों जल करै अग्निकुलहानि । बड़वानल पीवै सो पानि ॥१२॥  
 तुम अनन्त गरुवा गुण लिये । क्योंकरभक्ति धरु निजहिये ॥  
 ह्वै लघुरूप तिरहि ससार । यह प्रभुमहिमा अकथ-अपार ॥१३॥  
 क्रोध निवार कियो मनशाति । कर्म सुभटजीते किहि भाति ॥  
 यह पटतर देखहु संसार । नीलवृत्त ज्यों दहै तुसार ॥१४॥  
 मुनिजनहिये कमल निज टोहि । सिद्धरूप समध्यावहि तोहि ॥  
 कमलकर्णिका विन नहि और । कमलबीज उपजनकी ठौर ॥१५॥  
 जग तुह ध्यानधरै मुनि कोय । तब विदेह परमात्म होय ॥  
 जैसे धातु शिलातन त्याग । कनकस्वरूप धरै जब आग ॥१६॥  
 जाके मन तुम करहु निवास । विनस जाय क्यों विग्रह तास ॥  
 ज्यों महन्त विच आवै कोय । विग्रह मूल निवारै सोय ॥१७॥

करहि विबुध जे आतम ध्यान । तुम प्रभावतें होय निदान ॥  
 जैसे नीर सुधा अनुमान । पीवत विष विकारकी हान ॥१८॥  
 तुम भगवंत विमल गुणलीन । समलरूप मानहिं मतिहीन ॥  
 ज्यों नीलिया रोग दृग गहै । वर्ण विवर्ण संखसौ कहै ॥१९॥

दोहा ।

निकट रहव उपदेश सुनि, तरुवर - भये अशोक ।  
 ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुविलोक ॥ २० ॥  
 सुमनवृष्टि जो सुरकरहि, हेठ बीटमुख सोहिं ।  
 त्यों तुम सेवत सुमनजन, बंध अधोमुख होहिं ॥ २१ ॥  
 उपजी तुम हिय उदधितें, वाणी सुधा समान ।  
 जिहि पीवत भविजन लहहिं, अजर अमर पदथान ॥ २२ ॥  
 कहहिं सार तिहुंलोकको, ये सुरचामर दोय ।  
 भावसहित जो जिन नमें, तसु गति ऊरध होय ॥ २३ ॥  
 सिंहासन गिरि मेरु सम, प्रभुधुनि गरजित घोर ।  
 श्याम सुतन घनरूप लख, नाचत भविजन मोर ॥ २४ ॥  
 छवि हत होहिं अशोकदल, तुमभामंडल देख ।  
 वीतराग के निकट रह, रहत न राग विशेष ॥ २५ ॥  
 शीखि कहै तिहुंलोकको, यह सुरदुंदुभि नाद ।  
 शिवपथ सारथिवाह जिन, भजहु तजहु परमाद ॥ २६ ॥  
 तीन छत्र त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छविदेत ।  
 त्रिविधिरूप धर मनहुं शशि, सेवत नखतसमेत ॥ २७ ॥

पद्धरिछन्द ।

प्रभु तुम शरीर दुति रतन जेम । परताप पुंज जिम शुद्ध हेम ॥  
 अति धवलसुजस रूपा समान । तिनके गढ़ तीन बिराजमान ॥२८॥

सेवहिं सुरेन्द्र कर नमित भाल । तिन शीसमुकुट तज देहिं माल ॥  
 तुव चरण लगत लहलहैं प्रीति । नहिं रमहि और जन सुमनरीति ॥२६॥  
 प्रभुभोग विमुख तन कर्म दाह । जन पार करत भवजल निर्वाह ॥  
 ज्यों माटीकलश सुपक होय । ले भार अधोमुख तिरहि तोय ॥३०॥  
 तुम महाराज निर्धन निराश । तज विभव विभव सब जग विकाश ॥  
 अक्षर स्वभावसैलिखै न कोय । महिमा अनन्त भगवंत सोय ॥३१॥  
 कोप्यो सु कमठ निज वैर देख । तिन करी धूल वर्षा विशेष ॥  
 प्रभु तुम छाया नहिं भई हीन । सो भयो पापी लंपट मलीन ॥३२॥  
 गरजंत घोर घन अंधकार । चमकंत विज्जु जलमुसलधार ॥  
 वरषंत कमठ धरध्यान रुद्र । दुस्तर करंत निजभवसमुद्र ॥३३॥

वस्तु छन्द ।

मेघमाली मेघमाली आप बल फोरि ।

भेजे तुरत पिशाचगण, नाथ पास उपसर्ग कारण ।

अग्नि जाल मलकंत मुख, धुनि करंत जिमि मत्तवारण ॥

कालरूप विकराल तन, मुंडमाल तिह कंठ ।

हैं निशंक वह रंकनिज, करै कर्मदृढगंठ ॥

चौपाई ।

जे तुम चरणकमल तिहुंकाल । सेवहिं तज मायाजंजाल ॥

भाव भगतिमन हरष अपार । धन्य २ जग तिन अवतार ॥३५॥

भवसागरमह फिरत अजान । मैं तुम सुजश सुन्यो नहिं कान ॥

जो प्रभुनाम मंत्र मन धरै । तासों बिपति भुजंगम डरै ॥३६॥

मनवाछित फल जिनपदमांहि । मैं पूरव भव पूजे नाहिं ॥  
 माया मगन फिरयो अज्ञान । करहिं रंकजन मुझ अपमान ॥३७॥  
 मोहतिमर छायो दृग मोहि ॥ जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि ॥  
 तौ दुर्जन मुझ संगति गहैं । मरमछेद के कुवचन कहैं ॥३८॥  
 सुन्यो कान जस पूजे पाय । नैनन देख्यो रूप अघाय ॥  
 भक्ति हेतु न भयो चित चाव । दुखदायक किरियाविन भाव ॥३९॥  
 महाराज शरणागत पाल । पतितउधारण दीनदयाल ॥  
 सुमिरण करहुँनाय निज शीस । मुझ दुख दूर करहु जगदीश ॥४०॥  
 कर्मनिकन्दनमहिमा सार । अशरणशरण सुजश विसतार ॥  
 नहिं सेये प्रभु, तुमरे पाय । तो मुझ जन्म अकारथ जाय ॥४१॥  
 सुरगण वन्दित दया निधान । जगतारण जगपति जगजान ॥  
 दुखसागरतें मोहि निकासि । निर्भयथान देहु सुखराशि ॥४२॥  
 मैं तुम चरणकमल-गुन गाय ॥ बहुविधि भक्ति करी मनलाय ॥  
 जन्मजन्म प्रभु पावहुँ तोहि ॥ यह सेवा फल दीजे मोहि ॥४३॥

दोषकान्त वेसरी छन्द । षट्पद

इहिविधि श्रीभगवंत, सुजश जे भविजन भाषहिं ।

ते निज पुण्य भंडार, संच चिरपाप प्रणासहिं ॥

रोमरोम हुलसंति अंग प्रभु गुणमनध्यावहिं ।

स्वर्गसंपदा भुंज, वेग पंचम गति पावहिं ॥

यह कल्याणमन्दिर कियो, कुमुदचन्द्र की बुद्धि ।

भाषा कहत बनारसी, कारण समकितशुद्धि ॥४४॥

इति श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्रं ।

## अथ साधुवन्दना लिख्यते

दोहा ।

श्रीजिनभाषित भारती, सुमरि आन मुखपाठ ।  
 कहीं मूल गुण साधुके, परमित विंशतिआठ ॥ १ ॥  
 पंचमहाव्रत आदरन, समति पंच परकार ।  
 प्रबल पंच इन्द्रिय विजय, घट अवशिक आचार ॥ २ ॥  
 भूमिशयन मंजनतजन, वसनत्याग कचलोच ।  
 एकवार लघुअसन तिथि-असन दंतवन मोच ॥ ३ ॥

चौपाई ।

थावर जन्तु पंच परकार । चार भेद जंगम तन धार ।  
 जो सब जीवनको रखपाल । सो सुसाधु वन्दहुं तिरकाल ॥४॥  
 संतत सत्य वचन मुख कहै । अथवा मौनविरत धर रहै ।  
 मृषावाद नहिं बोलै रती । सो जिन मारग सांचा जती ॥५॥  
 कौड़ी आदि रतन परजंत । घटित अघट धनभेद अनंत ॥  
 दत्त अदत्त न फरसै जोय । तारण तरण मुनीश्वर सोय ॥६॥  
 पशु पंखी नर दानव देव । इत्यादिक रमणी रति सेव ॥  
 तजहिं निरन्तर मदन विकार । सो मुनि नमहुं जगत हितकार ॥७॥  
 द्विविधि परिग्रह दशविधि जान । रांख असंख अनन्त बखान ॥  
 सकल सगतज होय । निराश । सो मुनि लहै मोक्ष पदवास ॥८॥  
 अधोदष्टि मारग अनुसरै । प्राशुक भूमि निरख पग धरै ॥  
 सदय हृदय साधै शिव पंथ । सो तपीश निरभय निर्ग्रन्थ ॥९॥

निरभिमान निरवद्य अदीन । कोमल मधुर दोष दुख हीन ॥  
 ऐसे सुवचन कहै स्वभाव । सो ऋषिराज नमहुं धरि भाव ॥१०॥  
 उत्तम कुल श्रावक संचार । तासु गेह प्राशुक आहार ॥  
 भुंजै दोष छियालिस टाल । सो मुनि बंदौ सुरति संभाल ॥११॥  
 उचितवस्तु निजहित परहेत । तथा धर्म उपकरण अचेत ॥  
 निरख जतनसों गहै जु कोय । सो मुनि नमहुं जोर कर दोय ॥१२॥  
 रोगविकृति पूरव आदान । नवदुवार मल अंग उठान ॥  
 डारै प्राशुक भूमि निहार । सो मुनि नमहुं भगति उरघार ॥१३॥  
 कोमल कर्कश हरुव सभार । रुक्ष सचिक्रण तपत तुसार ॥  
 इनको परसन दुख सुखलहें । सो मुनिराज जिनेश्वर कहें ॥१४॥  
 आमल कटुक कषायल मिष्ट । तिक्त चार रस इष्ट अनिष्ट ॥  
 इनहिं स्वाद रति अरति न वेव । सो ऋषिराज नमहिं तिहँ देव ॥१५॥  
 शुभ सुगंध नाना परकार । दुखदायक दुर्गन्ध अपार- ॥  
 नासा विषय गनहिं समतूल । सो मुनि जिनशासनतरुमूल ॥१६॥  
 श्यामहरित सित लोहित पीत । वरण विवरण मनोहर भ त ॥  
 ए निरखै तज राग विरोध । सो मुनि करै कर्ममल शोध ॥१७॥  
 शब्द कुशब्दहिं समरस साद । श्रवण सुनत नहिं हरष विषाद ॥  
 थुति निंदा दोऊं सम सुणै । सो मुनिराज परम पद मुणै ॥१८॥  
 सामाइक सावै तिहुं काल । मुक्ति पंथकी करै संभाल ॥  
 शत्रुमित्रदोऊं सम गणै । सो मुनिराज करमरिपु हणै ॥१९॥  
 अहत सिद्ध सूरि उवभाय । साधु पंच पद परम सहाय ॥  
 इनके चरणन में मन लाय । तिस मुनिवरके बन्दों पाय ॥२०॥

पावन पंचपरम ,पद इष्ट । जगतमाहिं जानै उतकिष्ट ॥  
 ठानै गुणथुति बारंबार । सो मुनिराज लहै भवपार ॥२१॥  
 ज्ञान क्रिया गुणधारै चित्त । दोष विलोक करै प्राच्छित्त ॥  
 नित प्रतिक्रमणक्रियारसलीन । सो सुसाधु संजम परबोन ॥२२॥  
 श्रीजिनवचन रचन विसतार । द्वादशंग परमागम सार ॥  
 निजमति मान करै सज्जाउ । सो मुनिवर बंदहुं घर भाउ ॥२३॥  
 काउसग्य मुद्रा धर नित्त । शुद्धस्वरूप विचारै चित्त ॥  
 त्यागै त्रिविधिजोग ममकार । सो मुनिराज नमो निरधार ॥२४॥  
 प्राशुक शिला उचित भूखेत । अचल अंग समभाव सचेत ॥  
 पश्चिमरैन अलप निद्राल । सो योगेश्वर वंचै काल ॥२५॥  
 धर्मध्यान जुत परम विचित्र । अन्तर बाहिज सहज पवित्र ॥  
 न्हाण विलेपन तजै त्रिकाल । वन्दौ सो मुनि दौनदयाल ॥२६॥  
 लोकलाजविगलित भयहीन । विषयवासनारहित अदीन ॥  
 नगन दिगम्बर मुद्राधार । सो मुनिराज जगत सुखकार ॥२७॥  
 सधन केश गर्भित मलकीच । त्रस असंख्य उतपति तसुबीच ॥  
 कच लु चै यह कारण जन । सो मुनि नमहुं जोरजुगपान ॥२८॥  
 छुधा चेदनी उपशम हेत । रस अनरस समभाव समेत ॥  
 एकवार लघु भोजन करै । सो मुनि मुक्ति पंथ पगधरै ॥२९॥  
 देह सहारौ साधन मोष । तबलौ उचित कायबल पोष ॥  
 यह विचार थिति लेहिं अहार । सो मुनि परम धरम धनधार ॥३०॥  
 जहँ जहँ नवदुचारमलपात । तहँ तहँ अमित जीव उतपात ॥  
 यह लख तजहिं दंतवन काज । सो शिवपथस.धक ऋषिराज ॥३१॥

ये अट्टाविस मूल गुण, जो पालहिं निरदोष ।  
सो मुनि कहत "बनारसी" पावै अविचल मोष ॥ ३२ ॥

इति साधुवन्दना

## अथ मोक्षपैडी लिख्यते

दोहा ।

इक समय रुचिर्वतनो, गुरु अक्खै सुनमल्ल ।  
जो तुम्ह अंदरचेतना, वहै तुसाड़ी अल्ल ॥ १ ॥  
ए जिनवचन सुहावने, सुन चतुर छयल्ला ।  
अक्खै रोचकशिक्खनो, गुरु दीनदयल्ला ॥  
इस बुझै बुध लहलहै, नहीं रहै मयल्ला ।  
इसदा मरम न जानई, सो द्विपद क्यल्ला ॥ २ ॥  
जिसदौ गिरदा पेचसों, हिरदा कलमल्ला ।  
जिसनः संसौ तिमिरसों, सूझै भल्लमल्ला ॥  
खनै जिन्हादी भूमिनौ, कुझान कुदल्ला ।  
सहज तिन्हादा वहजसों, चित रहै दुदल्ला ॥ ३ ॥  
जिन्हा इक करमदः, दुविधा पद भल्ला ।  
इक अनिष्ट असोहणा, इक भाक ममल्ला ॥  
तिन्हां इकन सूझई, उपदेश अहल्ला ।  
वंककटाछे लोपना, ज्यों चंद गहल्ला ॥ ४ ॥  
जिन्हां चित इतवारसों, गुरुवचन न भल्ला ।  
जिन्हां आगें कथन यो, ज्यों कोदों दल्ला ॥



बरसे पाहन भुम्भिमैं, नहिं होय चहल्ला ।

बोये बीज न ऊप्पजै, जल जाय बहल्ला ॥ ५ ॥

चेतन इस संसारमें, तू सदा इक्कला ।

आपै रूप पिशाच, ह्वै तैं अप्पा छल्ला ॥

आपै घुम्ब्यां गिरि पया, किण्णिदित्ता टल्ला ।

जिन्हसों मिलन विजोग है, तिनसों क्या तल्ला ॥ ६ ॥

इस दुनियां दी मोजसों, तू गरबगहल्ला ।

भया भार खम पुरुष, ज्यों छप्पर त्रिच बल्ला ॥

सुपनैदा सुख मान तैं, अपना घर घल्ला ।

फिरा भरमकी भौरमें, तू सहज विलल्ला ॥ ७ ॥

जोग अडंबर तैं किया, कर अंबर मल्ला ।

अंग विभूति लगायके, लीनी मृग छल्ला ॥

ह्वै वनवासी तैं तजा, घरबार महल्ला ।

अप्पापर न पिछाणियां, सब भूठी गल्ला ॥ ८ ॥

माया मिथ्या अग्रसोच, ये तीनों सल्ला ।

तिहुं वादी करतूतसों जियदा उरभल्ला ॥

ज्यों रुधिरादी पुट्टसों, पट दीसै लल्ला ।

रुधिर नलहिं पखालिये, नहिं होय उजल्ला ॥ ९ ॥

जब लग तेरी समझमें, होंदी हल चल्ला ।

सुजश बढ़ाई लाभनो, करदा छल बल्ला ॥

तबलग तू स्याणा नहीं, क्या मारइ कल्ला ।

सोर करंदा पालणै, ज्यों भूलै लल्ला ॥ १० ॥

किण तूं जकरा सांकलां, किण पकरा पल्ला ।  
 भिदमकरा जौं उरभिया, उर जाल उगल्ला ॥  
 चेतन जड़ संजोगमें, तैं टांका भल्ला ।  
 तुही छुडावहि आपको, लख रूप इकल्ला ॥ ११ ॥  
 जो तैं दारिद मानिया, ह्वै ठल्लमठल्ल ।  
 जो तू मानहि संपदा, भरि दामहू गल्ला ॥  
 जो तू हुवा करंकसा, अरु मोगर मल्ला ।  
 सो सब नाना रूप ह्वै, नाचै पुद्गल्ला ॥ १२ ॥  
 जो कुरूप दुरलच्छणा, जो रूप रसल्ला ।  
 वै संघा भरि जोवना, बूढा अरु बल्ला ॥  
 लंब मभोला ठींगना, गोरा अरु कल्ला ।  
 सो सब नानारूप है, निहचै पुद्गल्ला ॥ १३ ॥  
 जो जीरण ह्वै भरपडै, जो होय नवल्ला ।  
 जो मुरभावै सुककै, फुला अरु फल्ला ॥  
 जो पानीमें बह चलै, पावकमें जल्ला ।  
 सो सब नानारूप ह्वै, निहचै पुद्गल्ला ॥ १४ ॥  
 एक कर्म ईसै दुधा, ज्यो तुलदा पल्ला ।  
 हरुवै तन गुरुवैतसों, अध ऊरध थल्ला ॥  
 अशुभरूप शुभरूप ह्वै, दुहु दिशिनो चल्ला ।  
 धरै दुविधि विस्तार जौं, बट विरख जटल्ला ॥ १५ ॥  
 पवन परै रे जो उडै, माटी बिच गल्ला ।  
 जो अकाशमे देखिये, चल रूप अचल्ला ॥

पापी पावक पौन भू, चहुंधामैं रल्ला ।  
 सो सब नाना रूप है, निहचै पुद्रल्ला ॥ १६ ॥  
 खिणरोवे खिणमें हंसै, जौं मदमतबल्ला ।  
 त्यो दुहुंवादी मौजसों, बेहोश सभल्ला ॥  
 ईकसबीच विनोद है, इकमें खलफल्ला ।  
 समदृष्टी सृजन करै, दुहुंसो हलभल्ला ॥ १७ ॥  
 जति दुहुंकी एक जौं, मणि पत्थर डल्ला ।  
 जल विथार सँकोच सों कहिए नदि नल्ला ॥  
 उद्धत जलपरवाहमें, जौं भौर बुलल्ला ।  
 त्यो इस कर्म विपाकदे, विच ऊंचा खल्ला ॥ १८ ॥  
 दुहुंदा अथिर स्वभाव है, नहिं कोई अटल्ला ।  
 ऊंच नीच इक सम करै, कलिकाल पटल्ला ॥  
 अध ऊरध ऊरध अधो, थिति उथल पुथल्ला ।  
 अरहट हार विहारमें, क्या ऊपर तल्ला ॥ १९ ॥  
 पाया देवशरीरज्यो, नलनीर उडल्ला ।  
 भव पूरण कर ढहि पयो, फिर जल ज्यो डल्ला ॥  
 पुण्य पाप विच खेद है, यह भेद न भल्ला ।  
 ज्ञान क्रिया निरदोष है, जहँ मोख महल्ला ॥ २० ॥  
 वतनु तु साडा मोहमें, जौ रोह रुहल्ला ।  
 थिति प्रवाण तुम्ह नो भया, गुरुज्ञान दुहल्ला ॥  
 अब घट अंतर घटगई, भव भीर चुहल्ला ।  
 परम चाह परगट भई, शिव राह सहल्ला ॥ २१ ॥

ज्ञान दिवाकर ऊगियो, मति किरण प्रवह्ला ।  
 ह्रै शत खंड बिहंडिया, भ्रम तिमर पटह्ला ।  
 सत्य प्रतापै भंजिया, दुर्गती दुहह्ला ।  
 अंगि अंगरे दज्भिया, जौं तूल पहह्ला ॥ २२ ॥

दोहा ।

यह सतगुरुदी देशना, कर आस्रव दीवाड़ि ।  
 लद्धी पैडि मोखदी, करम कपाट उघाडि ॥ २३ ॥  
 भव थिति जिनकी घटगई, तिनको यह उपदेश ।  
 कहत 'बनारसिदास' यों, मूढ़ न समुझै लेश ॥ २४ ॥

॥ इति श्रीमोक्षपैडी ॥

## अथ कर्मछत्तीसी लिख्यते

दोहा ।

परम निरंजन परमगुरु, परमपुरुष परधान ।  
 वन्दहुं परमसमाधिगत, भयभंजन भगवान् ॥ १ ॥  
 जिनवाणी परमाण कर, सुगुरु शीख मन आन ।  
 कछुक जीव अरु कर्मको, निर्णय कहों वखान ॥ २ ॥  
 अगम अनंत अलोकनभ, तामें लोक अकाश ।  
 सदाकाल ताके उदर, जीव अजीव निवास ॥ ३ ॥  
 जीव द्रव्यकी द्वै दशा, संसारी अरु सिद्ध ।  
 पंच विकल्पअजीव के, अखय अनादि असिद्ध ॥ ४ ॥

गगन, काल, पुद्गल, धरम, अरु अधमं अभिधान ।  
 अब कछु पुद्गल द्रव्यको, कहों विशेष विधान ॥ ५ ॥  
 चरमदृष्टिसों प्रगट है, पुद्गल द्रव्य अनंत ।  
 जड़ लक्षण निर्जीव दल, रूपी मूरतिवंत ॥ ६ ॥  
 जो त्रिभुवन थिति देखिये, थिर जंगम आकार ।  
 सो पुद्गल परवानको, है अनादि विस्तार ॥ ७ ॥  
 अब पुद्गलके वीसगुण, कहों प्रगट समुभाय ।  
 गर्भित और अनन्तगुण, अरु अनन्त परजाय ॥ ८ ॥  
 श्याम पीत उज्ज्वल अरुण, हरित मिश्र बहु भांति ।  
 विविधवर्ण जो देखिये, सो पुद्गलकी कांति ॥ ९ ॥  
 आमल तिक्त कषाय कटु, क्षार मधुर रसभोग ।  
 ए पुद्गलके पांचगुण, षट मानहिं सबलोग ॥ १० ॥  
 तातो सीरो चीकनो, रुखो नरम कठोर ।  
 हलका अरु भारीसहज, आठ फरस गुणजोर ॥ ११ ॥  
 जो सुगंध दुर्गंधगुण, सो पुद्गलको रूप ।  
 अब पुद्गल परजायकी, महिमा कहों अनूप ॥ १२ ॥  
 शब्द, गंध, सूक्ष्म, सरल, लम्ब, वक्र, लघुथूल ।  
 विछुरन, भिदन, उदोत, तम, इनको पुद्गल मूल ॥ १३ ॥  
 छाया, आकृति, तेज, दुति, इत्यादिक बहु भेद ।  
 ए पुद्गलपरजाय सब, प्रगटहिं होय उच्छेद ॥ १४ ॥  
 केई शुभ केई अशुभ, रुचिर, भयानक भेष ।  
 सहज स्वभाव विभाव गति, अरु सामान्य विशेष ॥ १५ ॥  
 गर्भित पुद्गलपिंडमें, अलख अमूरति देव ।

फिरै सहज भवचक्रमें, यह अनादिकी देव ॥ १६ ॥

पुद्गलकी संगति करै, पुद्गलहीसों प्रीति ।

पुद्गलको आप गणै, यहै भ्रमकी रीति ॥ १७ ॥

जै जै पुद्गलकी दशा, ते निज मानै हंस ।

याही भ्रम विभावसों, वढै करमको वंश ॥ १८ ॥

ज्यों ज्यों कर्म विपाकवश, ठानै भ्रमकी मौज ।

त्यों त्यों निज संपत्ति दुरै, जुरै परिग्रह फौज ॥ १९ ॥

ज्यों वानर मदिरा पिये, विच्छू डकित गात ।

भूत लगै कौतुक करै, त्यों भ्रमको उत्पात ॥ २० ॥

भ्रम संशयकी भूलसों, लहै न सहज स्वकीय ।

करम रोग समुझै नहीं, यह संसारी जीय ॥ २१ ॥

कर्म रोगके द्वै चरण विषम दुहूँकी चाल ।

एक कंप प्रकृती लिये, एक एँठि असगल ॥ २२ ॥

कपरोग है याप पद, अकर रोग है पुण्य ।

ज्ञान रूप है आतमा, दुहूँ रोगसों शून्य ॥ २३ ॥

मूरख मिथ्यादृष्टिसों, निरखै जगकी रोंस ।

डरहि जीव सब पापसों, करहि पुण्यकी होंस ॥ २४ ॥

उपजै पापधिकारसों, नय तापादिक रोग ।

चिन्ता खेद विथा वढै, दुखमानै सबलोग ॥ २५ ॥

उपजै पुण्यविकारसों, विषयरोग विस्तार ।

आरत रुद्र विथा वढै, सुख मानै संसार ॥ २६ ॥

दोऊं रोग समान है, मूढ न जानें रीति ।  
 कंपरोगसों भय करै, अकररोगसों प्रीति ॥ २७ ॥  
 भिन्न २ लक्षण लखे, प्रगट दुहूँकी भांति ।  
 एक लिये उद्वेगता, एक लिये उपशांति ॥ २८ ॥  
 कच्छपकीसी सकुच है, बक्र तुरगकी चाल ।  
 अंधकारकोसी समय, कंपरोगके भाल ॥ २९ ॥  
 चकरकूंदसी उमंग है, जकरवन्दकी चाल ।  
 मकरचांदनीसी दिपै, अकररोगके भाल ॥ ३० ॥  
 तमउदोत दोऊं प्रकृति, पुद्गलकी परजाय ।  
 भेदज्ञान विन मूढ मन, भटक भटक भरमाय ॥ ३१ ॥  
 दुहुं रोगको एक पद, दुहुंसों मोक्ष न होय ।  
 विनाशीक दुहुंकी दशा विरला ब्रूमै कोय ॥ ३२ ॥  
 कोऊ गिरै पहाड चढ़, कोऊ बूढ़ै कूप ।  
 मरण दुहुंको एक सो, कहिवेको द्वै रूप ॥ ३३ ॥  
 भववासी दुबिधा धरै, तातै लखै न एक ।  
 रूप न जानै जलधिको, कूप कोषको भेक ॥ ३४ ॥  
 माता दुहु की वेदनी, पता दुहुंको मोह ।  
 दुहु वेडींसो वधि रहे, कहवत कंचन लोह ॥ ३५ ॥  
 जाति दुहु की एक है, दोय कहे, जो फ़ोय ।  
 गहै आचरै सरदहै, सुरवल्लभ है सोय ॥ ३६ ॥  
 जाके चित जैसी दशा, ताकी जैसी दृष्टि ।  
 पंडित भव खंडित करै, मूढ बढ़ायै सृष्टि ॥ ३७ ॥

इति कर्म वृत्तीसी ।

## अथ ध्यानवत्तीसी लिख्यते

दोहा ।

ज्ञान स्वरूप अनन्त गुण, निराबाध निरुपाधि ।

अविनाशी आनन्दमय, वन्दहुं ब्रह्मसमाधि ॥ १ ॥

भानु उदय दिनके समय, चन्द्र उदय निशि होत ।

दोऊं जाके नाम में, सो गुरु सदा उदोत ॥ २ ॥

चौपाई ( सोलामात्रा )

चेतहु पाणी सुन गुरुवाणी । अमृतरूप सिद्धांत बखानी ।

परगट दोऊं नय समुभावेँ । मरमी होय मरम सो पावेँ ॥ ३ ॥

चेतन जड अनादि संजोगी । आफहि कस्तः आपहि भोगी ।

सहज स्वभाव शक्ति जब जागै । तब निहचैके मारग लागै ॥ ४ ॥

फिरकै देहबुद्धि जब हो । नयव्यवहार कहावे सोई ।

भेदभाव गुन पंडित बूझै । जाको अगम अगोचर सूझै ॥ ५ ॥

प्रथमहि दान शील तप भावै । नय निहचै विवहार लखावै ।

परगुणत्यागबुद्धि जब होई । निहचै दान कहावै सोई ॥ ६ ॥

चेतन निज स्वभावमहँ आवै । तव सो निश्चयशील कहावै ।

कर्मनिर्जरा होय विशेषै । निश्चय तप कहिये इह लेखै ॥ ७ ॥

विमलरूप चेतन अभ्यासै । निश्चयभाव तहां परगासै ।

अव सदगुरु व्यवहार बखानै । जाकी महिमा सब जगजानै ॥ ८ ॥

मनवचकाय शक्ति कछु दीजे । सो व्यवहारी दान कहीजे ।

मनवचकाय तजै जब नारी । कहिये सोइ शील विवहारी ॥ ९ ॥



मनवचकाय कष्ट जब सहिये । तासों विवहारी तप कहिये ।  
मनवचकाय लगनि ठहरावै । सो विवहारी भाव कहावै ॥ १० ॥

दोहा ।

दान शील तप भावना, चारों सुख दातार ।  
निहचै सों निहचै मिलै, विवहारी विवहार ॥ ११ ॥

चौपाई ।

अब सुन चार ध्यान हितकारी । साधहिं मुक्तिपंथ व्यापारी ॥  
मुद्रा मूरति छवि चतुराई । कलाभेष बलवेस बढ़ाई ॥ १२ ॥  
फरस वरण रस गंध सुभाखा । इह रूपस्थध्यानकी शाखा ॥  
इनकी संगति मनसा साधै । लगन सीख निज गुण आराधै ॥ १३ ॥  
रहै मगन सो मूढ कहावै । अलख लखाव विचच्छरण पावै ॥  
अर्हत आदि पंच पदलीजे । तिनके गुणको सुमरण कीजे ॥ १४ ॥  
गुणको खोज करत गुण लहिये । परमपदस्थध्यान सो कहिये ॥  
चंचलता तज चित्त निरोधै । ज्ञानदृष्टि घटअन्तर शोधै ॥ १५ ॥  
भिन्न भिन्न जड़ चेतन जोवै । गुण विलेच्छ गुणमाहिं समोवै ॥  
यह पिंडस्थध्यान सुखदाई । कर्मनिरजरा हेत उपाई ॥ १६ ॥  
आप संभार आपसों जोरै । परगुणसों सब नाता तोरै ॥  
लगै समाधि ब्रह्ममय होई । रूपातीत कहावै सोई ॥ १७ ॥

दोहा ।

यह रूपस्थपदस्थविधि, अरु पिंडस्थविचार ।  
रूपातीत वितीत मल, ध्यान चार परकार ॥ १-॥

## चौपाई ।

ज्ञानी ज्ञान भेद परकाशै । ध्यानी होय सो ध्यान अभ्यासै ॥  
 आर्त रौद्र कुध्यानहि त्यागै । घर्मशुकलके मारग लागै ॥ १६ ॥  
 आरत ध्यान चितवन कहिये । जाकी संगति दुरगतिलहिये ॥  
 इष्टविजोग विकलता भारी । अरि अनिष्ट सजोग दुखारी ॥ २० ॥  
 तनकी व्यथा मगन मन भूरै । अग्र शोचकर बांछति पूरै ॥  
 ए आरतके चारों पाये । महा । मोहरससों लपटायै ॥ २१ ॥  
 अब सुन रौद्र ध्यानकी सैली । जहां पापसों मतिगति मैली ॥  
 मनउछाहसों जीव विराधै । हिये हर्षधर चोरा साधै ॥ २२ ॥  
 विकसित भूटवचन मुखभाखै । आनंदितचितविषया राखै ॥  
 चारों रौद्र ध्यानके पाये । कर्मबन्धके हेतु बनाये ॥ २३ ॥

## दोहा ।

आरतरौद्र विचारतें, दुखचिन्ता अधिकाय ।  
 जैसै चढ़ै तरंगिनी, महामेघ जलपाय ॥ २४ ॥

## चौपाई ।

आर्त रौद्र कुध्यान बखाने । धर्मध्यान अब सुनुहु सयाने ॥  
 केवल भाषित बाणी मानै । कर्मनाशको उद्यम शानै ॥ २५ ॥  
 पूरवक्रमे उदय पहिचानै । पुरुपाकार लोकथिति जानै ॥  
 चारों धर्म ध्या के पाये । जे समुझे ते मारग आयै ॥ २६ ॥  
 अब सुन शुक्ल ध्यानकी वार्ते । मिटै मोहकी सत्ता जातै ।  
 जोग साध सिद्धांत विचारै । आतम गुण परगुण निरवारै ॥ २७ ॥

उपशम क्षपक श्रेणि आरोहै । पृथक्त त्रितर्क आदि पद सो है ॥  
 उपशम पंथ-चढ़ै नहिं कोई । क्षपकपंथ निमेल मन होई ॥ २८ ॥  
 तब मुनि लोकालोकविकासी । रहहिं कर्मकी प्रकृति पचासी ॥  
 केवल ज्ञान लहै जग पूजा । एक वितर्क नाम पद दूजा ॥ २९ ॥  
 जिनवर आयु निकट जब आवै । तहां बहत्तर प्रकृति खपावै ॥  
 सूक्ष्म चित्त मनोबल छीजा । सूक्ष्म क्रिया नाम पद तीजा ॥ ३० ॥  
 शक्ति अनंत तहां परकाशै । ततखिन तेरह प्रकृति विनाशै ॥  
 पच लघूत्तर परमित वेरा । अष्ट कर्मको होय निवेरा ॥ ३१ ॥  
 चरण चतुर्थ साध शिव पावै । विपरीत क्रिया निर्वृत्ति कहावै ॥  
 शुक्त ध्यानके चारों पाये । मुक्तिपंथकारण समुझाये ॥ ३२ ॥

शुक्त ध्यान औषधि लगे, मिटै कर्मको रोग ।

कोइला छांडै कालिमा, होत अग्निसंजोग ॥ ३३ ॥

यह परमारथ पंथ गुन, अराम अनन्त बखान ।

कहत बनारसि अल्पमति, जथासकति प्रवान ॥ ३४ ॥

इति ध्यानवत्तीसी

## अथ अध्यात्मवत्तीसी लिख्यते

शुद्ध वचन सद्गुरु कहै, केवल भाषित अंग ।

लोक पुरुषपरिमाण सब, चौदह रज्जु उतंग ॥ १ ॥

घृतघटपूरित लोकमे, धर्म अधर्म अकास ।

काल जीव पुनल सहित, छहों द्वर्गको वास ॥ २ ॥

छहों दरब न्यारे सदा, मिलै न काहू कोय ।

छीर नीर ज्यों मिल रहे, चेतन पुद्गल दोय ॥ ३ ॥

चेतन पुद्गल यों मिलें, ज्यों तिलमें खलि तेल ।

प्रगट एकसे देखिये, यह अनादिको खेल ॥ ४ ॥

वह वाके रससों रमै, वह वासों लपटाय ।

चुम्बक करपै लोहको, लोह लगै तिहँ धाय ॥ ५ ॥

जड़ परगट चेतन गुपत, द्विविधा लखै न कोय ।

यह दुविधा सोई लखै, जो सुविचक्षण होय ॥ ६ ॥

ज्यों सुवास फल फूलमें, दही दूधमें, घीव ।

पावक काठ पषाणमें, त्यों शरीरमें जीव ॥ ७ ॥

कर्मस्वरूपी कर्ममें, घटाकार घटमाहिं ।

गुणप्रदेश प्रच्छन्न सब, थातै परगट नाहिं ॥ ८ ॥

सहज शुद्ध चेतन वसै, भावकर्मकी ओट ।

द्रव्यकर्म नोकर्मसों, वेंधी पिंडकी पोट ॥ ९ ॥

ज्ञानरूप भगवान शिव, भावकर्म चित भर्म ।

द्रव्यकर्म तनकारमन, यह शरीर नोकर्म ॥ १० ॥

ज्यों कोठीमें धान थो, चमी माहिं कनबीच ।

चमी धोय कन राखिये, कोठी धोए कीच ॥ ११ ॥

कोठी सम नोकर्म मल, द्रव्य कर्म ज्यों धान ।

भावकर्ममल ज्यों, चर्मा, कन समान भगवान ॥ १२ ॥

द्रव्यकर्म नोकर्ममल, दोऊ पुद्गल जाल ।

भावकर्म गति ज्ञान मति, द्विविधि ब्रह्मकी चाल ॥ १३ ॥

द्विविधि ब्रह्मकी चालसों, द्विविधि चक्रको फेर ।

एक ज्ञानको परिणामन, एक कर्मको घेर ॥ १४ ॥

ज्ञानचक्र अन्तर गुपत, कर्मचक्र प्रत्यक्ष ।

दोऊं चेतनभाव ज्यों, शुक्तपक्ष, तमपक्ष ॥ १५ ॥

निज गुण निज परजायमें, ज्ञानचक्रकी भूमि ।

परगुण पर परजायसों, कर्मचक्रकी धूमि ॥ १६ ॥

ज्ञानचक्रकी ढरनिमे' सजग भांति सब ठौर ।

कर्मचक्रकी नींदसों, मृषा स्वप्नकी दौर ॥ १७ ॥

ज्ञानचक्र ज्यों दरशनी, कर्मचक्र ज्यों अंध ।

ज्ञानचक्रमें निर्जरा, कर्मचक्रमें बन्ध ॥ १८ ॥

ज्ञानचक्र अनुसरणको, देव धर्म गुरु द्वार ।

देव धर्म गरु जो लखें, ते पावें भवपार ॥ १९ ॥

भववासी जानै नहीं, देवधरमगुरुभेद ।

परथो मोहके फन्दमें, करै मोक्षको-खेद ॥ २० ॥

उदय सुकर्म कुकर्मके, रुलै चतुर्गति माहिं ।

निरखै वादिजदृष्टिसों, तहें शिवमारग नाहिं ॥ २१ ॥

देवधर्म गुरु हैं निकट, मूढ़ न जानै ठौर ।

बँधी दृष्टि मिथ्यातसों, लखै औरकी और ॥ २२ ॥

भेषधारिको गुरु कहै, पुण्यवन्तको देव ।

धर्म कहै कुल रीतिको, यह कुकर्मकी देव ॥ २३ ॥

देव निरंजनको कहै, धर्म वचन परवान ।

साधु पुरुषको गुरु कहै, यह सुकर्मको ज्ञान ॥ २४ ॥

जानै मानै अनुभवै, करै भक्ति मन लाय ।

परसंगति आस्रव सधै, कर्मबन्ध अधिकाय ॥ २५ ॥

कर्मबंधतैं भ्रम बढै, भ्रमतै लखे न वाट ।

अंधरूप चेतन रहै, विना सुमति उद्घाट ॥ २६ ॥

सहजमोह जब उपशमे, रुचै सुगुरु उपदेश ।

तब विभाव भवथिति घटै, जगै ज्ञान गुण लेश ॥ २७ ॥

ज्ञानलेश सो है सुमति, लखै मुक्तिकी लीक ।

निरखै अन्तरदृष्टिसों, देव धर्म गुरु ठीक ॥ २८ ॥

क्यों सुपरीक्षित जौहरी, काच डाल मणि लेय ।

त्यों सुबुद्धि मारग गहै, देव धर्म गुरु सेय ॥ २९ ॥

दशन चारित ज्ञान गुण, देव धर्म गुरु शुद्ध ।

परखै आतम संपदा, तजै सनेह विरुद्ध ॥ ३० ॥

अरचै दर्शन देवता, चरचै चारित धम ।

दिद परचै गुरुज्ञानसों, यहै सुमतिको कर्म ॥ ३१ ॥

सुमतिकर्मतै शिव सधै, और उपाय न कोय ।

शिवस्वरूप परकाशसों, आवागमन न होय ॥ ३२ ॥

सुमतिकर्म सम्यक्तसों, देव धर्म गुरु द्वार ।

कहत 'बनारसि' तत्त्व यह, लहि पावै भवपार ॥ ३३ ॥

व्रति श्रीयध्यातमव्रत्तीसो

## अथ श्री ज्ञानपञ्चीसी लिख्यते

सुरनर तियेग योनिमे, नरक निगोढ भवंत ।

महा मोहकी नींदसों, सोये काल अनंत ॥ १ ॥

जैसें डारके जोरसों, भोजनकी रुचि जाइ ।

तैसें कुकरमके उदय, धर्मवचन न सुहाइ ॥ २ ॥

लगै भूख डारके गये, रुचिसों लेय अहार ।

अशुभ गये शुभके जगे, जानै धर्मविचार ॥ ३ ॥

जैसें पवन भ्रकोरतें, जलमें बठे तरंग ।

त्यो मनसा चचल भई, परिगहके परसंग ॥ ४ ॥

जहा पवन नहिं सचरै, तहां न जल कल्लोल ।

त्यो सब परिगृह त्यागलौ, मनसा होय अडोल ॥ ५ ॥

ज्यो काहू विषधर डसै रुचिसों नीम चवाच ।

त्यो तुझ ममतासो मटे मगन विषयसुख पाय ॥ ६ ॥

नीम रसन परसै नहीं, निर्विष तन जद होय ।

मोह घटे ममता मिटै, विषय न बाँछै कोय ॥ ७ ॥

ज्यो सद्धिद्र नौका चढ़े, बूडइ अंध अदेख ।

त्यो तुम भवजलमें परे, बित विवेक धर भेख ॥ ८ ॥

जहा अखंडित गुण लगे, खेवट शुद्धविचार ।

आतम रुचि नौका चढ़े, पावहु भव जल पार ॥ ९ ॥

ज्यो अंकुश मानै नहीं, महामत्त गजराज ।

त्यो मन तृष्णामें फिरै, गणै न काज अकाज ॥ १० ॥

ज्यों नर दाव उपावकै, गहि आनै गज साधि ।

त्यों या मनवश करनको, निर्मल ध्यान समाधि ॥ ११ ॥

तिमिररोगसों नैन ज्यों, लखै औरकी और ।

त्यों तुम संशयमें परे, मिथ्या मतिकी दौर ॥ १२ ॥

ज्यों औषध अंजन किये, तिमिररोग मिट जाय ।

त्यों सतगुरुउपदेशतैं, संशय वेग विलाय ॥ १३ ॥

जैसैं सब जादव जरे, द्वारावतिकी आग ।

त्यों मायामें तुम परे, कहां जाहुगे भाग ॥ १४ ॥

दीपायनसों ते वचे, जे तपसी निर्ग्रन्थ ।

तज माया समता गहो, यहै मुकतिको पंथ ॥ १५ ॥

ज्यों कुधातुके फेटसों, घटवढ़ कंचनकांति ।

पापपुण्य कर त्यों भये, मूढातम बहु भांति ॥ १६ ॥

कंचन निज गुण नहिं तजै, वानहीनके होत ।

घटघट अंतर आतमा, सहजस्वभाव उदोत ॥ १७ ॥

पन्ना पीट पकाइये, शुद्ध कनक ज्य होय ।

त्यों प्रगटै परमातमा, पुण्यपापमलखोय ॥ १८ ॥

पर्व राहुके ग्रहणसों, सूर सोम छविछीन ।

संगति पाय कुसाधुकी, सज्जन होहिं मलीन ॥ १९ ॥

निवादि क चन्दन करै, मलयाचलकी बाल ।

दुर्जनतैं सज्जन भये, रहत साधुके पास ॥ २० ॥

जैसैं ताल सदा भरै, जल आवै चहुँ ओर ।

तैसैं आस्रबद्वारसों, कर्मबंधको जोर ॥ २१ ॥



ज्यों जल आवत मूंदिये, सूखै सरवर पानि ।

तैसें संवरके किये, कर्म निज्जरा जानि ॥ २२ ॥

ज्यों बूटी संजोगतें, पारा मूर्छित होय ।

त्यों पुद्गलसो तुम मिले, आतमशक्ति समोय ॥ २३ ॥

मेल खटाई मांजिये, पारा परगट रूप ।

शुक्लध्यान अभ्यासतें, दर्शनज्ञान अनूप ॥ २४ ॥

कहि उपदेश बनारसी, चेतन अब कछु चेतु ।

आप बुझावत आपको, उदय करनके हेतु ॥ २५ ॥

इति-श्रीज्ञानपच्चीसी

## अथ शिवपच्चीसी लिख्यते

दोहा ।

ब्रह्मविलास विकाशधर, चिदानन्द गुणठान ।

बन्दों सिद्धसमाधिमय, शिवस्वरूप भगवान ॥ १ ॥

मोह महातम नाशिनी, ज्ञान उदधिकी सीव ।

बन्दों जगतविकाशनी, शिवमहिमा शिवनीव ॥ २ ॥

चौपाई ।

शिवस्वरूप भगवान अवाची । शिवमहिमाअनुभवमति सांची ॥

शिवमहिमा जाके घट भासी । सो शिवरूप हुवा अविनासी ॥३॥

जीव और शिव और न होई । सोई जीववस्तु शिव सोई ॥

जीव नाम कहिये न्यवहारी । शिवस्वरूप निहचै गुणधारी ॥ ४ ॥

नांव जथामति कल्पना, कहुं प्रगट कहुं गूढ ।

गुणी विचारै वस्तु-गुण, नाँव विचारै मूढ ॥ २५ ॥

मूढ़ मरुम जानै नही, करै न शिवसों प्रीति ।

पंडित लखै 'बनारसी, शिवमाहिमा शिवरीति ॥२६॥

इति शिवपच्चीसी

### अथ भवसिन्धुचतुर्दशी लिख्यते

जैरौ काहू पुरुषको, पार पहुंचवे काज ।

मारगमाहि समुद्र तहां, कारणरूप जहाज ॥ १ ॥

तैसें सम्यकवंतको, और न कछु इलाज ।

भवसमुद्रके तरणको, मन जहाजसों काज ॥ २ ॥

मनजहाज घटमें प्रगट, भवसमुद्र घटमाहि ।

मूरख मर्म न जानहीं, वाहिर खोजन जाहिं ॥ ३ ॥

मूरखहूके घटविपै, जलजहाज अरु पौन ।

दृगमुद्रित मालीम तहँ, लखै सँभारै कौन ? ॥ ४ ॥

कर्मसमुद्र विभाव जल, विषयकपाय तरंग ।

वडवागनि तृष्णा प्रबल, ममता धुनि सरवंग ॥५॥

भरम भँवर तामे फिरै, मनजहाज चहुं और ।

गिरै विरै वूडै तिरै, उदय पावनके जोर ॥६॥

जब चेतन मालिम जगै, लखै विपाक नजूम ।  
 डारै समता शृंखला, थकै भँवर की घूम ॥५॥  
 मालिम सहज समुद्रको जानै सब विरतंत ।  
 शुभोपयोग तहँ रत्न सम, अशुभ भाव जलजंत ॥६॥  
 जन्तु देख नहिं भय करै, रत्न देख उच्छ्राह ।  
 करै गमन शिवदीपको, यह मालिमकी चाह ॥६॥  
 दिशि परखै गुणजंत्रसों, फेरै शकति सुखान ।  
 धरै साथ शिवदीपमुख, वदवान शुभध्यान ॥ १० ॥  
 चहै शुद्ध उद्धत पवन, गहै क्षिपक दिशिनीक ।  
 लहै खबर शिवदीपकी रहै दृष्टिगति ठीक ॥ ११ ॥  
 मनजहाज इहिविधि चलै, गेहै सिंधुजलवाट ।  
 आवै निज संपतिनिकट, पावै केवल घाट ॥ १२ ॥  
 मालिम उतर जहाजसों, करै दीप को दौर ।  
 तहा न जल न जहाज गति, नहिं करनी कछु और ॥१३॥  
 मालिमकी कालिममिटी, मालिम दीप न दोय ।  
 यह भवसिन्धुचतुर्दशी, मुनिचतुर्दशी होय ॥ १४ ॥  
 इति सिन्धुचतुर्दशी

### अथ अध्यातम फाग लिख्यते

अध्यातम बिन क्यों पाइये हो, परमपुरुषको रूप ।  
 अघट अंग घट मिल रह्यो हो, महिमा अगम अनूप  
 अध्यातमचिन क्यों पाइये हो ।

करै जीव जव शिवकी पूजा । नामभेदतै होय न दूजा ॥  
 विधि विधानसों पूजा ठानै । तव शिव, आप आपको जानै ॥५॥  
 तन मंडप मनसा जह 'वेदी' । शुभलेश्या गह सहज 'सफेदी' ॥  
 आतमरुचि 'कुंडली' वखानी । तहां 'जलहरी' गुरुकी वानी ॥६॥  
 भावलिंग सो 'मूरति' थापी । जो उपाधि सो सदा अन्यापी ॥  
 निगुणरूप निरंजन देवा । सगुणस्वरूप करै विधिसेवा ॥ ७ ॥  
 समरस 'जल' अभिपेक करावै । उपशम 'रसचन्दन' घसि लावै ॥  
 सहजानन्द 'पुष्प' उपजावै । गुणगर्भित 'जयमाल' चढावै ॥८॥  
 ज्ञानदीपकी 'शिखा' संवारै । स्याद्वाद घंटा मुनकारै ॥

अगम अध्यातम चौर दुलावै । चायक 'धूप' स्वरूप जगावै ॥९॥  
 निहचै दान 'अघेविधि' होवै । सहजशील गुण 'अक्षत' ढोवै ॥  
 तप नेवज' काढै रस पागै । विमलभाव फल राखड आगै ॥१०॥

जो ऐसो पूजा करै, ध्यानमगन शिवलीन ।

शिवस्वरूप जगमे रहै, सो साधक परवीन ॥ ११ ॥

सो परवीन मुनीश्वर सोई शिवमुद्रा मडित जो होई ॥  
 सुरसरिता करुणारसवाणी । सुमति गौरि अर्द्धङ्ग वखानी १२ ॥  
 त्रिगुणभेद जह नयन विशेखा । विमलभावसमकित शशिलेखा ॥  
 सुगुरु शीख सिंगो उर बाधै । नयविचहार बाधन्वर काधे ॥ १३ ॥  
 कवहुं तन कैलाश कलोलै । कवहुं विवेकवैल चढ डोलै ॥  
 रुंडमाल परिणाम त्रिभंगी । मनसा चक्र फिरै सरवंगी ॥ १४ ॥

शक्ति विभूति अंगछवि छाजै । तीन गुपति तिरशूल विराजै ।  
कंठ विभाव त्रिषम विष सोहै । महामोह विषहर नहिं पोहै ॥१५॥

संजम जटा सहज सुख भोगी । निहचैरूप दिगम्बर जोगी ॥  
ब्रह्म समाधिध्यान गृह साजै । तहां अनाहत डमरू बाजै ॥ १६ ॥

पंच भेद शुभज्ञान गुण, पंच वदन परधान ।

ग्यारह प्रतिमा साधतै, ग्यारह रुद्र समान ॥ १७ ॥

मंगल करन मोखपद ज्ञाता । यातैं शंकर नाम विख्याता ॥  
जब मिथ्यामत तिमर विनाशै । अंधकहरण नाम परकाशै ॥१८॥

ईश महेश अखयनिधिस्वामी । सर्व नाम जग अंतरजामी ॥  
त्रिभुवन त्याग रमै शिवठामा । कहिये त्रिपुरहरण तब नामा ॥१९॥

अष्टकर्मसों भिडै अकेला । महारुद्र कहिये तिहिं वेला ॥

मनकामना रहै नहिं कोई । कामदहन कहिये तब सोई ॥ २० ॥

भववासी भवनाम धरावै । महादेव यह उपमा पावै ॥

आदि अन्त कोई नहीं जानै शंभुनाम सब जगत बखानै ॥ २१ ॥

मोहहरण हर नाम कहीजे । शिवस्वरूप शिवसाधन कीजे ॥

तज करनी निश्चयमें आवै । तब जगभंजन विरद कहावै ॥ २२ ॥

विश्वनाथ जगपति जग जानै । मृत्युंजय तम मृत्यु न मानै ॥

शुक्त ध्यान गुण जब आरोहै । नाम कपूरगौर तब सोहै ॥ २३ ॥

इहिविधि जे गुण आदरै रहै राचि जिहँ ठाँव ।

जिहँ जिहँ मारग अनुसरै, ते सब शिवके नाँव ॥२४॥

नांव जथामति कल्पना, कहूं प्रगट कहूं गूढ ।

गुणी विचारै वस्तु गुण, नाँव विचारै मूढ ॥ २५ ॥

मूढ मस्म जानै नही, करै न शिवसों प्रीति ।

पंडित लखै 'बनारसी, शिवमहिमा शिवरीति ॥२६॥

इति शिवपच्चीसी

### अथ भवसिन्धुचतुर्दशी लिख्यते

जैरौ काहू पुरुषको, पोर पहुंचवे काज ।

मारगमाहि समुद्र तहां, कारणरूप जहाज ॥ १ ॥

तैसें सम्यकवंतको, और न कछु इलाज ।

भवसमुद्रके तरणको, मन जहाजसों काज ॥ २ ॥

मनजहाज घटमे प्रगट, भवसमुद्र घटमाहिं ।

मूरख मर्म न जानहीं, बाहिर खोजन जाहिं ॥ ३ ॥

मूरखहूके घटविषै, जलजहाज अरु पौन ।

दृगमुद्रित मालीम तहें, लखै सँभारै कौन ? ॥ ४ ॥

कर्मसमुद्र विभाव जल, विषयकषाय तरंग ।

बडवागनि वृष्णा प्रबल, ममता धुनि सरवंग ॥५॥

भरम भँवर तामें फिरै, मनजहाज चहुँ और ।

गिरै विरै वूडै तिरै, उदय पावनके जोर ॥६॥

जब चेतन मालिम जगै, लखै विपाक नजूम ।

डारै समता शृंखला, थकै भँवर की घूम ॥५॥

{ मालिम सहज समुद्रको जानै सब विरतत ।

शुभोपयोग तहँ रत्न सम, अशुभ भाव जलजंत ॥६॥

{ जन्तु देख नहिं भय करै, रत्न देख उच्छ्राह ।

करै गमन शिवदीपको, यह मालिमकी चाह ॥६॥

दिशि परखै गुणजंत्रसों, फेरै शक्ति सुखान ।

धरै साथ शिवदीपमुख, वदवान शुभध्यान ॥ १० ॥

चहै शुद्ध उद्धत पवन, गहै क्षिपक दिशिनीक ।

तहै खबर शिवदीपकी रहै दृष्टिगति ठीक ॥ ११ ॥

मनजहाज इहिविधि चलै, गेहै सिंधुजलवाट ।

आवै निज संपत्तिनिकट, पावै केवल घाट ॥ १२ ॥

मालिम उतर जहाजसों, करै दीप को दौर ।

तहां न जल न जहाज गति, नहिं करनी कछु और ॥१३॥

मालिमकी कालिममिटी, मालिम दीप न दोय ।

यह भवसिन्धुचतुर्दशी, मुनिचतुर्दशी होय ॥ १४ ॥

इति सिन्धुचतुर्दशी

## अथ अध्यातम फाग लिख्यते

अध्यातम विन क्यो पाइये हो, परमपुरुषको रूप ।

अघट अग घट मिल रह्यो हो, महिमा अगम अनूप ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १ ॥

विषम विरप्र पुरो भयो हो, आयो सहज वसंत ।

प्रगटी सुरुचि सुगविता हो, मन मधुकर मयमत ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ २ ॥

सुमति कोकिला गह गही हो वही अपूरव वाउ ।

भरम कुहर वादरफटे हो, बट जाडो जड़ तांड ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ३ ॥

मायारजनी लघु भई हो, समरस दिवशशिजीत ।

मोहपककी थिति घटी हो, सशय शिशिर व्यतीत ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ४ ॥

शुभ दल पल्लव लहलहे हो, होहि अशुभ पतभार ।

मलिन विषय रति मालती हो, विरति वेलिविस्तार ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ५ ॥

शशिविवेक निर्मल भयो हो, थिरता अमिय भुकोर ।

फैली शक्ति सुचन्द्रिका हो, प्रमुदित नैन चकोर ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ६ ॥

सुरति अग्निज्वाला जगी हो, समकित भानु अमन्द ।

हृदयकमल विकसित भयो हो, प्रगट सुजश मकरन्द ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ७ ॥

द्विड कषाय हिमगिर गले हो, नदी निर्ज्जरा जोर ।

धार धारणा वहन्नली हो, शिवसागर मुख ओर ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ८ ॥

वितथवात प्रभुता मिटी हो, जग्यो जथारथ काज ।

जंगलभूमि सुहावनी हो, नृप वसन्तके राज ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ९ ॥



भवपरणति चाचरि भई हो, अष्टकर्म बनजाल ॥

अलख अमूरति आतमा हो, खेलै धर्म धमाल ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १० ॥

नयपंकति चाचरि मिलि हो, ज्ञानध्यान डफताल ।

पिचकारी पद साधना हो, संवर भाव गुलाल ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ ११ ॥

राग विराम अलापिये हो, भावभगति शुभ तान ।

रीभ परम रसलीनता हो, दीजे दश विधिदान ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १२ ॥

ड्या मिठाई रसभरी हो, तप सेवा परधान ।

शील सलिल अति सीयलो हो, संजम नगर पान ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १३ ॥

गुपति अंग परगासिये हो, यह निलज्जता रीति ।

अकथ कथा मुखभ खिये हो, यह गारी निरनीति ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १४ ॥

उद्धत गुण रसिया मिले हो, अमल विमल रसप्रेम ।

सुरत तरंगमह छकि रहे हो, मनसा वाचा नेम ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १५ ॥

परम ज्योति परगट भई हो, लगी होलिका आग ।

आठ काठ सब जरि चुमे हो, गई तताई भाग ॥

अध्यातमविन क्यो पाइये हो ॥ १६ ॥

प्रकृति पचासी लगि रही हो, भस्म लेख है सोय ।

न्हाय धोय उज्ज्वल भये हो, फिर तहँ खेल न कोय ॥

अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥१७॥

सहज शक्ति गुण खेलिये हो, चेत "बनारसिदास ।"

सगे सखा ऐसे कहै हो, मिटै मोहदधि फास ॥

अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ १८ ॥

इति अध्यातमधमार ।

## अथ सोलह तिथि लिख्यते.

चौपाई

परिवा प्रथम कला घट जागी । परम प्रतीतिरीति रसपागी ॥

प्रतिपद परम प्रीति उपजावै । वहै प्रतिपदा नाम कहावै ॥ १ ॥

दूज दुहूँधी दृष्टि पसारै । स्वपरविवेकधारणा धारै ॥

द्वितीया भावित दीसै दोई । द्वय नय मानत द्वितीया होई ॥ २ ॥

तीज त्रिकाल त्रिगुण परकासै । त्रिविधिरूप त्रिभुवन आभासै ॥

तीनों शल्य उपाधि उछेदै । त्रिधा कर्मकी परिणति भेदै ॥ ३ ॥

चौथ चतुर्गतिको निरवारै । कर चक्रचूर चौकरी चारै ॥

चारों वेद समुक्ति घर आवै । तब सुअनंत चतुष्टय पावै ॥ ४ ॥

पांचै पंच सुचारित पालै । पंचज्ञानकी सुरति संभालै ॥

पाचों इन्द्रिय करै निरासा । तब पावै पंचमगति बासा ॥ ५ ॥

छठ छहकाय स्वांग धर सोवै । छह रस मगन छ आकृति होवै ॥

जब छहदरशनमे न अरुभै । तब छ दर्वसों न्यारा सूभै ॥ ६ ॥

सातें सातों प्रकृति खिपावै । सप्तभग नयसों मन लावै ॥

त्यागै सात व्यसनविधि जेती । निभय रहै सात भयसेती ॥ ७ ॥

आठै आठ महामद भंजै । अष्टसिद्धिरतिसों नहीं रंजै ॥  
 अष्टकर्ममलमूल वहावे । अष्टगुणातम सिद्ध कहावै ॥ ८ ॥  
 नौमी नवरस मे रस वेवै । तौ समंकित धर नवपद सेवै ॥  
 करै भक्तिविधि नव परकारा । निरखै नवतत्त्वनसों न्यारा ॥ ९ ॥  
 दशमी दशदिशिसों मन मारै । दश प्राणनसों नाता तोरै ॥  
 दशाविधि दान अभ्यंतर साधै । दशलच्छरण मुनिधर्म अराधै ॥ १० ॥  
 ग्यारस ग्यारह प्रकृति विनाशै । ग्यारह प्रतिमापद परकाशै ॥  
 ग्यारह रुद्र कुलिंग वखानै । ग्यारह विथा जोग जिन मानै ॥ ११ ॥  
 बारस बारह विरति बढावै । बारह विधि तपसों तन तावै ॥  
 बारहभेद भावना भावै । बारह अंग जिनागम गावै ॥ १२ ॥  
 तेरस तेरह क्रिया संभालै । तेरह विघन काठिया टालै ॥  
 तेरहविधि सजम अवधारै । तेरह थानक जीव विचारै ॥ १३ ॥  
 चौदश चौदह विद्या मानै । चौदह गुणथानक पहिचानै ॥  
 चौदह मारगना मन आनै । चौदहरज्जु लोक परवानै ॥ १४ ॥  
 पन्द्रस पन्द्रह तिथि गनिलीजे । पन्द्रह पात्र परखि धन दीजे ॥  
 पन्द्रह जोगरहित जो धरणी । सो घट शून्य अमावस वरणी ॥ १५ ॥  
 पूरों पूरण ब्रह्मविलासी । पूरण गुण पूरण परगासी ॥  
 पूरण प्रभुता पूरणमासी । कहै साधु तुलसी वनवासी ॥ १६ ॥

इति षोडशतिथिका

अथ तेरह काठिया लिख्यते.

जे वटपारे वाटमे, करहि उपद्रव जोर । ✓

तिन्हें देश गुजरात मे, कहहि काठियाचोर ॥ १ ॥

त्यों यह तेरह काठिया, करहिं धर्मकी हानि ।

तातै कछु इतकी कथा, कहहुं विशेष-वखानि ॥ २ ॥

जूआ<sup>१</sup> आलस<sup>२</sup> शोक<sup>३</sup> भय<sup>४</sup>, कुकथा<sup>५</sup> कौतुक<sup>६</sup> कोह<sup>७</sup> ।

कृपणबुद्धि<sup>८</sup> अज्ञानता<sup>९</sup>, भ्रम<sup>१०</sup> निद्रा<sup>११</sup> मद<sup>१२</sup> मोह<sup>१३</sup> ॥ ३ ॥

प्रथम काठिया 'जूआ' जान । जामे पंच वस्तुकी हान ।

प्रभुता हटै घटै शुभ कर्म । मिटै सुजश विनशै वनवर्म ॥ ४ ॥

द्वितीय काठिया 'आलसभाव' । जासु उदय नाशै विवसाव ॥

बाहिर शिथिल होहिं सब अंग । अतर धर्मवासना भग ॥ ५ ॥

ठग तीसरो 'शोक' सताप । जासु उदय जिय करै विलाप ॥

सूतक पातक जिहि पर होय । धर्मक्रिया तहँ रहै न कोय ॥ ६ ॥

'भय' चतुर्थ काठिया वखान । जाके उदय होय बलहान ॥

उर कंपै नहिं फुरै उपाय । तब सुधर्म उद्यम मिट जाय ॥ ७ ॥

ठग पंचम "कुकथा" ब्रकवाद । मिथ्यापाठ तथा ध्वनिनाद ॥

जबलों जीव मगन इसमार्हि । तबलों धर्म वानना नार्हि ॥ ८ ॥

"कौतूहल" छट्टम काठिया । भ्रमविलाससों हरषै हिया ॥

मृषा वस्तु निरखै धर ध्यान । विनशि जाय सत्यारथ ज्ञान ॥ ९ ॥

'कोप' काठिया है सातमा । अभि समान जहां आतमा ॥

आप न दाह औरको दहै । तहा धर्मरुचि रंचन रहै ॥ १० ॥

"कृपणबुद्धि" अष्टम बटपार । जामें प्रगट लोभ अविकार ॥

लोभ मार्हि ममता परकाश । ममता करै धर्मको नाश ॥ ११ ॥

नवमा ठग "अज्ञान" अगाध । जासु उदय उपजै अपराध ॥

जो अपराध पाप है सोय । जहा पाप तहा धर्म न होय ॥ १२ ॥

दशम काठिया भ्रम' विच्छेप । भ्रमसों अशुभ करमका लेप ॥  
 अशुभ कर्म दुरमति की खानि । दुरमात करै धर्मकी हानि ॥१३॥  
 एकादशम काठिया 'नीद' । जासु उदय जिय वस्तु न वीद ॥  
 मन वच काय होय जड़रूप । बूदैं धन कर्मघनकूप ॥ १४ ॥  
 ठग द्वादशम "अष्टमद" भार । जामे अकररोग अधिकार ॥  
 अकररोग अरु विनयविरोध । जहँ अविनय तहँ धर्मनिरोध ॥१५॥  
 तेरम चरम काठिया "भोह" । जो विवेकसों करै विछोह ॥  
 अविवेकी मानुष तिरजंच । धर्मधारणा धरै न रच ॥ १६ ॥  
 येही तेरह करम-ठग । लेहि रतन-त्रय छीन ॥  
 यातें संसारी दशा । कहिये तेरह तीन ॥ १७ ॥

इति त्रयोदश काठिया ।

## अथ अध्यात्म गीत लिख्यते,

राग गौरी

मेरा मनका प्यारा जो मिलै । मेरा सहज सनेही जो मिलै ॥टेक ॥  
 अवधि-अजोध्या-आत्म राम । सीता सुमति करै परणाम ॥  
 मेरा मनका प्यारा जो मिलै, मेरा सहज० ॥१॥  
 उपज्यो कंत मिलनको चाव । समता सखीसों कहै इसभाव ॥  
 मेरा मनका प्यारा जो मिलै, मेरा० ॥ २ ॥  
 मै विरहिन पियके आधीन । यों तलफों ज्यों जल बिन मीन ।  
 मेरा० .... " ॥ ३ ॥

बाहिर देखूं तो पिय दूर । बट देखे घटमे भर पूर ॥

मेरा मनका प्यारा जो मिलै, मेरा० ॥ ४ ॥

घटमहि गुप्त रहै निरधार । वचनअगोचर मनके पार ॥

मेरा०      ..      ॥ ५ ॥

अलख अमूरति वर्णन कोय । कबधों पियको दर्शन होय ॥

मेरा०      .      ॥ ६ ॥

सुगम सुपंथ निकट है ठौर । अंतर आड विरहकी दौर ॥

मेरा०      .      ....      ॥ ७ ॥

जउ देखों पियकी उनहार । तन मन सर्वस डारों वार ॥

मेरा०      ...      ....      ॥ ८ ॥

होहुँ मगन मैं दरशन पाय । ज्यों दरियामें बूंद समाय ॥

मेरा०      ..      .      ॥ ९ ॥

पियको मिलों अपनपो खोय । ओला गल पाणी ज्यों हौय ॥

मेरा०      ....      ..      ॥१०॥

मैं जग हूँढ फिरी सब ठोर । पियके पटतर रूप न ओर ॥

मेरा०      ....      ....      ॥ ११ ॥

पिय जगनायक पिय जगसार । पियकी माहिमा अगम अपार ॥

मेरा०      ....      ..      ॥१२॥

प्रिय सुमिरत सब दुख मिट जाहि । भोरनिरख ज्यों चोर पलाहि ॥

मेरा०      ....      ....      ॥१३॥

भयभजन पियको गुनवाद । गजगंजन ज्यों केहरिनाद ॥

मेरा०      ..      ..      ॥१४॥

भागइ भरम करत पियध्यान । फटइ तिमिर ज्यो उगत भान ॥

मेरा० . ॥१५॥

दोष दुरइ देखत पिय और । नाग डरइ ज्यो बोलत मोर ॥

मेरा० .... ॥१६॥

बसों सदा मैं पियके गँड । पियतज और कहां मैं जाँड ॥

मेरा० .. ॥१७॥

जो पिय जाति जाति मम सोइ । जातहिं जात मिलै सब कोइ ॥

मेरा० " ... ॥१८॥

पिय मोरे घट, मै-पियमाहिं । जलतरंग ज्यो द्विविधा नाहिं ॥

मेरा० .... ॥१९॥

पिय मो करता मैं करतूति । पिय ज्ञानी मैं ज्ञानविभूति ॥

मेरा० . ॥२०॥

पिय सुखसागर मैं सुखसीव । पिय शिवमन्दिर मैं शिवनीव ॥

मेरा० .. ॥२१॥

पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम । पिय माधव मो कमला नाम ॥

मेरा० . ... ॥२२॥

पिय शकर मैं देवि भवानि । पिय जिनवर मैं केवलवानि ॥

मेरा० ... ॥२३॥

पिय भोगी मैं भुक्तिविशेष । पिय जोगी मैं मुद्रा भेष ॥

मेरा० .... ॥२४॥

पिय मो रसिया मैं रसरीति । पिय व्योहारिया मैं परतीति ॥

मेरा० .... ॥२५॥

जहा पिय साधक तहाँ मैं सिद्ध । जहां पिय ठाकुर तहाँ मैं रिद्ध ॥	मेरा०	....	...	॥२६॥
जहाँ पिय राजा तहां मैं नीति । जहाँ पिय जोद्धा तहाँ मैं जीति ॥	मेरा०	...	..	॥२७॥
पिय गुणग्राहक मैं गुणपांति । पिय बहुनायक मैं बहुभांति ॥	मेरा०	..	..	॥२८॥
जहाँ पिय तहाँ मैं पियके संग । ज्यों शशि हरिमें ज्योति अभग ॥	मेरा०	....	..	॥२९॥
पिय सुमिरन पियको गुणगान । यह परमारथपथ निन्दान ॥	मेरा०	.	.	३०॥
कहइ व्यवहार 'बनारसी' नाव । चेतन सुमति सटी इकठांव ॥	मेरा०	....	.	॥३१॥

॥ इति चेतनसुमात गीत ॥

## अथ पंचपदविधान लिख्यते

दोहा

नमो व्यानघर पंचपद, पंचसु ज्ञान अराधि ।  
पंचसुचरण चितारचित, पंचकरनरिपुसाधि ॥ १ ॥

चौपाई (१५)

बन्दों श्री अरहंत अधीश । बन्दों स्वयंसिद्ध जमदीश ॥  
बन्दों आचारज उभाभय । बन्दों साधुपुरुषके पाय ॥ २ ॥  
एई पंच इष्ट आधार । इनमें देव एक गुरुचार ॥  
सिद्ध देव परसिद्ध उदार । गुरु अरहंतादिक अनगार ॥ ३ ॥



सिद्ध सोई जस करै न कोइ । भयो कदाच न कबहूँ होइ ॥  
 अखय अखंडित अविचलधाम । निर्मल निराकार निरनाम ॥४ ॥  
 अब गुरु कहों चार परकार । परम निधान धरमधनधार ॥  
 मरमवंत शुभ कर्म सुजान । त्रिभुवनमाहिं पुरुष परवान ॥ ५ ॥  
 प्रथम परमगुरु श्री अरहंत । द्वितिय परमगुरु सूरि महत ॥  
 तृतीय परमगुरु श्रीखभाय । चौथे परम सुगुरु मुनिराय ॥६॥  
 परम ज्ञान दर्शनभङ्गार । वाणी खिरै परम सुखकार ॥  
 परम उदारिक तनधारत । परम सुगुरु कहिये अरहत ॥७॥  
 धर्मध्यान धारै उतकिष्ट । भाषे धर्म देशना मिष्ट ॥  
 धर्मनिधान धर्मसों प्रेम । धर्म सुगुरु आचारज एम ॥ ८ ॥  
 चौदह पूरव ग्यारह अग । पढैं मरम जानै सरवग ॥  
 परको मर्म कहैं समुभाय । यातैं परम सुगुरु खभाय ॥ ९ ॥  
 पट आचश्य कमे नित करें । त्रिविधि कर्मममता परिहरें ॥  
 विपुल करम साधें समकित्ती । परम सुगुरु सामानिक जती ॥१०॥  
 पंच सुपद कीजइ चितौन । दुरित हरन दुख दारिद दौन ॥  
 यह जप मुख्य और जप गौन । इम गुण महिमा वरणौ कौन ॥

### दोहा

महामंत्र ये पंचपद, आराधै जो कोय ।

कहत 'वनारसिदास' पद, उलट सदाशिव होय ॥ १२ ॥

॥ इति श्री पंचपदविधान ॥

## अथ सुमतिके देव्यष्टोत्तरशतनाम

नमौ सिद्धिसाधक पुरुष, नमौ आतमाराम ।  
वरणो देवी सुमति के, अष्टोत्तरशत नाम ॥ १ ॥

॥ रोडक छन्द ॥

सुमति सवुद्धि सुधी सुबोधनिधिसुता पुनीता ।

शशिवदनी सेमुषी शिवमति धिषणा सीता ॥

सिद्धा संजमवती स्यादत्रादिनी विनीता ।

निरदोषा नीरजा निर्मला जगत श्रतीता ॥

शीलवती शोभावती शुचिधर्मा रुचिरीति ।

शिवा सुभद्रा शंकरो, मेधा दृढपरतीति ॥ २ ॥

ब्रह्माणी ब्रह्मजा ब्रह्मरति, ब्रह्मअधीता ।

पद्मा पद्मावती वीतरागा गुणमीता ॥

शिवदायिनि शीतला राधिका, रमा अजीता ।

समता सिद्धेश्वरी सत्यभामा निरनीता ॥

कल्याणी कमला कुशलि, भवभंजनी भवानि ।

लीलावती मनोरमा, आनन्दी सुखखानि ॥ ३ ॥

परमा परमेश्वरी परम पडिता अनन्ता ।

असहाया आमोदवती अभया अग्रहंता ॥

ज्ञानवती गुणवती गौमती गौरी गंगा ।

लक्ष्मी विद्याधरी आद सुंदरी असंगा ॥

चन्द्राभा चिन्ताहराणि, चिद्विद्या चिद्वेलि ।

चेतनवती निराकुला, शिवमुद्रा शिवकेलि ॥ ४ ॥

चिदवदनी चिद्रूप कला वसुमती विचित्रा ।  
 अर्धगी अक्षरा जगतजननी जगमित्रा ।  
 अविकारा चेतना चमत्कारिणी चिदका ।  
 दुर्गा दशेनवती दुरितहरणी निकलका ॥  
 धर्मधरा धीरज धरनि, मोहनाशिनी वाम ।  
 जगतःविकाशिनि भगवती, भरसंभेदनी नाम ॥ ५ ॥

घत्तानन्द.

निपुणतवनीता वितथवितीता, सुजसा भवसागरतरणी ।  
 निगमा निरबानी, दयानिधानी, यह सुबुद्धिदेवी वरणी ॥ ६ ॥  
 इति श्रीसुमतिदेविशतक.

## अथ शारदाष्टकं लिख्यते.

वस्तु छन्द.

नमो केवल नमो केवल रूप भगवान ।  
 मुख ओंकारधुनि सुनि अर्थ गणधर विचारै ॥  
 रवि आगम उपदिशै भविक जीव सशय निवारै ॥  
 सो सत्यारथ शारदा तामु, भक्ति उर आन ।  
 छन्द भुजगप्रयातमे, अष्टक कहौं बखान ॥ १ ॥

भुजगप्रयात.

जिनादेशजाता जिनेन्द्रा विख्याता ।  
 विशुद्धप्रबुद्धा नमों लोकमाता ॥  
 दुराचार दुर्नैहरा शंकरानी ।  
 नमो देविवागेश्वरी जैनवानी ॥ २ ॥

सुधाधर्मससाधनी धर्मशाला ।

सुधातापनिर्नाशनी मेघमाला ॥

महामोह विध्वसनी मोक्षदानी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ३ ॥

अखैवृत्तशाखा व्यतीताभिलाषा ।

कथा संस्कृता प्राकृता देशभाषा ॥

चिदानन्द-भूपाल को राजधानी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ४ ॥

साधान रूपा अनूपा अलुद्रा ।

अनेकान्तधा स्यादवादाकमुद्रा ॥

त्रिधा सप्तधा द्वादशाङ्गी बखानी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ५ ॥

अक्रोपा अमाना अदभा अलोभा ।

श्रतज्ञानरूपी मतिज्ञानशोभा ॥

महापावनी भावना भव्यमानी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ६ ॥

अतीता अजीता सदा निर्विकारा ।

विषैवाटिकाखडिनी खङ्गधारा ॥

पुरापापविक्षेपकर्तृ कृपाणी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ७ ॥

अगाधा अबाधा निरंध्रा निराशा ।

अनन्ता अनादीश्वरी कर्मनाशा ॥

निशका निरंका चिदंका भवानी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ८ ॥

अशोका मुदेका विवेका विधानी ।

जगज्जन्तुमित्रा विचित्रावसानी ॥

समस्तावल्लोका निरस्तानिदानी ।

नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ ९ ॥

वस्तुछद्.

जैनवाणी जैनवाणी सुनहि जे जीव ।

जे आगम रुचिधरें जे प्रतीति मन माहिं आनहि ।

अवधारहिं जे पुरुष समर्थ पद अर्थ जानहि ॥

जे हितहेतु "बनारसी" देहिं धर्म उपदेश ।

ते सब पावहिं परम सुख, तज संसार कलेश ॥ १० ॥

इति शारदाष्टक

**अथ नवदुर्गाविधान लिख्यते ।**

कवित्त.

प्रथमहिं समकितवंत लखि आपापर,

परको स्वरूप त्यागी आप गहलेतु है ।

बहुरि विलोक साध्यसाधक अवस्था भेद,

साधक ह्वै सिद्धिपद को सुदृष्टि देतु है ॥

अविरतगुणथान आदि छीनमोह अन्त,

नवगुणथान निरति साधकको खेतु है ॥

सजम चिह्न विना साधक गुपतरूप,  
 त्यों त्यों परगट ज्यों ज्यों संजम सुचेतु है ॥ १ ॥  
 जैसे काहू पुरुषको कारण ऊरध पंथ,  
 कारज स्वरूपी गढ़ भूमिगिरश्रृंग है ।  
 तैसे साध्यपद देव केवल पुरुष लिंग,  
 साधक सुमति देवीरूप तियलिंग है ॥  
 ज्ञानकी अवस्था दोऊ निश्चय न भेद कोऊ,  
 व्यवहार भेद देव देवी यह व्यंग है ।  
 ऐसो साध्य साधक स्वरूप सूधो मोखपंथ,  
 संतनको सत्यारथ मूढ़नको डिंग है ॥ २ ॥  
 जाको भौनभवकूप मुकुट विवेकरूप,  
 अनाचार रासभ आरूढदुति गृभी है ।  
 जाके एक हाथ परमारथ कलश दूजे,  
 हाथ त्याग शक्ति बोहारी विधि बूभी है ।  
 जाके गुणभरण विचार यहै वासी भोग,  
 औपन भगतिरसरागसों अरूभी है ॥  
 सो है देवी शीतला सुमति सूभै सतनको  
 दुरबुद्धि लोगनको रोगरूप सूभी है ॥ २ ॥  
 कूपसों निकस जबभूपर उदोत भई,  
 तब और ज्योति मुख ऊपर विराजी है ।  
 भुजा भई चौगुणी शक्ति भई सौगुणी,  
 लजाय गए औगुणी रजायद्विति छाजी है ॥

कुंभसों प्रगट्यो नूर, रासभसों भयो सूर,  
 सूप भयो छत्रसों बुहारी शख राजी है ।  
 ऐपन को रंगसो तो कंचनको अंग भयो,  
 छत्रपति नामभयो वासी रीति ताजी है ॥ ४ ॥

दोहा ।

जाके परसत परमसुख, दरसत दुख मिट जाहि ।  
 यहै सुमति देवी प्रगट, नगर कोट घटमाहि ॥ ५ ॥

कवित्त ।

यहै वंधबंधकस्वरूप सानव्रंदी भई  
 यह है अनदी चिदानंद अनुसरणी ।  
 यह ध्यान अगनि प्रगट भये ज्वालामुखी,  
 यहै चंडी मोह महिषासुर निदरणी ॥  
 यहै अष्टभुजी अष्टकर्मकी शक्ति भंजै,  
 यहै कालवचनी उलंघै कालकरणी ।  
 यहै अवला बली विराजै त्रिभुवन राणी,  
 यहै देवी सुमति अनेकभांति वरणी ॥ ६ ॥  
 यहै कामनाशिनी कमिन्ना कलि मे कहावै,  
 यहै ब्रह्मचारिणी कुमारी है अपरनी ।  
 यह है भगौत यहै दुर्गा दुर्गति जाकी,  
 यहै छत्रपती पुण्यपापतापहरनी ॥  
 यहै रामरमणी सहजरूप सीता सता,  
 यहै आदि सुदरी विवेकसिंहचरनी ।

यहै जगमाता अनुकंपारूप देखियत,  
 यहै देवी सुमति अनेकभांति वरनी ॥ ७ ॥  
 यहै सरस्वती हंसवाहिनी प्रगट रूप,  
 यहै भवभेदिनी भवानी शंभुघरनी ।  
 यहै ज्ञान लच्छनसों लच्छमी विलोकियत,  
 यहै गुणरतनभंडार भारभरनी  
 यहै गंगा त्रिविधि विचारमें त्रिपथ गौनी,  
 यह मोखसाधन को तीरथ की धरनी ।  
 यहै गोपी यहै राधा राधै भगवान भावै,  
 यहै देवी सुमति अनेक भांति वरनी ॥ ८ ॥  
 यहै परमेश्वरी परम ऋद्धि सिद्धि साधै,  
 यहै जोग माया व्यवहार ढार ढरनी ।  
 यहै पदमावती पदम ज्यों अलेप रहै,  
 यहै शुद्ध शक्ति मिथ्यात की कतरनी ॥  
 यहै जिनमहिमा बखानी जिनशासन में,  
 यहै अस्त्रडित शिवमहिमा अमरनी ।  
 यहै रसभोगनी वियोग में वियोगिनी है,  
 यहै देवी सुमति अनेकभांतिवरनी ॥ ९ ॥

॥ इति श्री नवदुर्गा विधान ॥



## अथ नामनिर्णयविधान लिख्यते,

दोहा

काहू दिन काहू समय, करुणाभाव समेत ।  
सुगुरु नामनिर्णय कहै, भविक जीव हितहेत ॥ १ ॥  
जीव द्विविधि संसार में. अथिररूप थिररूप ।  
अथिर देहधारी अलख, थिर भगवान अनूप ॥ २ ॥

कवित्त ( ३१ वर्ण )

जो है अविनाशी वस्तु ताको अविनाशी नाम,  
विनाशीक वस्तु जाको नाम विनाशीक है ।

फूल मरै वास जीवै यहै भ्रमरूपी बात,  
दोऊ मरै दोऊ जीवै यह बात ठीक है ॥

अनादि अनंत भगवंत को सुजस नाम,  
भवसिंधु तारण तरण तहकीक है ।

अवतरै मरै भी धरै जे फिर फिर देह,  
तिनको सुजस नाम अथिर अलीक है ॥ ३ ॥

दोहा

थिर न रहै नर नाम की, जथा कथा जलरेख ।  
एते पर मिथ्यामती, ममता करें विशेष ॥ ४ ॥

कवित्त

जग मे मिथ्याती जीव भ्रम करै है सदीव,  
भ्रम के प्रवाह में वहा है आगे वहेगा ।

यहै जगमाता अनुकंपारूप देखियत,

यहै देवी सुमति अनेकभांति वरनी ॥ ७ ॥

यहै सरस्वती हंसवाहिनी प्रगट रूप,

यहै भवभेदिनी भवानी शंभुघरनी ।

यहै ज्ञान लच्छनसों लच्छमी विलोकियत,

यहै गुणरतनमंडार भारभरनी

यहै गंगा त्रिविधि विचारमे त्रिपथ गौनी,

यह मोखसाधन को तीरथ की धरनी ।

यहै गोपी यहै राधा राधै भगवान भावै,

यहै देवी सुमति अनेक भांति वरनी ॥ ८ ॥

यहै परमेश्वरी परम ऋद्धि सिद्धि साधै,

यहै जोग माया व्यवहार ढार ढरनी ।

यहै पदमावती पदम ज्यों अलेप रहै,

यहै शुद्ध शक्ति मिथ्यात की कतरनी ।

यहै जिनमहिमा बखानी जिनशासन में,

यहै अखडित शिवमहिमा अमरनी ।

यहै रसभोगनी वियोग में वियोगिनी है,

यहै देवी सुमति अनेकभांतिवरनी ॥ ९ ॥

## अथ नामनिर्णयविधान लिख्यते,

दोहा

काहू दिन काहू समय, करुणाभाव समेत ।  
 सुगुरु नामनिर्णय कहै, भविक जीव हितहेत ॥ १ ॥  
 जीव द्विविधि संसार में, अथिररूप थिररूप ।  
 अथिर देहधारी अलख, थिर भगवान अनूप ॥ २ ॥

कवित्त ( ३१ वर्ण )

जो है अविनाशी वस्तु ताको अविनाशी नाम,  
 विनाशीक वस्तु जाको नाम विनाशीक है ।  
 फूल मरै बास जीवै यहै भ्रमरूपी बात,  
 दोऊ मरै दोऊ जीवै यह बात ठीक है ॥  
 अनादि अनंत भगवंत को सुजस नाम,  
 भवसिंधु तारण तरण तहकीक है ।  
 अवतरै मरै भी धरै जे फिर फिर देह,  
 तिनको सुजस नाम अथिर अलीक है ॥ ३ ॥

दोहा

थिर न रहै नर नाम की, जथा कथा जलरेख ।  
 पते पर मिथ्यामती, ममता करें विशेष ॥ ४ ॥

कवित्त

जग मे मिथ्याती जीव भ्रम करै है सदीव,  
 भ्रम के प्रवाह मे वहा है आगे वहेगा ।

नाम राखिवे को महारभ करै दंभ करै,

यों न जानै दुर्गति मे दु ख कौन सहैगा ।

बार बार कहै मोह भागवंत, धनवंत,

मेरा नाव जगत में सदाकाल रहैगा ।

याही ममता सों गहि आयो है अनंत नाम,

आगें योनियोनि में अनंत नाम गहैगा ॥ ५ ॥

दोहा

बोल उठें चित च कि नर, सुनत नामकी हाक ।

वहै शब्द सतगुरु कहै, है भ्रमकूप धमांक ॥ ६ ॥

कवित्त

जगत में एक एक जनके अनेक नाम,

एक एक नाम देखिये धनेक जनमे ।

वा जनम और या जनम और आगें और,

फिरता रहै पै याकी थिरता न तनमे ॥

कोई कल्पना कर जोई नाम धरै जाको,

सोई जीव सोई नाम मानें तिहूँ पन मे ।

ऐसो विरतत लाख संतसों सुगुरु कहै,

तेरो नाम 'भ्रम' तू विचार देख मन मे ॥ ७ ॥

दोहा

नाम अनेक समीप तुव, अग अंग सब ठौर ।

जासों तू अपने कहै, सो भ्रमरूपी और ॥ ८ ॥

कवित्त

केश शीस भाल भौंह वरुणी पलेक नैन,

गोलक कपोल गंड नासा मुखे श्रौन है ।

अधर दैसन ओठ रसना मसूढा तालु,

घटिका चिबुक कंठ कंधा डर भौन है ॥

कांख कटि भुजा कर नाभि कुच पीठ पेट,

अगुली हथेली नख जंघाथल भौन है ।

नितम्ब चरण रोम एते नाम अगन के,

तामें तू विचार नर तेरा नाम कौन है ॥ ६ ॥

दोहा

नाम रूप नहि जीवको, नहि पुद्गल को पिंड ।

नहि स्वभाव संजोग को, प्रगट भरमको मिंड ॥ १० ॥

यह सुनामनिर्णयकथा कही सुगुरु सछेप ।

जे समुझहि जे सरदहै, ते नीरस निरलेप ॥ ११ ॥

इति श्रीनामनिर्णयविधान

अथ नवरत्नकवित्त लिख्यते

धन्वन्तरि छपणक अमर, घटखर्पर वेताल ।

वररुचि शंकु वराहमिह (र) कालिदास नव लाल ॥१॥

विमलचित्त जाचक शिथिल, मूढ तपस्वी प्रात ।

कृपणबुद्धि तियनरपती, ज्ञानवत नव वात् ॥२॥

छपय

विमल चित्त कर मित्त, शत्रु छलबल वश कज्जय ।

प्रभु सेवा वश करिय, लोभवन्तहि धन दिज्य ॥  
 युवति प्रेम वश करिय, साधु आदर वश आनिय ।  
 'महाराज गुणकथन वंधु समरस सनमानिय ॥  
 गुरुनमन शीस रससों रसिक, विद्या बल बुधि मन हरिय ।  
 मूरख विनोद विकथा वचन, शुभ स्वभाव जगवश करिय ॥ ३ ॥  
 जाचक लघुपत लहै, काम आतुर कलंक पद ।  
 लोभी अपजस लहै, असनलालची लहै गद ॥  
 उन्नत लहै निपात दुष्ट परदोष लहै तक ।  
 कुमन विकलता लहै लहै संशय जु रहे चकि ॥  
 अपमान लहै निर्धन पुरुष, ज्वार बहु संकट सहै ।  
 जो कहै सहज करकश वचन, सो जग अप्रियता लहै ॥ ४ ॥  
 शिथिल मूल दिढ करै, फूल चूंदै जलसीचै ।  
 ऊरध डार नवाय, भूमिगत ऊरव खीचै ।  
 जे मलीन मुरभाहि, टेक दे तिनहि सुधारइ ।  
 कूड़ा कटक गलित पत्र, बाहिर चुन डारइ ॥  
 लघु वृद्धि करइ भेदै जुगल बाढ़ि सँवारै फल भखै ।  
 माली समान जो नृप चतुर, सो विलसै सपति अखै ॥ ५ ॥  
 मूढ़ मसकती तपी, दुष्ट मानी गृहस्थ नर ।  
 नरनायक आलसी, विपुल धनवत कृपण कर ॥  
 धरमी दुसह स्वभाव, वेद पाठी अधरम रत ।  
 पराधीन शुचिवन्त, भूमिपालक निदेशहत ॥  
 रोगी दरिद्रपीड़ित पुरुष, वृद्ध नारि रसगृद्धचित ।  
 एते विडम्ब संसारमें, इन सब कहै धिक्कार नित ॥ ६ ॥

प्रातः धर्म चिन्तवै, सहजहित मंत्र विचारै ।  
 चर चलाय चहुं ओर, देशपुर प्रजा सम्हारै ॥  
 राग द्वेष हिय गोप, वचन अमृत सम बोलै ।  
 समय ठौर पहिचान, कठिन कोमल गुण खोलै ।

निज जतन करै संचय रतन, न्यायमित्र अरि सम गनै ।  
 रणमें निशक ह्वै संचरै, सो नरेन्द्र रिपुदल हनै ॥ ७ ॥

कृपण बुद्धि यश हनै, कोप दृढ़ प्रीति विछोरै ॥  
 दंभ विध्वंसै सत्य, लुधा मर्यादा तोरै ॥

कुव्यसन धन छय करै, विपति थिरता पद टारइ ।

मोह मरौरै ज्ञान, विषय शुभ ध्यान विडारइ ॥

अभिमान विछेदै विनय गुण, पिशुनकर्म गुरुता गिलै ।

कुकलाअभ्यास नासहि सुपथ, दारिदसों आदर टलै ॥ ८ ॥

तियबल योवन समय, साधुबल शिवपथ सवर ।

नृपबल तेज प्रताप, दुष्टबल बचन अहम्बर ॥

निर्धनबल सुमिलाप, दानिसेवा वाचकबल ।

बाणिजबल व्यवहार, ज्ञानबल वरविवेकदल ॥

विद्या विनय उदारबल, गुणसमूह प्रभुबल दरव ।

परिवार स्वबल सुविचारै कर, होहि एक समता संरब ॥

नरपतिमंडन नीति, पुरुषमंडन मनधीरज ।

पंडितमंडन विनय, तालसरमंडन नीरज ॥

कुलतियमंडन लाज, वचनमंडन प्रसन्नमुख ।

मतिमंडन कवि धर्म, साधुमंडन समाधिसुख ॥

कनक सुरंग सु अक्षर बानी । तीनों शब्द सुवर्ण कहानी ॥  
 ज्यों त्यागै तीनहुँकी साता । सो कहिये सुवरण को दाता ॥४॥  
 पराधीन पररूप गरासी । यों दुर्बुद्धि कहावै दासी ॥  
 ताकी रीति तजै जब ज्ञाता । तब दासीदातार विख्याता ॥५॥  
 तन मन्दिर चेतन घरवासी । ज्ञान दृष्टि घट अन्तरभासी ॥  
 समझै यह पर है गुण मेरा । मन्दिरदान होहि तिहि वेरा ॥६॥  
 अष्ट महासद धुरके साथी । ए कुकर्म कुदशाके हाथी ॥  
 इनको त्याग करै जो कोई । गजदातार कहावै सोई ॥७॥  
 मनतुरंग चढ़ ज्ञानी दौरइ । लखै तुरंग औरमें औरइ ॥  
 निज हृगको निजरूप गहावै । सो तुरंगको दान कहावै ॥८॥  
 अविनाशी कुलके गुण गावै । कुल कलित्र सदबुद्धि कहावै ॥  
 बुद्धि अतीत धारणा फैली । वहै कलत्रदान की सैली ॥९॥  
 ब्रह्मविलास तेल खलि माया । मिश्रपिंडे तिल नाम कहाया ॥  
 पिंडरूप गहि द्विविधा मानी । द्विविधा तजै सोइ तिलदानी ॥१०॥  
 जो व्यवहार अवस्था होई । अन्तरभूमि कहावै सोई ॥  
 तज व्यवहार जो निश्चय मानै । भूमिदानकी विधि सो जानै ॥११॥  
 शुक्ल ध्यान रथ चढ़ै सयाना । मुक्तिपन्थ को करै पयाना ॥  
 रहै अजोग जोगसों यागी । वहै महारथ रथको त्यागी ॥१२॥  
 ये दशदान जु मैं कहे, सो शिवशासनमूल ।  
 ज्ञानवन्त सूक्ष्म गहै, मूढ़ विचारै थूल ॥१३॥  
 ये ही हित चित जानको, ये ही अहित अजान ।  
 रागरहित विधिसहित दित, अहित आनकी आन ॥१४॥



## अथ दश बोल लिख्यते.

चौपाई ।

जिनकी भाति कहों समुभाई । जिनपद कहा सुनो रे भाई ॥  
धर्म स्वरूप कहावै ऐसा । सो जिनधर्म बखानै जैसा ॥१॥  
आगम कहो जिनागम सांचा । वरणों वचन और जिन वाचा ॥  
सत भाषहुँ जिनमत समुभावहुँ । ये दश बोल जथारथ गावहुँ ॥२॥

जिन-दोहा ।

सहज बन्धबंदक रहित, सहित अनन्तचतुष्ट ॥  
जोगी जोगअतीत मुनि, सो जिन आतम सुष्ट ॥३॥

जिनपद ।

विधि निषेध जानै नहीं, जहँ अखंड रस पान ।  
विमल अवस्था जो धरै, सो जिनपद परमान ॥४॥

धर्म ।

लहिये वस्तु अवस्तुमें, यथा अवस्थित जोय ।  
जो स्वभाव जामै सधै, धर्म कहावै सोय ॥५॥

जिनधर्म ।

पुरुष प्रमाण परपरा, वचन बीज विस्तार ।  
धरै अर्थकी अगमता, यह आगम की ढार ॥६॥

जिनआगम ।

जहां द्रव्य षट तत्त्व नव, लोकालोक विचार ।

विवरण करै अनंत नय, सो जिन आगम सार ॥७॥

भुजबलसमर्थ मंडन जमा, गृहपति मंडन विपुल धन ।  
 मंडनसिद्धान्तरुचिसन्त कहें, कायामंडन लवन घन ॥१०॥  
 । ज्ञानवन्त हठ गहै, निधत्त परिवार बढ़ावै ।  
 । विधवा करै गुमान, धनी सेवक है धावै ॥  
 वृद्ध न समझै धर्म, नारि भर्ता अपमानै ।  
 पंडित क्रिया विहीन, राय दुबुद्धि प्रमानै ॥  
 कुलवंत पुरुष कुलविधितजै, बंधु न मानै बंधुहित ।  
 सन्यासधार धन संग्रहै, ए जगमें मूरख विदित ॥ ११ ॥

इति श्रीनवरत्न कवित्त.

## अथ अष्टप्रकारजिनपूजन लिख्यते.

दोहा ।

जलधारा चन्दन पुहुष, अक्षत अरु नैवेद ।  
 दीप धूप फल अर्घ्ययुत, जिनपूजा वसुभेद ॥१॥  
 जल-मलिन वस्तु उज्ज्वल करै, यह स्वभाव जलमार्हि ।  
 जलसों जिनपद पूजतें, कृतकलङ्क मिट जाहि ॥ २ ॥  
 चन्दन-तप्तवस्तु शीतल करै, चन्दन शीतल आप ।  
 चन्दनसों जिन पूजतें, मिटै मोह संताप ॥ ३ ॥  
 पुष्प-पुष्प चापधर पुष्पशर, धारै मनमथ वीर ।  
 यातें पूजा पुष्पकी, हरै मदनशरपीर ॥ ४ ॥  
 अक्षत-तन्दुल धवल पवित्र आति, नाम सु अक्षत तास ।

अक्षतसों जिन पूजते, अक्षय गुणपरकास ॥५॥

नैवेद्य-परम अन्न नैवेद्य विधि, लुधाहरण तन पोष ।

जिनपजत नैवेद्यसों, मिटहिं लुधादिक दोष ॥ ६ ॥

दीपक-आपा पर देखै सकल, निशिमैं दीपक होत ।

दीपकसों जिन पूजतें, निर्मलज्ञानउद्योत ॥७॥

धूप-पावक दहै सुगंधिको, धूप कहावै सोय ।

खेवन धूप जिनेशको, कर्म दहन छल होय ॥८॥

फल-जो जैसी करनी करै, सो तैसा फल लेय ।

फल पूजा जिनदेवको, निश्चय शिवफल देय ॥९॥

अर्घ-यह जिन पूजा अष्टविधि, कीजे कर शुचि अंग ।

प्रतिपूजा जलधारसों, दीजे अर्घ अमंग ॥१०॥

इति अष्टप्रकार जिन पूजन.

## अथ दशदानविधान लिख्यते.

गो सुवर्ण दासी भवन, गज तुरंग परधान ।

कुलकलत्र तिल भूमि रथ, ये पुनीत दशदान ॥१॥

अब इनको विवरण कहूँ, भावितरूप वखानि ।

अलखरीति अनुभवकथा, जो समझै सो दानि ॥२॥

चौपाई ।

गो कहिये इन्द्री अभिधाना । बछरा उमंग भोग पय पाना ॥

जो इसके रसमाहिं न राचा । सो सबच्छ गोदानी साँचा ॥३॥

कनक सुरंग सु अक्षर वानी । तीनों शब्द सुवर्ण कहानी ॥  
 ज्यों त्यागै तीनहुँकी साता । सो कहिये सुवरण को दाता ॥४॥  
 पराधीन पररूप गरासी । यों दुर्बुद्धि कहावै दासी ॥  
 ताकी रीति तजै जब ज्ञाता । तव दासीदातार विख्याता ॥५॥  
 तन मन्दिर चेतन घरवासी । ज्ञान दृष्ट घट अन्तरभासी ॥  
 समकै यह पर है गुण मेरा । मन्दिरदान होहि तिहि वेरा ॥६॥  
 अष्ट महामद धुरके साथी । ए कुकर्म कुदशाके हाथी ॥  
 इनको त्याग करै जो कोई । गजदातार कहावै सोई ॥७॥  
 मनतुरंग चढ़ ज्ञानी दौरइ । लखै तुरंग औरमै औरइ ॥  
 निज दृगको निजरूप गहावै । सो तुरंगको दान कहावै ॥८॥  
 अविनाशी कुलके गुण गावै । कुल कलित्र सद्बुद्धि कहावै ॥  
 बुद्धि अतीत धारणा फैली । वहै कलत्रदान की सैली ॥९॥  
 ब्रह्मविलास तेल खलि माया । मिश्रपिंड तिल नाम कहाया ॥  
 पिंडरूप गहि द्विविधा मानी । द्विविधा तजै सोइ तिलदानी ॥१०॥  
 जो व्यवहार अवस्था होई । अन्तरभूमि कहावै सोई ॥  
 तज व्यवहार जो निश्चय मानै । भूमिदानकी विधि सो जानै ॥११॥  
 शुक्ल ध्यान रथ चढ़ै सयाना । मुक्तिपन्थ को करै पयाना ॥  
 रहे अजोग जोगसों यागी । वहै महारथ रथको त्यागी ॥१२॥  
 ये दशदान जु मैं कहे, सो शिवशासनमूल ।  
 ज्ञानवन्त सूक्ष्म गहै, मूढ़ विचारै थूल ॥१३॥  
 ये ही हित चित जानको, ये ही अहित अजान ।  
 रागरहित विधिसहित हित, अहित आनकी आन ॥१४॥

इति दशदानविधान.

## अथ दश बोल लिख्यते.

चौपाई ।

जिनकी भाति कहों समुभाई । जिनपद कहा सुनो रे भाई ॥  
धर्म स्वरूप कहावै ऐसा । सो जिनधर्म बखानै जैसा ॥१॥  
आगम कहो जिनागम सांचा । वस्त्रों वचन और जिन वाचा ॥  
मत भाषहुँ जिनमत समुभावहुँ । ये दश बोल जथारथ गावहुँ ॥२॥

जिन-दोहा ।

सहज बन्धवन्दक रहित, सहित अनन्तचतुष्ट ॥  
जोगी जोगअतीत मुनि, सो जिन आतम सुष्ट ॥३॥

जिनपद ।

विधि निषेध जानै नहीं, जहँ अखंड रस पान ।  
विमल अवस्था जो धरै, सो जिनपद परमान ॥४॥

धर्म ।

लाहिये वस्तु अवस्तुमें, यथा अवस्थित जोय ।  
जो स्वभाव जामै सधै, धर्म कहावै सोय ॥५॥

जिनधर्म ।

पुरुष प्रमाण परंपरा, वचन बीज विस्तार ।  
धरै अर्थकी अगमता, यह आगम की ढार ॥६॥

जिनआगम ।

जहां द्रव्य षट तत्त्व नव, लोकालोक विचार ।

विवरण करै अनंत नय, सो जिन आगम सार ॥७॥

उत्तर—चिदानंद वपुमार्हि है, भ्रममार्हि आवै जाय ।

ज्ञान प्रकट आपा लखै, आपमार्हि ठहराय ॥ २ ॥

प्रश्न—जाको खोजत जगत जन, कर कर नानाभेष ।

ताहि वतावहु, है कहाँ, जाको नाम अलेष ॥ ३ ॥

उत्तर—जग शोधत कछु औरको, वह तो और न होय ।

वह अलेख निरमेष मुनि, खोखन हारा सोय ॥ ४ ॥

प्रश्न—उपजै विनसै थिररहै, वह अविनाशी नाम ।

भेदी तुम भारी भला !, मोहि वतावहु ठाम ॥ ५ ॥

उत्तर—उपजै विनसै रूप जड़, वह चिद्रूप अखड ।

जोग जुगति जगमें लसै, वसै पिण्ड ब्रह्मंड ॥ ६ ॥

प्रश्न—शब्द अगोचर वस्तु है, कछु कहौ अनुमान ।

जैसी गुरु आगम कही, तैली कहौ सुजान ॥ ७ ॥

उत्तर—शब्द अगोचर कहत है, शब्दमार्हि पुनि सोय ।

स्यादवाद शैली अगम, विरला बूमै कोय ॥ ८ ॥

प्रश्न—वह अरूप हूँ रूपमें, दुरिकै कियो दुराव ।

जैसैं पावक काठमें, प्रगटे होत लखाव ॥ ९ ॥

उत्तर—हुतो प्रगट फिर गुप्तमय, यह तो ऐसो नार्हि ।

है अनादि ज्यों खानिमें, कचन पाहनमार्हि ॥ १० ॥

इति प्रश्नोत्तर दोहा ।

### अथ प्रश्नोत्तरमाला लिख्यते ।

नमत शीस गोविन्दसों, उद्धव पूछत एम ।

कै विधि यम कै विधि नियम, कहो यथावत जेम ॥ १ ॥

' मोरे आंगन विरवा उलह्यो, बिना पवन भकुलाई ।  
 ऊँचि डाल बड पात सघनवाँ, छाहँ सौतके जाई ॥ ४ ॥  
 वौलै सखी बात मैं समुभी, कहूँ अर्थ अब जो है ।  
 तोरे घर अन्तरघटनायक, अदभुत विरवा सो है ॥ ५ ॥  
 ऊँची डाल चेतना उद्धत, वडे पात गुण भारी ।  
 ममता बात गात नहीं परसै, छकति छाह छत नारी ॥ ६ ॥  
 उदय स्वभाव पाय पद चचल, यातैं इत उत डोलै ।  
 कबहूँ घर कबहूँ घर बाहिर, सहज मरूप कलोलै ॥ ७ ॥  
 कबहूँ निज संपति आकषैं कबहूँ परसै माया ।  
 जब तनको त्योंनार करै तव, परै सौति पर छाया ॥ ८ ॥  
 तोरे हिये डाह यों आवै, ही कुलान वह चेरी ।  
 कहै सखी सुन दीनदयाली, यहै हियाली तेरी ॥ ९ ॥

### दोहा

हिय आगनमे प्रेम तरु, सुरति डार गुणपात ।  
 मगनरूप है लहलहै, बिना द्वन्ददुखवात ॥ १० ॥  
 भरमभाव प्रीषम भयो, सरस भूमि चितमार्हि ।  
 देश दशा इक सम भई, यहै सौतघर छाहिं ॥ ११ ॥

इति पहेला ।

### अथ प्रश्नोत्तरदोहा लिख्यते ।

प्रश्न—कौन वस्तु वषु मार्हि है. कहाँ आवै कहाँ जाय ।

ज्ञानप्रकाश कहा लखै, कौन ठौर ठहराय ॥ १ ॥

वचन ।

कहुं अक्षर मूद्रा धरै, कहुं अनक्षर धार ।

मृषा सत्य अनुभय उभय, वचन चार परकार ॥८॥

जिनवचन ।

जाकी दशा निरक्षरी, महिमा अक्षर रूप ।

स्यादवाद्जुत सत्यमय, सो जिनवचन अनूप ॥९॥

मत ।

थापै निजमतकी क्रिया. निन्दै परमत रीति ।

कुलाचारसों बँधि रहै. यह मतकी परतीति ॥१०॥

जिनमत ।

अर्हत् देव सुसाधु गुरु, दया धर्म जहँ होय ।

केवल भाषित रीति जहँ, कहिये जिनमत सोय ॥११॥

इति दशवोल.

## अथ पहेली लिख्यते.

कहरानामाकी चाल.

कुमति सुमति दोऊ ब्रजवनिता, दोउको कन्त अवाची ।

वह अजान पति मरम न जानै, यह भरतासों राची ॥१॥

यह सुबुद्धि आपा परिपूरण, आपापर पहिचानै ।

लख लालनकी चाल चपलता, सौतसाल दर आनै ॥ २ ॥

करै विलास हास कौतूहल, अगणित संग सहेली ।

काहु समय पाय सखियनसों, कहै पुनीत पहेली ॥ ३ ॥



समता कैसी दन कहा, कहा तितित्ता भाव ।

धीरज दान जु तप कहा, कहा सुभट विवसाव ॥ २ ॥

कहा सत्यरति है कहा, शौच त्याग धन इष्ट ।

यज्ञ दक्षिणा बलि कहा, कहा दया उत्कृष्ट ॥ ३ ॥

कहा लाभ विद्या कहा लज्जा लक्ष्मी गूढ ।

सुख अरु दुख दोऊ कहा, को पंडित को मूढ ॥ ४ ॥

पंथ कुपथ कहो कहा, स्वर्ग नरक वितौन ।

को बंधव अरु गृह कडा, धनी दरिद्री कौन ॥ ५ ॥

कौन पुरुष कहिये कृपण, को ईश्वर जग माहिं ।

ये सब प्रश्न विचार मन, कही मधुप हरिपाहिं ॥ ६ ॥

नारायण उत्तर कहै, सुन उद्वव मन लाय ।

द्वादश यम द्वादश नियम; कहूं तोहि समुभाय ॥ ७ ॥

दया सत्य थिरता क्षमा, अभय अचौर्य सुमौन ।

लाज असप्रह अस्तिमत, संग त्याग तियत्रौन ॥ ८ ॥

हरि पूजा संतोष गुरु, भक्ति होम उपकार ।

जप तप तीरथ द्विविधि शुचि, श्रद्धा अतिथि अहार ॥ ९ ॥

सोरठा ।

कहे भेद चौबीस, भिन्न २ यम नियमके ।

रहे प्रश्न चौबीस, तिनके उत्तर अब सुनहु ॥ १० ॥

समता ज्ञान सुधारस पीजे । यम इन्द्रिनको निग्रह कीजे ॥

सकटसहन तितित्ता वोरज । रसना मदन जीतवो धीरज ॥ ११ ॥

दान अभय जहँ दंड न दीजे । तप कामनानिरोध कहीजे ॥

अन्तरविजयसूरता सांची । सत्यब्रह्म दर्शन निरवाची ॥ १२ ॥

उत्तर—चिदानन्द वपुमाहिं है, भ्रममाहिं आवै जाय ।

ज्ञान प्रकट आपा लखै, आपमाहिं ठहराय ॥ २ ॥

प्रश्न—जाको खोजत जगत जन, कर कर नानाभेष ।

ताहि वतावहु, है कहाँ, जाको नाम अलेष ॥ ३ ॥

उत्तर—जग शोधत कछु औरको, वह तो और न होय ।

वह अलेख निरमेष मुनि, खोलन हारा सोय ॥ ४ ॥

प्रश्न—उपजै विनसै थिररहै, वह अविनाशी नाम ।

भेदी तुम भारी भला !, मोहि वतावहु ठाम ॥ ५ ॥

उत्तर—उपजै विनसै रूप जड़, वह चिद्रूप अखड ।

जोग जुगति जगमें लसै, वसै पिएड ब्रह्मंड ॥ ६ ॥

प्रश्न—शब्द अगोचर वस्तु है, कछु कहाँ अनुमान ।

जैसी गुरु आगम कही, तैली कहौ सुजान ॥ ७ ॥

उत्तर—शब्द अगोचर कहत है, शब्दमाहिं पुनि सोय ।

स्यादवाद शैली अगम, विरला वूमै कोय ॥ ८ ॥

प्रश्न—वह अरूप है रूपमें, दुरिकै कियो दुराव ।

जैसैं पावक काठमें, प्रगटे होत लखाव ॥ ९ ॥

उत्तर—हुतो प्रगट फिर गुपतमय, यह तो ऐसो नाहिं ।

है अनादि ज्यों खानिमें, कचन पाहनमाहिं ॥ १० ॥

इति प्रश्नोत्तर दोहा ।

## अथ प्रश्नोत्तरमाला लिख्यते ।

नमत शीस गोविन्दसों, उद्धव पूछत एम ।

कै विंध यम कै विधि नियम, कहो यथावत जेम ॥ १ ॥

समता कैसी दान कहा, कहा तितिक्षा भाव ।

धीरज दान जु तप कहा, कहा सुभट विवसाव ॥ २ ॥  
कहा सत्यरति है कहा, शौच त्याग धन इष्ट ।

यज्ञ दक्षिणा बलि कहा, कहा दया उत्किष्ट ॥ ३ ॥  
कहा लाभ विद्या कहा, लज्जा लक्ष्मी गूढ ।

सुख अरु दुख दोऊ कहा, को पंडित को मूढ ॥ ४ ॥  
पंथ कुपथ कहो कहा, स्वर्ग नरक चिंतौन ।

को बंधव अरु गृह कहा, धनी दरिद्री कौन ॥ ५ ॥  
कौन पुरुष कहिये कृपण, को ईश्वर जग माहिं ।

ये सब प्रश्न विचार मन, कही मधुप हरिपाहिं ॥ ६ ॥  
नारायण उत्तर कहै, सुन उद्धव मन लाय ।

द्वादश यम द्वादश नियम, कहूं तोहि समुक्ताय ॥ ७ ॥  
दया सत्य धरता क्षमा अभय अचौर्य सुमौन ।

लाज असग्रह अस्तिमत, संग त्याग तियवौन ॥ ८ ॥  
हरि पूजा संतोष गुरु, भक्ति होम उपकार ।

जप तप तीरथ द्विविधि शुचि, श्रद्धा अतिथि अहार ॥ ९ ॥

सोरठा ।

कहे भेद चौबीस, भिन्न २ यम नियमके ।

रहे प्रश्न चौबीस, तिनके उत्तर अब सुनहु ॥ १० ॥

समता ज्ञान सुधारस पीजे । यम इन्द्रिनको निग्रह कीजे ॥

सकटसहन तितिक्षा वीरज । रसना मदन जीतवो धीरज ॥ ११ ॥

दान अभय जहँ दंड न दीजे । तप कामनानिरोध कहीजे ॥

अन्तरविजयसूरता सांची । सत्यब्रह्म दर्शन निरवाची ॥ १२ ॥

## अथ षट्दर्शनाष्टक लिख्यते.

शिवमत बौद्ध रु वेदमत, नैयायिक मतदत्त ।  
मीमांसकमत जैनमत, षट्दर्शन परतत्त ॥ १ ॥

शैवमत ।

देव रुद्र जोगी सुगुरु, आगम शिवमुख भाव ।  
गनै कालपरणति धरम, यह शिवमतकी साख ॥ २ ॥

बौद्धमत ।

देव बुद्ध गुरु पाधड़ी, जगत वस्तु छिन औध ।  
शून्यवाद आगम भजै, चारवाक मत बौध ॥ ३ ॥

वेदान्तमत ।

देव ब्रह्म अद्वैत जग, गुरु वैरागी भेष ।  
वेद ग्रन्थ निश्चय धरम, मत वेदान्तविशेष ॥ ४ ॥

न्यायमत ।

देव जगतकरता पुरुष, गुरु सन्यासी होय ।  
न्याय ग्रन्थ उद्यम धरम, नैयायिक मत सोय ॥ ५ ॥

मीमांसकमत ।

देव अलख दरवेश गुरु, माने कर्म गिरंथ ।  
धर्म पूर्वकृतफलउदय, यह मीमांसक पथ ॥ ६ ॥

जैनमत ।

देव तीर्थकर गुरु यती, आगम केवलिन वैन ।  
धर्म अनन्त नयातमक, जो जानै सो जैन ॥ ७ ॥

ए छहमत छै भेदसों, भये छूट कछु और ।  
प्रतिषोडस पाखडसों, दशा छयानवे और ॥ ८ ॥

इति षट्दर्शनाष्टक

## अथ चातुर्वर्णं लिख्यते.

जो निश्चय मारग गहै, रहै ब्रह्म गुणलीन ।  
ब्रह्मदृष्टि सुख अनुभवै सो 'ब्राह्मण' परवीन ॥ १ ॥  
जो निश्चय गुण जानकै, करै शुद्ध व्यवहार ।  
जीतै सेना मोहकी, सो 'क्षत्री' भुजभार ॥ २ ॥  
जो जानै व्यवहार नय, दृढ व्यवहारी होय ।  
शुभ करणीसों रम रहै, 'वैश्य' कहावै सोय ॥ ३ ॥  
जो मिथ्यामत आदरै; रागद्वेषकी खान ।  
विनविवेक करणी करै, शूद्रवर्ण सो जान ॥ ४ ॥  
चार भेद करतूतिसों, ऊंच नीच कुलनाम ।  
और वर्णसंकर सबै, जे मिश्रित परिणाम ॥ ५ ॥

इति चातुर्वर्णं ।

## अथ अजितनाथजी के छंद.

गोयमगणहरपय नमो, सुमरि सुगुरु 'रविचन्द' ।

देवि प्रसादलहि, गाऊं अजित जिनन्द ॥ १ ॥

रतु अनक्षरी ध्वनि जहँ होई । करम अभाव शौचविध सोई ॥  
 त्यास परम सन्यास विधाना । परम धरम धन इष्ट निधाना ॥१३॥  
 ध्रुव धारणा यज्ञकी करनी । हित उपदेश दक्षिणा वरनी ॥  
 प्राणायाम बोधवल अक्षा । दया अशेष जन्तुकी रक्षा ॥ १४ ॥  
 लाभ भावशुभगतिपरकाशा । विद्या सो जु अविद्यानाशा ॥  
 लाज कुकर्म गिलानि कहावै । लक्ष्मी नाम निराशा पावै ॥ १५ ॥  
 सुखदुखत्यागबुद्धि सुखरेखा । दुख विषयारस भोगविशेखा ॥  
 पंडित बंध मोक्ष जो जानै । मूरख देहादिक निज मानै ॥ १६ ॥  
 मारग श्रीमुख आगम भाषा । उतपथ कुधी कुमन अभिलाषा ॥  
 सुकृतिवासना स्वर्गविलासा । दुरित उद्धाह नर्क गतिवासा ॥ १७ ॥  
 बंधव हितू स्वर्ग सुख दाता । गृह मानुपी शरीर विख्याता ॥  
 धनी सो जु गुणरत्नभंडारी । सदा दरिद्री तृष्णाधारी ॥ १८ ॥  
 कृपण सो जु विषयारसलोभी । ईश्वर त्रिगुणातीत अछोभी ॥  
 बहुत कहां लागि कहों विवक्षण । गुण अरु दोष दोहुके लक्षण ॥१९॥

दोहा ।

टांष्ट सुगुन अरु दोषकी, दोष कहावै साय ।  
 गुण अरु दोष जहां नहीं, तहां गुन परगट होय ॥ २० ॥  
 इति प्रश्नोत्तरमालिका, उद्धवहरिसवाद ।  
 भाषा कहत "बनारसी" 'भानु' सुगुरुपरसाद ॥ २१ ॥

इति प्रश्नोत्तरमालिका ।

## अथ अवस्थाष्टक लिख्यते ।

दोहा ।

चेतनलक्षण नियतनय, सबै जीव इकसार ।

मूढ विचक्षण परमसों, त्रिविधि रूप व्यवहार ॥ १ ॥

मूढ आतमा एक विधि, त्रिविधि विचक्षण जान ।

द्विविधि भाव परमातमा, षट्विधि जीव बखान ॥ २ ॥

विधि निषेध जानै नहीं, हित अनहित नहीं सूझ ।

विषयमगन तन शीनता, यहै मूढकी बूझ ॥ ३ ॥

जो जिनभाषित सरदहै, भ्रम सशय सब खोये ।

समकितवंत असंजमी, अधम विचक्षण खोय ॥ ४ ॥

वैरागी त्यागी दमी, स्वपर विवेकी होय ।

देशसंजमी संजमी, मध्यम पंडित दोय ॥ ५ ॥

अप्रमाद गुणथानसों, क्षीणमोहलों दौर ।

श्रेणिधारणा जो धरै, सो पंडित शिरमौर ॥ ६ ॥

जो केवल पद आचरै, चढ़ि सयोगिगुणथान ।

सो जगम परमातमा, भववासी भगवान ॥ ७ ॥

जिहिपदमे सत्रपदमगन, ज्यों जलमें जल बुन्द ।

सो अविचल परमातमा, निराकार निरदुन्द ॥ ८ ॥

इति अवस्थाष्टकः ।

## अथ षट्दर्शनाष्टक लिख्यते.

शिवमत बौद्ध रु वेदमत, नैयायिक मतदत्त ।  
मीमांसकमत जैनमत, षट्दर्शन परतत्त ॥ १ ॥

शैवमत ।

देव रुद्र जोगी सुगुरु, आगम शिवमुख भाख ।  
गनै कालपरणति धरम, यह शिवमतकी साख ॥ २ ॥

बौद्धमत ।

देव बुद्ध गुरु पाधड़ी, जगत वस्तु छिन औध ।  
शून्यवाद आगम भजै, चारवाक मत बौध ॥ ३ ॥

वेदान्तमत ।

देव ब्रह्म अद्वैत जग, गुरु वैरागी भेष ।  
वेद ग्रन्थ निश्चय धरम, मत वेदान्तविशेष ॥ ४ ॥

न्यायमत ।

देव जगतकरता पुरुष, गुरु सन्यासी होय ।  
न्याय ग्रन्थ उद्यम धरम, नैयायिक मत सोय ॥ ५ ॥

मीमांसकमत ।

देव अलख दरवेश गुरु, माने कर्म गिरंथ ।  
धर्म पूर्वकृतफलउदय, यह मीमांसक पथ ॥ ६ ॥

जैनमत ।

देव तीर्थकर गुरु यती, आगम केबलि वैन ।  
धर्म अनन्त नयातमरु, जो जानै सो जैन ॥ ७ ॥



ए छहमत छै भेदसों, भये छूट कछु और ।  
प्रतिषोडस पाखंडसों, दशा छ्यानवे और ॥ ८ ॥

इति षट्दर्शनाष्टक

## अथ चातुर्वर्ण लिख्यते.

जो निश्चय मारग गहै, रहै ब्रह्म गुणलीन ।  
ब्रह्मदृष्टि सुख अनुभवै सो 'ब्राह्मण' परवीन ॥ १ ॥  
जो निश्चय गुण जानकै, करै शुद्ध व्यवहार ।  
जीतै सेना मोहकी, सो 'क्षत्री' भुजभार ॥ २ ॥  
जो जानै व्यवहार नय, दृढ व्यवहारी होय ।  
शुभ करणीसों रम रहै, 'वैश्य' कहावै सोय ॥ ३ ॥  
जो मिथ्यामत आदरै; रागद्वेषकी खान ।  
विनचिवेक करणी करै, शूद्रवणें सो जान ॥ ४ ॥  
चार भेद करतूसों, ऊंच नीच कुलनाम ।  
और वर्णसंकर सबै, जे मिश्रित परिणाम ॥ ५ ॥

इति चातुर्वर्ण ।

## अथ अजितनाथजी के छंद.

गोयमगणहरपय नमो, सुमरि सुगुरु 'रविचन्द' ।  
सरसुति देवि प्रसादलहि, गाऊं अजित जिनन्द ॥ १ ॥

छन्द.

श्री अवध्यापुर देश सुहायाजी ।

राजै तहं जितशत्रू रायाजी ॥ १

राया सुधर्म निधान सुन्दर, देवि विजया तसु धरै ।

तसु उदर विजय विमान सुरवर, स्वप्न सूचित अवतरै ॥

तव जन्म उत्सव करहिं वासव, मधुर धुनि गावहिं सुरी ।

आनन्द त्रिभुवन जन 'वनारसि' धन्य श्रीअवध्यापुरी ॥ २ ॥

महियल राजिष्ठ अजित जिनदाजी ।

गज वर लच्छन निर्मल चंदाजी ॥

चन्दा उदित इद्वाक वंशाहि, कुमति तिमर विनासिये ।

सय साठ चार सुचाप परिमित, देह कंचन भासिये ॥

दिढ़ पालिराज सु गहिय संजम. मुकति पथ रथ साजियो ।

उत्पन्न केवल सुख "वनारसि" अजित महियल राजियो ॥ ३ ॥

गढ़ योजनमहि रचें सुदेवाजी ।

अष्ट प्रतीहार करहिं सु सेवाजी ॥

सेवहिं अशोक प्रसून वरसत, दिव्यधुनि तहं गाजहीं ।

चामर सिंहासन प्रभामडल छत्र तीन विराजहीं ॥

नवदेव दु दभि सभा वारह, चौतिसौ अतिशय सही ।

सुर असुर किन्नरगण 'वनारसि' रचित गढ़ योजन मही ॥ ४ ॥

तत्त वहन्तरि पूरव आया जी ।

भोग सु जिनवर शिवपद पायाजी ॥

शिवपद विनायक सिद्धि दायक, कर्म महारिपु भंजनो ।

वरणो शिपैरावाद मडन, भविक जनमनरंजनो ॥

सोलैसै सत्तर समय आश्वनि, मास सितपख बारसी ।

विनवत दुहू कर जोर सेवक, सिरीमाल 'वनारसि' ॥ ५ ॥

इति श्रीअजितनाथ के छन्द.

## अथ शान्तिनाथजिनस्तुति.

वाकीमहम्मद खान् के चंदवाकी ढाल ।

सहि एरी । दिन आज सुहाया मुक्त भाया आया नाहिं घरे ।

सहि एरी । मन उदधि अनन्दा सुख, कन्दा चन्दा देह धरे ॥

चन्द जिवा मेरा वल्लम सोहै, नैन चकोरहिं सुक्ख करै ।

जगज्योति सुहाई कीरतिछाई, बहु दुख तिमरवितान हरै ॥

सहु कालविनानी अम्रतवानी, अरु मृगका लांछन कहिए ।

श्रीशान्ति जिनेशनरोत्तमको प्रभु, आज मिला मेरी सहिए ! ॥१॥

सहि एरी । तू परम सयानी सुरज्ञानी रानी राजत्रिया ।

सहि एरी । तू अति सुकुमारी, वरन्यारी प्यारी प्राणप्रिया ॥

प्राणप्रिया लखि रूप अचंभा, रति रंभा मन लाज रहीं ।

कलधौत कुरंग कौल करि केसरि, ये सरि तोहि न होंहि कहीं ॥

अनुराग सुहाग भाग गुन आगरि, नागार पुन्यहिं लहिये ।

मिलिं या तुम्ह कन्त नरोत्तमको प्रभु, धन्य सयानी सहिये । ॥२॥

दोहा ।

विश्वसेन कुलकमलरवि, अचिरा उर अवतार ।

धनुष सु चालिस कनकतन, बन्दहुं शान्ति कुमार ॥३॥

त्रिमयी छन्द. ( १०, ८, ८, ६ )

गजपुर श्रवतारं, शान्ति कुमारं, शिवदातारं, सुखकारं ।

निरुपम आकारं, रुचिराचारं, जगदाधार, जितमारं ॥

कृतश्रिसंहारं, महिमापारं, विगतविकारं, जगसारं ।

परहित संसारं, गुणविस्तारं, जगनिस्तारं, शिवधारं ॥ ४ ॥

सकल सुरेश नरेश अरु, किन्नरेश नागेश ।

तिनिगणवन्दित चरणजुग, वन्दहुं शान्ति जिनेश ॥ ५ ॥

श्रीशान्तिजिनेशं, जगतमद्देश, विगतकलेशं भद्रेशं ।

भक्तिकमलदिनेश, मतिमहिशेशं, मदनमद्देशं, परमेशं ॥

जनकुमुदनिशेशं, रुचिरादेशं, धर्मधरेशं चक्रेशं ।

भवजलपोतेशं, महिमनगेशं, निरुपमवेशं, तीर्थेशं ॥ ६ ॥

करत अमरनरमधुप जसु, वचन सुधारसपान ।

वन्दहुं शान्तिजिनेशवर, वदन निशेश समान ॥ ७ ॥

वररूप श्रमानं, श्रितभमानं, निरुपमज्ञानं, गतमानं ।

गुणनिकरस्थान, मुक्तिवितानं, लोकनिदानं, सध्यानं ॥

भवतारनयानं, कृपानिधान, जगतप्रधानं, मतिमान ।

प्रगटितकल्याण, वरमहिमानं, शिवपददानं, मृगजानं ॥८॥

भवसागर भयभीत बहु, भक्तलोकप्रतिपाल ।

वन्दहुं शान्ति जिनाधिपात, कुर्गातिलताकरवाल ॥ ९ ॥

भजितभवजालं, जितकलिकालं, कीर्तिविशालं, जनपालं ।

गतिविजितमराल, अरिकुञ्जकालं, वचनरसालं, वरभालं ॥

मुनिजलजमृणालं, भवभयशालं, शिवउरमालं, सुकुमालं ।

जिस हिये केवल वृत्त अंकुर,  
 शुद्ध अनुभव दीप है ।  
 किरिया सकल तज होहिं समरस,  
 तिनहिं मोक्ष समीप है ॥ २ ॥

कोऊ विचक्षण कहै मो हिय,  
 शुद्ध अनुभव सोहये ।  
 मैं भावि नय परिमाण निर्मल;  
 नि रा शी नि र मो ह ये ॥  
 समध्यात देवल माहि केवल,  
 देव परगट भासहीं ।  
 कर भ्रष्टयोग विभावपरिणति,  
 अष्ट कर्म विनाशहैं ॥ ४ ॥

इति नाटक कलश भाषानुवाद



## अथ नाटक समयसारसिद्धान्त के पाठान्तर कलशौका भाषानुवाद

मनहर ।

प्रथम अज्ञानी जीव कहै मैं सदीव एक,  
दूसरो न और मैं ही करता करम को ।  
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायो,  
भयो बोध गयो मिट भारत भरम को ॥  
भासे छह द्रव्यनके गुण परजाय सब,  
नाशे दुख लख्यो मुख पूरण परमको ।  
करमको करतार मान्यो पुद्गल पिंड,  
आप करतार भयो आतम धरमको ॥ १ ॥

दोहा ।

जीव चेतना संजुगत, सदाकाल सब ठौर ।  
तातै चेतनभावको, कर्ता जीव न और ॥ २ ॥

गीतिका

जे पूर्वकर्मउदयविषयरस,  
भोगमगन सदा रहैं ।  
आगम विषयसुख भोग वांछहि,  
ते न पंचमगति लहैं ॥

जिस हिये केवल वृत्त अंकुर,  
 शुद्ध अनुभव दीप है ।  
 किरिया सकल तज होहिं समरस,  
 तिनहिं मोक्ष समीप है ॥ २ ॥

कोऊ विचक्षण कहै मो हिय,  
 शुद्ध अनुभव सोहये ।  
 मैं भावि नय परिमाण निर्मल,  
 नि रा शी नि र मो ह ये ॥  
 समध्यात देवल माहि केवल,  
 देव परगट भासहीं ।  
 कर भ्रष्टयोग विभावपरिणति,  
 अष्ट कर्म विनाशहीं ॥ ४ ॥

इति नाटक कलशा भाषानुवाद



## सेना । चौपाई.

नव तुरंग रथ तीन सुभायक । हस्ती तीन पंचदश पायक ।  
बल चतुरंग और नहिं लेन । यह परवान कहावै-सेन ॥ ५ ॥

सेनामुख ।

सत्ताइस घोड़े नव हाथी । पैतालिस पायकनर साथी ।  
नवरथ सहित कटक जो होई । दल सेनामुख कहिये साई ॥ ६ ॥  
अनीकनी ।

मत्त मतंग सात अरु बीस । पवन-वेग रथ सत्ताईस ।  
अनुग एकसौ पैतिस ठीक । हय इक्यासी सहित अनीक ॥ ७ ॥

वाहिनी । आभानक छन्द ।

इक्यासी गजराज-घोरघन गाजने ।

इक्यासी परमान महारथ राजने ॥

तीन अधिक चालीस तुरंगम दोयसो ।

अनुग चारसौपच वाहिनी होय सो ॥ ८ ॥

चमू । गीत्त छन्द ।

गज दोयसैतेताल रथवर, दोयसौ तेताल ।

है सातसो उन्तीस परमित, जातिवन्त रसाल ॥

जहँ सुभट बारह सौ सुपायक, अधिक दश अरु पच ॥

सो चमूदल चतुरंग शोभित, सहित नर तिरजच ॥ ९ ॥

विरुथिनी ।

रथ सातसै उन्तीस कुंजर, सातसै उन्तीस ।

हय एक विंशति सै सतासी, चपल उन्नत सीस ॥

छत्तीससौ बलवंत पायक, अधिक पैतालीस ।

सो है विरुथनि कटक दुद्धर, चटक सुन्दर दीस ॥ १० ॥



दंड-रोला ।

कुंजर दोय हजार एक सौ असी सात गनि ।  
जेते गज तेते प्रमान रथराज रहे वनि ॥  
नवसौ पैतिस दसहजार पायक प्रचंड बल ।  
पैसठसै इकसठ तुरंग यह दंड नाम दल ॥११॥

अक्षौहिणी-छापय ।

गज इकवीस हजार, आठ सौ सत्तर गजहिं ।  
रथ इकवीस हजार, आठ सौ सत्तर सजहिं ॥  
एक लाख अरु नवहजार, नर सुभट सुभायक ।  
तिस ऊपर तीनसौ अधिक पंचास सुपायक ।

सौहत तुरंग पैसठ सहस,

छसौ अधिक और लिय ।

इहिविधि अभंग चतुरंग दल,

अक्षौहिणी प्रमाण किय ॥ १२ ॥

इति नवसेना विधान



## अथ नाटक समयसारसिद्धान्त के पाठान्तर कलशोंका भाषानुवाद

मनहर ।

प्रथम अज्ञानी जीव कहै मैं सदीव एक,  
दूसरो न और मैं ही करता करम को ।  
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायो,  
भयो बोध गयो मिट भारत भरम को ॥  
भासे छह द्रव्यनके गुण परजाय सब,  
नाशे दुख लख्यो मुख पूरण परमको ।  
करमको करतार मान्यो पुद्गल पिंड,  
आप करतार भयो आतम धरमको ॥ १ ॥

दोहा ।

जीव चेतना संजुगत, सदाकाल सब ठौर ।  
तातै चेतनभावको, कर्ता जीव न और ॥ २ ॥

गीतिका

जे पूर्वकर्मउदयविषयरस,  
भोगमगन सदा रहै ।  
आगम विषयसुख भोग वांछहि,  
ते न पंचमगति लहै ॥

जिस हिये केवल वृत्त अंकुर,  
 शुद्ध अनुभव दीप है ।  
 किरिया सकल तज होहिं समरस,  
 तिनहिं मोक्ष समीप है ॥ २ ॥

कोऊ विचक्षण कहै मो हिय,  
 शुद्ध अनुभव सोहये ।  
 मैं भावि नय परिमाण निर्मल,  
 नि रा शी नि र मो ह ये ॥  
 समध्याज देवल माहि केवल,  
 देव परगट भासहीं ।  
 कर भ्रष्टयोग विभावपरिणति,  
 अष्ट कर्म विनाशहीं ॥ ४ ॥

इति नाटक कलश भाषानुवाद

अथ प्रास्ताविक फुटकर कविता लिख्यते.

मनहर ।

पूरव कि पश्चिम हो उत्तर कि दक्षिण हो,

दिशि हो कि विदिशि कहउ तहां धाइये ।

पढ़िये पढ़ाइये कि गढ़िये गढ़ाइये कि,

नाचिये नचाइये कि गाइये गवाइये ॥

न्हाये विन खाइये कि न्हायकर खाइये कि,

खाय कर न्हाइये कि न्हाइये न खाइये ।

जोग कीजे भोग कीजे दान दीजे छीन लीजे,

जिहि विधि जाने जाहु सो विधि बताइये ॥१॥

दिशि औ विदिशि दोऊ जगत की मरजाद,

पढ़िये शवद गढ़िये सु जड़ साज है ।

नाचिये सुचित्त चपलाय गाइये सुयुनि,

न्हाइये सुजन शुचि खाइये सुनाज है ॥

परको संजोग सुतो योग विषै स्वाद भोग,

दीजे लीजे मायासो तो भरम को काज है ।

इनतें अतीत कोऊ चेतनको पुंज तोमें,

ताके रूप जानवेको जानबो इलाज है ॥ २ ॥

लोभवन्त मानुष जो औगुण अनन्त तामे,

जाके हिये दुष्टता सो पापी परधीन है ।

जाके मुख सत्यवानी सोई तपको निधानी,

जाकी मनसा पवित्र सो तीरथथान है ॥

जामें सज्जनकी रीति ताकी सबहीसों प्रीति,

जाकी भली महिमा सो आभरणवान है ।

जामें है सुविद्या सिद्धि ताही के अटूटऋद्धि,

जाको अपजस सो तो मृतक समान है ॥ ३ ॥

कंचनभंडार पाय रंच न मगन हूजे,

पाय नवयोवना न हूजे जोवनारसी ।

काल असिधारा जिन जगत बनाए सोई,

कामिनी कनक मुद्रा दुहुंको बनारसी ॥

दोऊ बिनाशी सदीव तूहै अ'वनाशी जीव,

या जगत कूपबीच ये ही, होवनारसी ।

इनको तू सगत्याग कूपसों निकसि भाग,

प्राणी मेरे कहे लाग कहत 'बनारसी' ॥ ४ ॥

( पादान्तयमक )

जीवके बधैया धामविद्याके सवैया दावा-

नलके दधैया बन आखेटक करमी ।

जुआरी लवार परधन के हरनहार,

चौरीके करनहार दारीके अशरमी ॥  
 मांस के भखैया सुरापान के चखैया,  
 परवधूके लखैया जिनके हिये न नरमी ।  
 रोषके गहैया परदाषके कहैया येते,  
 पापी नर नीच निरद्वै महा अधरमी ॥ ५ ॥  
 मत्तगयन्द ।

सम्यक ज्ञान नहीं उर अन्तर, कीरतिकारण भेष बनावें ।  
 भौन तजें वनवास गहें मुख, मौन रहें तपसों तन जावें ॥  
 जोग अजोग कछू न विचारत मूरख लोगन को भरमावें ।  
 फैल करें बहु जैन कथा कहि, बैन विना नर जैन कहावें ॥ ६ ॥  
 धीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मीत महारुचि मासी ।  
 ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा, मति पुत्रवधू समता अतिभासी ॥  
 उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शुभोदय दासी ।  
 भाव कुटुंब सदा जिनके ढिग, यों-मुनिको कहिये गृहवासी ॥ ७ ॥

मनहर ।

मानुष जनम लह्यो सम्यक दरश गह्यो,  
 अजहूँ विषै विलास त्याग मन बावरे ।  
 संपति विपति आये हरप विषाद छोड़,  
 ताही ओर पीठ ओढ़ जैसी बहै बावरे ॥  
 भौथिति निकट आई समता सुथाह पाई,  
 गयो है निघटि जल मिथ्यात डुवावरे ।  
 दूटैगो करम फाम छूटैगो जगत बास,

केवल उदै समीप आयो परेबावरे ॥ ८ ॥

( पादान्तयमक )

जामे सदा उतपात रोगनसों छीजै गात,

कछून उपाय छिन छिन आयु खपनो ।

कीजे बहु पाप-औ नरक दुख चिन्ता व्याप,

आपदा कलाप में विलाप ताप तपनो ॥

जामें परिगहको वषाद मिथ्या बकवाद,

विषैभोग सुखको सवाद जैसो सपनो ।

ऐसो है जगतवास जैसो चपला विलास-

तामें तू मगन भयौ त्याग धर्म अपनो ॥ ९ ॥

मत्तगयंद ।

पुण्य सँजोग जुरे रथ पोयक, माते मतंग तुरंग तबेले ।

मान विमौ अँग यो सिरभार, कियो विस्तार परिग्रह ले ले ॥

बंध बढ़ाय करी थिति पूरण, अंत चले उठ आप अकेले ।

हारि हमालकी पोदसी डारिके, और दिवारकी ओट व्है खेले ॥१०॥

छप्पय

धान यान मिष्टान, मोम मादक नवनिज्ज ।

लवण हिंगु धृत तैल, वनिजकारण नहिं लिज्ज ॥

पशुभाड़ा पशुवणिज्ज शस्त्र विक्रय न करिज्ज ।

जहां निरन्तर आम्र करम, सो वणिज्ज न किज्ज ॥

मधु नील लाख विष वणिज्ज तज्ज, कूप तलाव न सोखिये ।

लहिये न धरम गृह वासवस, हिंसक जीव न पोखिये ॥ ११ ॥

मुक्ताको स्वामी चन्द मूंगानाथ महीनन्द,  
 गोमेदक राजा राहु लीलापात शनी है ।  
 केतु लहसुनी सुरपुष्प राग देव गुरु,  
 पञ्चाको अधिप बुध शुक्र हीरा धनी है ॥  
 याही क्रम कीजे घेर दक्षिणावरत फेर,  
 माणिक सुमेरवीच प्रभु दिन मनी है ।  
 आठों दल आठ ओर, करणिका मध्य-ठोर  
 कौलकेसे रूप नौ गृही अनूप बनी है ॥ १२ ॥  
 बालक दशाकी मरजाद दश वरस लों,  
 बीस लों बढ़ति तीसलों सुछबि रही है ॥  
 चालीस लों चतुराई पंचास लों थूलताई,  
 साठ लग लोचनकी दृष्टि लहलही है ॥  
 सत्तर लों श्रवण असी लों पुरुषत्व निन्या-  
 नवे लग इंद्रिनकी शक्ति उमही है ।  
 सोलों चित चेत एक सौ दशोत्तरलों आयु,  
 मानुष जनम-ताकी पूरीथिति कही है ॥ १३ ॥

चौदह विद्याओंके नाम यथा—

छप्पय ।

ब्रह्मज्ञान चातुरीवान, विद्या हय वाहन ।  
 परम धरम उपदेश, बाहुबल जल अवगाहन ॥  
 सिद्ध रसायन करन, साधि सेतमसुर गावन ।  
 वर सांगीत प्रमान, नृत्य वाजित्र वजावान ॥



व्याकरण पाठ मुख वेद धुनि, ज्योतिष चक्र विचारचित ।  
चैद्यक विधान परबीनता, इति विद्या दशचार मित ॥ १४ ॥

छत्तीस पौन ( जाति ) के नाम कवित्त.

शोसगर दरजी तंबोली रंगवाल ग्वाल,

बढ़ई सगतदास तेली धोबी धुनिथों ।

कदोई कहार काछी कुलाल कलाल माली,

कु दीगर कागदी किसान पटबुनियों ॥

चितेरा बिघेरा वारी लखेरा ठठेरा राज,

पटुवा छप्परबंध नाई भारभुनियों ।

सुनार लोहार सिकलीगर हवाईगर,

धीवर चमार एही छत्तीस पवुनियों ॥ १५ ॥

एक सौ अड़तालीस प्रकृति

वस्तु छन्द.

सत्ततुट्टहि सत्ततुट्टहि तुरीय गुण थान ।

तहं तीन व्युच्छतिभई नवठाण छत्तीस जानहु ।

दशमे पुनि इक लोभ चारमें सोलह खिपानहु ।

बहत्तर तेरम नसै, तेरह चौदम एवि ।

एम पैडि अड़ताल सौ, होय सिद्ध तोडेवि ॥ १६ ॥

छप्पय ।

एक जान द्वै तोरि, तीन रम चार न भासहु ।

पंच जीत पटराख, सात तज आठ विनाशहु ॥

नव संभारि दश धारि, ग्य रमहिं वारह भावहु ।

तेरह तिर चौदहें चढ़त, पन्द्रह विलगावहु ॥  
 सोलहन मेटि सत्रह भजहु, अठारह कहं करहु छय ।  
 सम गणि उनीस वीसहिं विरचि, 'बानारसि' आनंद मय ॥१७॥

तात्पर्य—दोहा ।

शुद्ध आत्मा एक जिन, राग द्वेष द्वय बंध ।  
 तीन शुद्ध ज्ञानादि गुण, चारों विकथा धध ॥ १८ ॥  
 प्रबल पच इन्द्री सुभट, षट विधि जीवनिहाय ।  
 जुआ आदि सार्ता व्यसन, अष्टकर्म समुदाय ॥ १९ ॥  
 ब्रह्मचर्य की बाड़ि नव, दश मुनिधर्मविचार ।  
 ग्यारह प्रतिमा श्रावकी, बारह भावन सार ॥ २० ॥  
 तेरह थानक जीव के, चौदह गुण ठानाइ ।  
 पन्द्रह जोग शरीर के, सोलह भेद कहाइ ॥ २१ ॥  
 सत्रह विधि संयम सही, जीव समास उनीस ।  
 दोष अठारह जान सब, पुद्गलके गुण वीस ॥ २२ ॥

इति प्रस्ताविक फुटकर कविता.

## अथ गोरखनाथ के वचन

चौपाई ।

जो भग देख भामिनी मानै । लिङ्ग देख जो पुरुष प्रमानै ॥  
 जो विन चिह्न नपुंसक जोवा । कह गोरख तीनों घर खोवा ॥१॥  
 जो घर त्याग कहावे जोगी । घरवासीको कहै 'जु भोगी ।  
 अन्तरभाव न परखै जोई । गोरख बोलै मूरख सोई ॥ २ ॥

पढ़ ग्रन्थहिं जो ज्ञान-वखानै । पवन साध परमारथ-मानै ।  
 परम-तत्त्व के होहिं न मरमो । कह गोरख सो महा अधर्मी ॥३॥  
 माया जोर कहै मैं ठाकर । माया गये कहावै चाकर ।  
 माया त्याग होय जो दानी । कह गोरख तीनों अज्ञानी ॥ ४ ॥  
 कोमल पिंड कहावै चेला । कठिन पिंडसों ठेला पेला ।  
 जूना पिंड कहावै बूढा । कह गोरख ए तीनों मूढा ॥ ५ ॥  
 विन परिचय जो वस्तु विचारै । ध्यान अग्नि विनतन परजारै ।  
 ज्ञानमगन विन रहै अबोला । कह गोरख सो वाला भोला ॥ ६ ॥  
 सुनरे वाचा चुनियो मुनियो । उलट वेधसों उलटी दुनियां ।  
 सतगुरु कहै सहजका धवा । वाद विवाद करै सो अंधा ॥ ७ ॥

इति गोरखनाथ के वचन

## अथ वैद्य आदि के भेद.

### वैद्यलक्षण

कर्म रोगकी प्रकृती पावै । यथायोग्य औषाध फरमावै ।  
 उदय नाडिकाकी गति जानै । सो सुवैद्य मेरे मन मानै ॥ १ ॥

### ज्योतिषीलक्षण.

नवरस रूप गिरह पहिचानै । वारह राशि भावना भानै ॥  
 सहज संक्रमण साथै जोई । ज्योतिषराय ज्योतिषी सोई ॥ २ ॥

### वैष्णवलक्षण दोहा ।

तिलक तोष माला विरति, मति मुद्रा श्रुति छाप ।

इन लक्षणसों वैष्णव, समुझै हरि परताप ॥ ३ ॥

जो हरि घट में हरि लखै, हरि वाना हरि वोइ ।

हरि छिन हरि सुमरन करै, विमल वैपणव सोइ ॥ ४ ॥

मुसलमानलक्षण.

जो मन मूसै आपनो, साहिव के रुख होय ।

ज्ञान मुसल्ला गह टिकै, मुसलमान है सोय ॥ ५ ॥

गहद्वर लक्षण.

जो मन लावे भरमसों, परम प्राप्ति कहँ खोय ।

जहँ विवेकको वर गयो, गवर कहावै सोय ॥ ६ ॥

एक रूप 'हिन्दू तुरुक' दूजी दशा न कोय ।

मनकी द्विविधा मानकर, भये एकसों दोय ॥ ७ ॥

दोऊँ भूले भरम मे, करें वचनकी टेक ।

'राम राम' हिन्दू कहें, तुके 'सलामालेक' ॥ ८ ॥

इनके पुस्तक वांचिये, वेहू पढ़ें कितेव ।

एक वस्तु के नाम द्वय, जैसे 'शोभा' 'जेव' ॥ ९ ॥

तिनको द्विविधा-जे लखें, रंग विरंगी चाम ।

मेरे नैनन देखिये, घट घट अन्तर राम ॥ १० ॥

यहै गुप्त यह है प्रगट, यह वाहिर यह माहिं ।

जब लग यह कछु है रहा, तब लग यह कछु नाहिं ॥ ११ ॥

ब्रह्मज्ञान आकाश में, उड़हिं सुमति खग होय ।

यथाशक्ति उद्यम करहिं, पार न पावहिं कोय ॥ १२ ॥

गई वस्तु सोचै नहीं, आगम चिंता नाहिं ।

वर्त्तमान वरतै सदा, सो ज्ञाता जगमाहिं ॥ १३ ॥

जो विलसै सुख सपदा, गये ताहि दुख होय ।

जो धरती बहु तृणवती, जरै अग्निसों सोय ॥ १४ ॥

धन पाये मन लहलहै, गये करै चित शोक ।

भोजन कर केहरि लखै, वररुचि केसो वोक ॥ १५ ॥

माया छाया एक है, घटै बढै छिनमाहिं ।

इनकी संगति जे लगै, तिनहिं कहीं सुख नाहिं ॥ १६ ॥

जे मायासों राचिके, मनमे राखहिं बोझ ।

कै तो तिनसों 'खर' भलो, कै जंगलको 'रोझ' ॥ ७ ॥

इस माया के कारणै, जेर कटावहिं सीस ।

ते मूरख क्यों कर सकै, हरिभक्तनकी रीस ॥ १८ ॥

लोभ मूल सब पापको, दुखको मूल सनेह ।

मूल अजीरण व्याधिको, मरणमूल यह देह ॥ १९ ॥

जैसी मति तैसी दशा, तैसी गति तिह पाहिं ।

पशु मूरख भूपर चलहिं, खग पंडित नभमाहिं ॥ २० ॥

सम्यकदृष्टी कुक्रिया, करै न अपने वश्य ।

पूरव कर्म उदोत है, रस दे जाहिं अवश्य ॥ २१ ॥

जो महंत है ज्ञानविन, फिरै फुलाये गाल ।

आप मत्त और न करै, सां कलिमाहिं कलाल ॥ २२ ॥

ज्यों पावक विन नहिं सरै, करै यदपि पुर दाह ।

त्यों अपराधी मित्रकी, होय सवनको चाह ॥ २३ ॥

कर्त्ता जीव सदीव है, करै कमं स्वयमेव ।

यह तन कृत्रिम देहरा, तामे चेतन देव ॥ २४ ॥

केवलजानी कर्मको, नहिं कर्ता विन प्रेम ।

देह अर्कात्रिम देहरा, देव निरंजन एम ॥ २५ ॥

भूमि यान धन धान्य गृह, भाजन कुप्य अपार ।

शयनासन चौपद द्विपद, परिगह दश परकार ॥ २६ ॥

खान पान परिधान पट, निद्रा मृत्र पुरीस ।

ये षट कर्म सवहिं करे, राजा एक सरीस ॥ २७ ॥

उचित वसन सुरुचित असन, सलिल पान सुख सैन ।

बडी नीति लघुनीतिसों, होय सवनको चैन ॥ २८ ॥

### चतुर्दश नियम

विगै नरव तंबोल पट, शील सचित्त स्नान ।

द्विशि अहार पान रु पुहुप, सयन विलेपन यान ॥ २९ ॥

शीलवन्त मडै न तन, अधि पद गहै न सत ।

पिताजात न हने पिता, सती न मारहि कत ॥ ३० ॥

कामी तन मडन करै, दुष्ट गहै अधिकार ।

जारजात मारहि पिता, असति हने भरतार ॥ ३१ ॥

ज्ञानहीन करणी करै, यों निजमन आमोद ।

ज्यों छेरो निज खुरहितें, छुरी निकासैं खोद ॥ ३२ ॥

राजर्थाद्व सुख भोगवें, ऐसे मूढ़ अजान ।

महा सन्निपाती करहि, जैसे शरवत पान ॥ ३३ ॥

जहँ आपा तहँ आपदा, जहँ संशय तहँ सोग ।

सतगुरु विन भागें नहीं, दोऊ जालिम रोग ॥ ३४ ॥

जे आशाके दास ते, पुरुष जगत के दाम ।

आशा दासी जास की, जगत दास-है तास ॥ ३५ ॥  
ससारी उद्धार तज, धरै रोक पर प्यार ।

ज्ञानी रोक न आदरै, करै दरब उद्धार ॥ ३६ ॥

कारण काज न जो लखै, भेद अभेद न जान ।

वस्तुरूप समुझै नहीं, सो मूरख परधान ॥ ३७ ॥

देव धर्म गुरु ग्रन्थ मत, रत्न जगतमे चार ।

साचे लीजे पराखके, झूठे दीजे द्वार ॥ ३८ ॥

अद्वारहदूषणरहित, देव-सुगुरु निरग्रन्थ ।

धर्म दया पूरवअपर,--मतअविरोधि, सुग्रन्थ ॥ ३९ ॥

मुनिकै वाणी जैनकी, जैन धरै मन ठीक ।

जैनधर्म विन जीवकी, जैन होय तहकीक ॥ ४० ॥

उपजै उर सन्तुष्टता, दृग दुष्टता न होय ।

मितै मोहमदपुष्टता, सहज सुष्टता सोय ॥ ४१ ॥

इति वैद्यलक्षणादि प्रस्ताविक कविता

## अथ परमार्थवचनिका लिख्यते ।

एक जीवद्रव्य ताके अनंत गुण अनन्त पर्याय एक  
एक गुणके असंख्यात प्रदेश,-- एक एक प्रदेशनिविष्ट अनन्त  
कर्मवर्गणा, एक एक कर्मवर्गणाविष्ट अनन्त अनन्त पुद्गल परमाणु.  
एक एक पुद्गल परमाणु अनन्त गुण अनन्त पर्यायसहित  
विराजमान. यह एक संसारावस्थित जीव पिंडकी अवस्था  
याहीभांति अनन्त जीवद्रव्य सापिंडरूप जानने. एकजीव द्रव्य

अनंत अनंत पुद्गलद्रव्यकरि संयोगित ( संयुक्त ) मानने ।  
ताको व्यौरौ,—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परनति, अ-य अन्यरूप  
पुद्गलद्रव्यकी परनति ताको व्यौरौ—

एक जीवद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नानाकाररूप  
परिनमै सो भांति अन्य जीवसों मिलै नहीं । वाकी और भांति ।  
आहीभांति अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनन्तानंत स्वरूप  
अवस्थालिये वर्तहिं । काहु जीवद्रव्यके परिनाम काहु जीवद्रव्य  
औरस्यौ मिलइ नहीं । याही भांति एक पुद्गल परवानू एक  
समयमाहिं जा भांतिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्गल  
परवानू द्रव्यसौ मिलै नहीं. तातैं पुद्गल ( परमाणु ) द्रव्यकी भी  
अन्य अन्यता जाननी ।

अथ जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक छेत्रावगाही अनादिकालके,  
तामैं विशेष इतनौ जु जीवद्रव्य एक, पुद्गलपरवानू द्रव्य अनतानत  
चलाचलरूप आगमनगमनरूप अनंताकार परिनमनरूप वधमुक्तिशक्ति  
लिये वर्तहिं ।

अथ जीवद्रव्यकी अनन्त अवस्था तामैं तीन अवस्था मुख्य  
थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक  
शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत  
सिद्ध अनवस्वितरूप कहिये ।

अथ तीनहू अवस्थाकौ विचार—एक अशुद्ध निश्चयात्मक  
द्रव्य, एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य ।



अशुद्धनिश्चय-द्रव्यको सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्धव्यवहार ।

अत्र निश्चय व्यवहार को विवरण लिख्यते ।

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार-द्रव्यके यथास्थित-भाव । परन्तु विशेष इतनौ जु यावत्काल संसारावस्था तावत्काल व्यवहार कहिये सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातैं जु ससार व्यवहार एक रूप-दिखायौ. संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी ।

अत्र तीनहु अवस्था को विवरण लिख्यते ।

यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल-अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्धव्यवहारी । सम्यग्दृष्टी होत मात्र-चतुर्थ गुणस्थानकस्यौं द्वादशम गुणस्थानकपर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी ।

अत्र निश्चय तौ द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार ससारावस्थित भाव,

ताको विवरण कहै हैं—

मिथ्यादृष्टी जीव अपनौ स्वरूप नहीं जानतौ तातैं परस्वरूप-विषै मगन होय करि कार्य मानतु है, ता कार्य करतौ छतौ अशुद्ध-व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टी अपनौ स्वरूप परोक्ष प्रमानकरि अनुभवतु है । परसत्ता परस्वरूपसौं, अपनौ कार्य नहीं मानतौ संतौ जोगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप क्रिया करतु है, ता कार्य करतौ मिश्र व्यवहारी कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात-चारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमनशील है तातैं शुद्धव्यवहारी कहिए. जोगारूढ़ अवस्था विद्यमान है तातैं व्यवहारी-नाम कहिए ।

शुद्धव्यवहारकी सरहद्द त्रयोदशम गुणस्थाकसौ लेइकरि चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यंत जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहारः ।

अथ तीनहुं व्यवहारको स्वरूप कहै है —

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोप-योगमिश्रित स्वरूपाचरनरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरनरूप । परन्तु विशेष इनको इतनौ जु कोऊ कहै कि-शुद्धस्वरूपाचरणात्म तौ सिद्धहूविषै छतौ है उहा भो व्यवहार संज्ञा कहिए—सो यौ नाही—जातैं संसारी अवस्थापर्यन्त व्यवहार कहिए । संसारावस्था के मितत व्यवहार भी मिटी कहिए । इहां यह थापना कीनी है तातैं सिद्धव्यवहारातीत कहिए । इति व्यवहारविचार समाप्तः ।

अथ आगमअध्यातमको स्वरूप कथ्यते ।

आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए । आत्माको जु आधिकार सो अध्यातम कहिए । आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । ते दोऊभाव संसार अवस्थाविषै त्रिकालवर्ती मानने । ताको व्यौरौ—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति । ताकौ व्यौरौ कर्मपद्धति पौद्गलीकद्रव्यरूप अथवा भावरूप, द्रव्यरूप पुद्गलपरिणाम भावरूप पुद्गलाकारआत्मा की अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम—ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे । अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भो द्रव्यरूप अथवा भावरूप । द्रव्यरूप तौ जीवत्वपरिणाम—भावरूप ज्ञानदर्शन सुख-वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम, ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप जानने । आगम अध्यातम दुहुं पद्धतिविषै अनन्तता माननी ।

अनन्तता कहा ताकी विचार—

अनन्तताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखाइयतु है जैसे—  
 वटवृक्षको बीज एक हाथविषै लीजै. ताको विचार दीर्घ दृष्टिसौ  
 कीजै तो वा वटके बीजविषै एक वटको वृक्ष है. सो वृक्ष जैसे कछु  
 भाविकाल होनहार है तैसे विस्तारलिये विद्यमान वामें वास्तवरूप  
 छतो है. अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसंयुक्त है फल  
 फलविषै अनेक बीज होंह । या भांतिकी अवस्था एक वटके  
 बीजविषै विचारिए । भी और सूक्ष्मदृष्टि दीजै तो जे जे वा वट  
 वृक्षविषै बीज हैं ते ते अंतर्गर्भित वटवृक्षसंयुक्त होंहि । याही भांति  
 एकवटविषै अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विषै एक एक वट,  
 ताको विचार कीजै तौ भाविनयप्रवानकरि न वटवृक्षनिकी मर्यादा  
 पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए । याही भांति अनन्तताको स्वरूप  
 जाननौ । ता अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्तही  
 देखै जाएँ कहै—अनन्तको ओर अंत है ही नहीं जो ज्ञानविषै  
 भाषै । तातैं अनन्तता अनन्तहीरूप प्रतिभासै, या भांति आगम  
 अध्यात्मकी अनन्तता जाननी. तामें विशेष इतनौ जु अध्यात्मकौ  
 स्वरूप अनन्त आगमको स्वरूप अनन्तानंतरूप, यथापना प्रवान-  
 करि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित । आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित ।  
 इन दुहुँको स्वरूप सर्वथा प्रकार तौ केवलगोचर, अशमात्र मति  
 श्रुतज्ञानग्राह्य तातैं सर्वथाप्रकार आगमो अध्यात्मी तो केवली,  
 अशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानी मनपर्यय  
 ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने ।

मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी न अध्यात्मी है । काहेतैं यातैं जु कथन मात्र तौ ग्रंथपाठके बलकरि आगम अध्यातमको स्वरूप उपदेश-मात्र कहै परन्तु आगम अध्यातमको स्वरूप सम्यक् प्रकार जानैं नहीं । तातैं मूढ़ जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात् ।

अथ मूढ़ तथाज्ञानी जीवको विशेषणौ और भी सुनो,—

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानै, मूढ़ मोक्षमार्ग न साधि जानै काहे—यातैं सुनो—मूढ़ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहै अध्यात्मपद्धतिको निश्चय कहै तातैं आगम अग एकान्तपत्तौ साधिकै मोक्षमार्ग दिखावै अध्यात्म अगको व्यवहारै न जानै यह मूढ़दृष्टीको स्वभाव, वाहि याही भांति सूझै काहेतैं ?—यातैं—जु आगम अंग बाह्यक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है ताको स्वरूप साधिवो सुगम । ता बाह्यक्रिया करतौ सतौ आपकूं मूढ़ जीव मोक्षको अधिकारी मानै, अन्तरगर्भित को अध्यात्मरूप क्रिया सौ अन्तर-दृष्टि ग्राह्य है सो क्रिया मूढ़जीव न जानै । अन्तरदृष्टि के अभावसौं अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर आवै नहीं, तातैं मिथ्यादृष्टी जीव मोक्ष-मार्ग साधिवेको असमर्थ ।

अथ सम्यक्दृष्टीको विचार सुनो—

सम्यग्दृष्टी कहा सो सुनो—संशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जामैं नाही सो सम्यग्दृष्टी । संशय विमोह विभ्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखायतु है सो सुनो—जैसैं च्यार पुरुष काहु एम्स्थानक विपै टाढे । तिन्ह चारिहूँके आगे एक सीपको खड फिनही और पुरुषनैं आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकतैं प्रश्न कीनी कि यह कहा है सीप

है कै रूपौ है. प्रथमही एक पुरुष संशैवालो बोल्यो—कछु सुध नाहीन परत, किधौ सीप है किधौ रूपो है मोरी दृष्टिविषै याको निरधार होत नाहिनै । भी दूजो पुरुष विमोहवालो बोल्यो कि—कछु मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सीप कौनसौ कहतु है रूपौ कौनसौ कहतु है मेरी दृष्टिविषै कछु आवतु नाहीं तातैं हम नांहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्वै रहै बोलै नाही गहलरूपसौ । भी तीसरो पुरुष विभ्रमवालो बोल्यो कि—यह तौ प्रत्यक्षप्रमानरूपो है याको सीप कौन कहै मेरी दृष्टिविषै तो रूपो सूझतु है तातैं सवेथाप्रकार यह रूपो है सो तीनौ पुरुष तौ वा सीपको स्वरूप जान्यो नाहीं । तातैं तीनों मिथ्यवादी । अब चोथौ पुरुष बोल्यो कि यह तौ प्रत्यक्ष प्रमान सीपको खंड है यामैं कहा धोखो, सीप सीप सीप, निरधार सीप; याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्षप्रमान भ्रामक अथवा अंध. तैसैं सम्यग्दृष्टीको स्वपरस्वरूपविषै न संसै न विमोहन विभ्रम यथार्थदृष्टि है तातैं सम्यग्दृष्टी जीव-अन्तरदृष्टि कर मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त नानारूप, एक रूप नाहीं. अन्तरदृष्टिके प्रमान मोक्षमार्ग साधै सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरनकी कनिका जागे मोक्षमार्ग सांचौ । मोक्षमार्गको साधिवीय है व्यग्रहार, शुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चै । एसैं निश्चय व्यवहारको स्वरूप सम्यग्दृष्टी जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव वधपद्धतिका साधिकर मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नाहीं । काहेतैं यातैं जु बंधके साधते बंध सधै, मोक्ष सधै नाहीं । ज्ञाता जब कदाचित् बंधपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसौं मेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चलयो आयो है—अब या पद्धतिसौं मोह

तौरि वहै तौ या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यों हे नर काहे करौ ? ।  
छिन मात्र भी बन्धपद्धतिविषै मगन होय नहीं सो ज्ञाता अपने  
स्वरूप विचारै अनुभवै ध्यावै गावै श्रवन करै नवधाभक्ति तप क्रिया  
अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार,  
याहीँको नाम मिश्रव्यवहार ॥

अब हेयज्ञेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचारलिख्यते—

हेय-त्यागरूप तौ अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय-विचाररूप  
अन्यषट्द्रव्यको स्वरूप, उपादेय—आचरण रूप अपने द्रव्यकी  
अशुद्धता, ताको व्यौरौ—गुणस्थानक प्रमान हेयज्ञेयउपादेयरूप  
शक्ति ज्ञाताकी होइ । ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेयउपादेयरूप  
शक्ति वर्द्धमान होय त्यों त्यों गुणस्थानककी बढवारी कही है,  
गुणस्थानकप्रवान ज्ञान गुणस्थानक प्रमान क्रिया । तामें विशेष  
इतनौ जु एक गुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होंहि तौ अनेक रूपको  
ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए । भिन्न भिन्नसत्ताके  
प्रधानकरि एकता मिलै नहीं । एक एक जीव द्रव्यविषै अन्य  
अन्य रूप उदीक भाव होंहि तिन उदीकभावानुसारी ज्ञानकी अन्य  
अन्यता जाननी । परंतु विशेष इतनौ जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो  
न होइ जु परसत्तावलंबनशीली होइकरि मोक्षमागे साक्षात् कहै  
काहेतैं अवस्थाप्रवान परसत्तावलंबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी  
परमार्थता न कहै । जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलंबनशीली  
होइ ताको नाउ ज्ञान । ता ज्ञानकी सहकारभूत निमित्तरूप नाना  
प्रकार के उदीकभाव होंहि । तिन्ह उदीकभावनको ज्ञाता तमासगीर ।

न कर्त्ता न भोक्ता न अवलंबी तार्ते कोऊ, यों कहै कि या भांतिके उदीकभाव होंहि सर्वथा तौ फलानौ गुनस्थानक कहिये सो भूठो । तिनि द्रव्यकौ स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यौ नाहीं । काहेतैं—यातैं जु और गुनस्थानकनिकी कौन बात चलावै केवलीके भी उदीक-भावनिकी नानात्वता जाननी । केवलीके भी उदीकभाव एकसे होय नाहीं । काहू केवलीकौ दंड कपाटरूप क्रिया उदै होय काहू केवली कौ नाहीं । तौ केवलीविषै भी उदैकी नानात्वता है तो और गुनस्थानककी कौन बात चलावै । तार्ते उदीक भावनिके भरोसे ज्ञान नाहीं ज्ञान स्वशक्तिप्रवान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति ज्ञायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाचरनरूप चारित्र्य यथा अनुभव प्रमान यह ज्ञाताको सामर्थ्यपनौ । इन बातनको व्यौरो कहाताई लिखिये कहाताई कहिए । वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तार्ते यह विचार बहुत कहा लिखाहिं । जो ज्ञाता होइगो सो थोरी ही लिख्यो बहुतकरि समुझैगो जो अज्ञानी होयगो सो यह चिट्ठी सुनैगो सही परन्तु समुझैगा नहीं यह—वचनिका यथाका यथा सुर्मात-प्रवान केवलिवचनानुसारी है । जो याहिसुणैगो समुझैगो सरदहैगो ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थवचनिका

## अथ उपादान निमित्तकी चिट्ठी लिख्यते—

प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा ताकौ व्यौरौ—निमित्त तौ संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी

सहज शक्ति । ताको व्यौरो - एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, ताको व्यौरो-द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुणभेदकल्पना । पर्यायार्थिक निमित्त उपादान परजोगकल्पना ताकी चौभंगी । प्रथम ही गुणभेद कल्पनाकी चौभंगीको विस्तार कहौ सो कैसेँ,—ऐसै—सुनौ—जबद्रव्य ताके अनन्त गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । तामें दोय गुण प्रधान मुख्य थापे, तापर चौभंगीको विचार एक तौ जीवकौ ज्ञानगुण दूसरो जीवको चारित्रगुण ।

ए दोनौ गुण शुद्धरूप भाव जानने । अशुद्धरूप भी जानने यथायोग्य स्थानक मानने ताको व्यौरो—इन दुहूँकी गति शक्ति न्यारी २ न्यारी न्यारी; जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी ताको व्यौरौ,—ज्ञानगुणकी तौ ज्ञान अज्ञानरूप गति; स्वपरप्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता, परंतु एक विशेष इतनौ जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाही, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश, सम्यग्दर्शन उत्पत्ति पर्यंत; यह तौ ज्ञान गुणको निर्णय भयो । अब चारित्र गुणको व्यौरौ कहै है,—संकलेस विशुद्धरूप गति; थिरता अथिरता शक्ति, मंदी तीव्ररूप जाति; द्रव्यप्रमाण सत्ता । परंतु एक विशेष जु मंदताकी स्थिति चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त । तीव्रताकी स्थिति पंचमगुणस्थानक पर्यन्त । यह तौ दुहुँकौ गुण भेद न्यारी न्यारौ क्यौ । अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चारित्रके आर्धन न चारित्र ज्ञानके आधीन । दोऊ असहाय रूप । यह तौ मर्यादा बंध ।



अथ चौमगीको विचार—ज्ञानगुण निमित्त

चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्यौरौ—

एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान । तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्यौरौ—सूक्ष्मदृष्टि देखकार एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेनी समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी बात नाही चलावनी । काहू समै जीवकी अवस्था या भांति होतु है जु जानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै अजानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै जानरूप ज्ञान संकलेस रूप चारित्र, काहू समै अजानरूप ज्ञान संकलेस चारित्र, जा समै अजानरूप गति ज्ञानकी, संकलेसरूप गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध । काहू समै अजानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त शुद्ध-उपादान । काहू समै जानरूप ज्ञान संकलेसरूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान । काहू समै जानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ दशा जीवकी सदाकाल अनादिरूप, ताको व्यौरौ—ज्ञान रूप ज्ञानकी शुद्धता कहिए विशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिए । अज्ञान रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए संक्लेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिये अथ ताको विचार सुनो—मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै जीवको ज्ञान गुण जाण रूप है तब कहा जानतु है ? ऐसौ जानतु है—कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादिक मौसौ न्यारे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण । हौ मरुंगो ए इहां ही रहेंगे सो जानतु है । अथवा ए जाहिंगे,

हैं रहूंगे, कोई काल इन्हस्यौ मोहि एक दिन विजांग है ऐसो जानपनौ मिथ्यादृष्टीको होतु है सो तो शुद्धता कहिए. परन्तु सम्यक् शुद्धता नहीं गर्भितशुद्धता जब वस्तुको स्वरूप जानै तब सम्यक् शुद्धता सो ग्रंथिभेद विना होई नहीं परतु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है वाही जीवको काहू समै ज्ञान गुण अज्ञान रूप है गहलरूप, ताकरि केवल बंध है. याही भांति मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समे चारित्र गुण विशुद्धरूप है तातै चारित्रावर्ण कर्म मद है । ता मंदताकरि निर्जरा है । काहूसमै चारित्रगुण संकलेशरूप है तातै केवल तीव्रबंध है । या भांति करि मिथ्या अवस्थाविषै जासमै जानरूप ज्ञान है जौर विशुत्तरूप चारित्र है ता समै निर्जरा है । जा समै अज्ञानरूप ज्ञान है संकलेश रूप चारित्र है तासमै बध है तामै विशेष इतनौ जु अल्प निर्जरा बहु बध, तातैं मिथ्यात अवस्थाविषैकेवल बन्ध कह्यो । अल्पकी अपेक्षा जैसे—काहू पुरुषकों नफो थोड़ो टोटो बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए । परंतु बध निर्जरा विना जीव काहू अवस्थाविषै नहीं । दृष्टान्त ऐसो—जु विशुद्धताकरि निर्जरा न होती तौ एकेन्द्री जीव निगोद अवस्थास्यौ व्यथहारराशि कौनके बल आवतो ? उहां तौ ज्ञान गुण अज्ञानरूप गहलरूप है अशुद्धरूप है तातै ज्ञानगुनको तौ बल नहीं । विशुद्धरूप चारित्र के बलकरि जीव व्यवहार राशि चढतु है. जीवद्रव्यविषै कषाइकी मंदता होतु है ताकरि निर्जरा होतु है । वाही मंदता प्रमान शुद्धता जाननी । अब और भी विस्तार सुनो—

जानपनौ ज्ञानको अरु विशुद्धता चारित्रकी दोऊ मौत्तमार्गानुसारी है तातें दोऊविषै विशुद्धता माननी । परन्तु विशेष इतनों जु गभित शुद्धता प्रकट शुद्धता नाहीं । इन दुहूँ गुणकी गभित शुद्धता जबताई ग्रंथिभेद होय नाहीं तबताई मोत्तमार्ग नसधै । परन्तु ऊरधताको करहि अवश्य करि ही । ए दोऊ गुणकी गभित शुद्धता जब ग्रंथिभेद होइ तब इन दुहूँकी शिखा फूटै तब दोऊं गुण धाराप्रवाहरूप मोत्तमार्गकौ चलहिं ज्ञानगुणकी शुद्धताकरि ज्ञान गुण निर्मल होहि । चारित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुण निर्मल होइ । वह केवल ज्ञानको अंकूर, वह जथाख्यातचारित्रको अंकूर ।

इहां कोऊ उटकना करतु है,— कि तुम कह्यो जु ज्ञानको जाणपनौ अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहुंस्यो निर्जरा है सु ज्ञानके जाणपनौ सो निर्जरा यह हम मानी । चारित्रकी विशुद्धतासौ निर्जरा कैसे ? यह हम नाहीं समुक्ती—ताको समाधान.—

सुनि भैया । विशुद्धता थिरतारूप परिणामसों कहिये सो थिरता जथाख्यातको अंश है तातें विशुद्धता में शुद्धता आई ॥ भी वह उटकनावारो बोल्यो—तुम विशुद्धतासों निर्जरा कही, हम कहतु है कि विशुद्धतासों निर्जरा नाहीं शुभवन्ध है—ताकौ सामाधान,— कि सुन भैया यह तौ तू सांचो विशुद्धतासों शुभवन्ध, संक्लेशतासों अशुभवन्ध, यह तो हम भी मानी परन्तु और भेद यामें है सो सुनि—अशुभपद्धति अधोगतिको परणमन है शुभपद्धति उर्द्धगतिको परनमन है तातें अधोरूपसंसार उर्द्धरूप मोत्तस्थान पकरि, शुद्धता वामें आई मानि मानि, यामें धोखौ नाहीं है विशु-

ता सदा काल मोक्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थभेद विना शुद्धताको जोर चलत नाही ? जैसे कोऊ पुरुष नदीमें डुबक मारै फिर जब उठलै तब दैवजोगशों ऊपर ता पुरुषकै नौका आय जाय तौ यद्यपि तारू पुरुष है तथापि कौन भांति निकलै ? वाको जोर चलै नाहिं, बहुतेरा कलबल करै पै कछु वसाइ नांही, तैसें विशुद्धताकी भी ऊर्द्धता जाननी । ता वास्तै गर्भित शुद्धता कही । वह गर्भित शुद्धता ग्रन्थभेद भये मोक्षमार्गको चली । अपने स्वभाव करि वर्द्धमानरूप भई तब पूर्ण जथाख्यात प्रगट कहायो । विशुद्धताकी जु ऊर्द्धता वहै वाकी शुद्धता ।

और सुनि जहां मोक्षमार्ग साध्यौ तहां कह्यौ कि “सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” और यों भी कह्यौ कि “ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः” ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानकस्युं लेकरि चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यौ ताको व्यौरौ, सम्यक् रूप ज्ञान धारा विशुद्धरूप चारित्रधारा दोऊधारा मोक्षमार्गको चली सु ज्ञानसौं ज्ञानकी शुद्धता क्रियासौ क्रियाकी शुद्धता । जो विशुद्धतामै शुद्धता है तौ जथाख्यात रूप होत है । जो विशुद्धतामै ता न होती तो ज्ञान गुन शुद्ध होतो क्रिया अशुद्ध रहती केवली विपै, सो यो तो नहीं वामै शुद्धता हती ताकरि विशुद्धता भई । इहां कोई कहैगो कि ज्ञानकी शुद्धताकरि क्रिया शुद्ध भई सो यों नाहीं । कोऊ गुन काहू गुनके सारै नहीं सब असहाय रूप है । और भी सुनि जो क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तौ अशुद्धताकी एती शक्ति नाहीं जु मोक्षमार्गको चलै तातैं विशुद्धतामै जथाख्यातको अंश है तातैं

वह अंश क्रम क्रम पूरण भयौ । ए भइया उटकनावारे—तैं  
विशुद्धतामै शुद्धता मानी कि नाही । जो तौ तैं मानी तौ कळु और  
कहिबेकौ कार्य नाही । जो तैं नाही मानी तौ तेरौ द्रव्य याही भांति  
कौ परनयौ है हम कहा करि हैं जो मानी तौ स्यावासि । यह तौ  
द्रव्यार्थिककी चौभंगी पून भई ।

निमित्त उपादान शुद्ध अशुद्धरूप विचार—

अब पर्यायार्थिककी चौभंगी सुनौ एक तौ वक्ता अज्ञानी,  
श्रोता भी अज्ञानी सो तौ निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध ।  
दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान  
शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध  
उपादान अशुद्ध । चौथौ वक्ता ज्ञानो श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त  
भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायार्थिककी चौभंगी साधी ।

इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्धरूपविचार वचनिका-

✓ अथ निमित्त उपादान के दोहे लिख्यते ।

दोहा ।

गुरुउपदेश निमित्त विन, उपादान बलहीन ।

ज्यों नर दूजे पाव विन, चलबेको आधीन ॥ १ ॥

हौ जानै था एक ही, उपादानसों काज ।

थकै सहाई पौन विन, पानीमाहि जहाज ॥ २ ॥

दोनो दोहों का उत्तर,

ज्ञान नैन किरिया चरन, दोरु शिवमगधार ।

उपादान निहचै जहाँ, तहँ निमित्त व्योहार ॥ ३ ॥

उपादान निज गुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय ।

भेद ज्ञान परवान विधि, विरला ब्रूभै कोय ॥ ४ ॥

उपादान बल जहँ तहँ, नहिं निमित्तको दाव ।

एक चक्रसौ रथ चलै, रविको यहै स्वभाव ॥ ५ ॥

सधै वस्तु असहाय जहँ, तहँ निमित्त है कौन ।

ज्यों जहाज परवाह मे, तिरै सहज विन पौन ॥ ६ ॥

उपादान विधि निरवचन, है निमित्त उपदेश ।

वसै जु जैसे देशमे, करै सु तैसे भेस ॥ ७ ॥

इति निमित्त उपादान के दोह.

अथ अध्यातमपदपंक्ति लिख्यते,

( १ )

राग भैरव

या चेतनको सब सुधि गई ।

व्यापत मोहि विकलता भई, या चेतनकी० टेक  
है जडरूप अपावन देह ।

तासौ राखै परमसनेह, या चेतनकी० ॥ १ ॥

आइ मिले जन स्वारथबंध ।

तिनहिं कुटब कहै जा बंध ॥

आप अकेला जनमै मरै ।

सकल लोककी ममता धरै, या चेतनकी० ॥ २ ॥  
होत विभूति दानके दिये ।

यह परपंच विचारै हिये ।

भरमत फिरै न पावइ ठौर ।

ठानै मूढ और की और, या चेतनकी० ॥ ३ ॥  
बंध हेतको करै जुखेद ।

जानै नहीं मोक्षको भेद ।

मिटै सहज संसार निवास ।

तव सुख लहै 'वनारसिदास', या चेतनकी० ॥४॥

( - )

राग रामकली—

चेतन तू तिहुकाल अकेला,

नदी नाव संजोग मिलै ज्यों, त्यों कुटंबका मेला, चेतन० ॥ टेक ॥

यह संसार असार रूप सब, ज्यों पटपेखन खेला ।

सुख संपति शरीर जलबुद्बुद, विनशत नाहीं वेला, चेतन० ॥ १ ॥

मोहमगन आतमगुन भूलत, परि तोहि गलजेला ।

मैं मैं करत चहूँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला, चेतन० ॥ २ ॥

कहत 'वनारसि' मिथ्यामत तज, होय सुगुरुका चेला ।

तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरभेला, चेतन० ॥ ३ ॥

( ३ )

राग रामकली

मगन हूँ आराधो सोधो । अलाख पुरुष प्रभु ऐसा ॥ टेक ॥

जहाँ जहाँ जिस रससौं राचै, तहाँ तहाँ तिस भेसा, मगन० ॥ १ ॥

सहज प्रवान प्रवान रूप मे, संसैमें संसैसा ।  
 धरै चपलता चपल कहावै, लै विधान में लै सा, मगन० ॥ २ ॥  
 उद्यम करत उद्यमी कहिये, उद्यसरूप उदै सा ।  
 व्यवहारी व्यवहार करम मे, निहचै में निहचै सा, मगन० ॥ ३ ॥  
 पूरण दशा धरै संपूरण, नय विचार में तैसा ।  
 दरवित सदा अखै सुखसागर, भावित उतपति खैसा, मगन० ॥ ४ ॥  
 नाहीं कहत होइ नाहीं सा, है कहिये तौ है सा ।  
 एक अनेक रूप ह्वै वरता, कटौ कहाँ लों कैसा, मगन० ॥ ५ ॥  
 कल्पित वचन विलास 'वनारसि' वह जैसेका तैसा, मगन० ॥ ६ ॥

( ४ )

दोहा ।

जिन प्रतिमा जिनसारखी, कही जिनागम माहि ।  
 पै जाके दूषण लगै, वंदनीक सो नाहि ॥ १ ॥  
 मेटी मुद्रा अवधिसों, कुमती कियो कुदेव ।  
 विघने अंग जिनविंवकी, तजै समकिली सेवे ॥ २ ॥

( ५ )

अज्ञानी की दशा

रूप की न भांक हिए करम को डांक पिये,  
 ज्ञान दवि रह्यो मिरगांक जैसे घन में ।  
 लोचन की डांक सो न मानें सद्गुरु हांक,  
 डोले मूढ़ रंक सो निशंक तिहूपन में ॥  
 टंक एक मांस की डली सी तामे तीन फांक,  
 तीन को सो आंक लिखि रख्यो कहूँ तनमे ।



तासों कहे नांक ताके राखने को करे कांक,  
 लांक सो खड़ग बांधि बाँक धरे मन में ॥  
 काँच बाधै शिरसों सुमणि बाँधे पाँयनि सो,  
 जाने न गँवार कैसा मणि कैसा काँच है ।  
 धाँही मूढ भूठ में मगन भूठ ही को दौरे,  
 भूठ वात माने पै न जाने कहा साँच है ॥  
 मणि को परखि जाने जौहरी जगत माहीं,  
 साँच की समझ ज्ञान-लोचन की जांच है ।  
 जहाँ को जुवासी सो तो तहाँ को मरम जाने,  
 जापे जैसो स्वांग तापे तैसे रूप नाच है ॥

( ६ )

राग-विलावल ।

ऐसैं क्यों प्रभु पाइये, सुन मूरख प्राणी ।  
 जैसैं निरख मरीचिका, मृग मानत पानी । ऐसैं० ॥ १ ॥  
 ज्यों पकवान चुरैलका, विषधारस त्यों ही ।  
 ताके लालच तू फिरै, भ्रम भूलत यों ही । ऐसे० ॥ २ ॥  
 देह अपावन खेटकी, अपको करि मानी ।  
 भाषा मनसा करसकी, तैं निजकर जानी । ऐसैं० ॥ ३ ॥  
 नाव कहावति लोककी, सो तौ नहीं भूलै ।  
 जाति जगतकी कलषना, तामें तू भूलै । ऐसैं० ॥ ४ ॥  
 भाटी मूमि पहारकी, तुह संपति सूझै ।

प्रगट पहैली मोहकी, तू तऊ न वूझै । ऐसै० ॥ ५ ॥  
तैं कबहू निज गुनविपै, निजदृष्टि न दीनी ।

पराधीन परवस्तुसों, अपनायत कीनी, ऐसै० ॥ ६ ॥  
ज्यों मृगनाभि सुवास सों, दूढ़त वन दौरै ।

त्यों तुझमें तेरा धनी, तू खोजत औरै, ऐसै० ॥ ७ ॥  
करता भरता भोगता, घट सो घटमाहीं ।

ज्ञान विना सद्गुरु विना, तू समुझत नाहीं, ऐसै० ॥ ८ ॥

( ७ )

राग-विलावल

ऐसैँ यों प्रभु पाइये, सुन पंडित प्राणी ।

ज्यों मथि माखन काढिये, दधि भेलि मथानी, ऐसैँ० ॥ १ ॥  
ज्यों रसलीन रसायनी, रसरीति अराधै ।

त्यों घट में परमारथी, परमारथ साधै, ऐसैँ० ॥ २ ॥  
जैसे वैद्य विथा लहै, गुण दोष विचारै ।

तैसे पंडित पिंडकी, रचना निरवारै, ऐसैँ० ॥ ३ ॥  
पिंडस्वरूप अचेत है, प्रभुरूप न कोई ।

जानै मानै रवि रहै, घट व्यापक सोई ऐसैँ० ॥ ४ ॥  
चेतन लच्छन है धनी, जड लच्छन काया ।

चंचल लच्छन चित्त है, भ्रम लच्छन माया, ऐसैँ ॥ ५ ॥  
लच्छन भेद विलेच्छकों, सु विलच्छन वेदै,

सत्तरूप हिये धरै, भ्रमरूप उछेदै, ऐसैँ० ॥ ६ ॥

ज्यों रजसोधै न्यारिया, धनसौ मनकी लै ।

त्यो मुनिकर्म बिपाकमें, अपने रस भीलै, ऐसै० ॥ ७ ॥

आप लखै जब आपको, दुविधापद मेटै ।

सेवक साहिव एक हैं, तब को किहि भेटै ? ऐसै० ॥ ८ ॥

( ८ )

राग—आसावरी ।

तू आतम गुन जानि रे जानि,

साधु वचन मनि आनि रे आनि, तू आतम० ॥ १ ॥

भरत चक्रपति षटखंड साधि,

भावना भावति लही समाधि, तू आतम० ॥ २ ॥

प्रसनचंद्ररिषि भयो सरोष,

मन फेरत फिर पायो मोष, तू आतम० ॥ ३ ॥

रावन समकित भयो उदोत,

तव बांध्यो तीर्थकर गोत, तू आतम० ॥ ४ ॥

सुकल ध्यान धरि गयो सुकुमाल,

पहुंच्यो पचमगति तिहँ काल, तू आतम० ॥ ५ ॥

दिढ प्रहारकरि हिंसाचार,

गये मुकति निजगुण अवधार, तू आतम० ॥ ६ ॥

देखहु परतछ भृंगी ध्यान,

करत कीट भयो ताहि समान, तू आतम० ॥ ७ ॥

कहत बनारसि वारंवार,

और न तोहि छुडावनहार, तू आतम० ॥ ८ ॥

( ६ )

राग—आसावरी ।

रे मन । कर सदा सन्तोष,

जातै मिटत सब दुखदोष, रे मन० ॥ १ ॥

बढत परिग्रह मोह बाढत, अधिक तृपना होति ।

बहुत इंधन जरत जैसेँ, अगनि ऊंची जोति, रे मन ॥ २ ॥

लोभ लालच मूढजनसो, कहत कंचन दान ।

फिरत आरत नहिं विचारत, धरम धनकी हान, रे मन० ॥ ३ ॥

नारकिन के पाइ सेवत, सकुच मानत संक ।

ज्ञानकरि ब्रूमै 'वनारसि' को नृपति को रंक, रे मन० ॥ ४ ॥

( १० )

राग—बरवा ।

बालम तुहुँ तन चितवन गागरि फूटि ।

अचरा गौ फहराय सरम गै छूटि, बालम ॥ १ ॥

हूं तिक रहूँ जे सजनी रजनी घोर ।

घर करकेउ न जानै चहुदिसि चोर, बा० ॥ २ ॥

पिउ सुधियावत वनमें पैसिउ पेलि ।

छाडउ राज डगरिया भयउ अकेलि, बा० ॥ ३ ॥

संवरो सारदसामिनि औ गुरु भान ।

कछु बलमा परमारथ करौ बखान, बा० ॥ ४ ॥

काय नगरिया भीतर चेतन भूप ।

करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, बा० ॥ ५ ॥

दर्शन ज्ञान चरणमय चेतन सोय ।  
 पियरा गरुव सचीकन कचन होय, बा० ॥ ६ ॥  
 चेतन चित अवधार सुगुरु उपदेश ।  
 कछु इक जागलि ज्योति ज्ञान गुन लेस, बा० ॥ ७ ॥  
 अथिररूप सब देखिसि छिन वैराग ।  
 चेतन आपुहि आप बुभावै लाग बा० ॥ ८ ॥  
 चेतन तुहु जनि सोवहु नींद अघोर ।  
 चार-चोर घर मूंसहि सरवस तोर, बा० ॥ ९ ॥  
 चेतन तुहु वनसावज कोलकिरात ।  
 निसिदिन करै अहेर अचानक घात, बा० ॥ १० ॥  
 चेतनहो तुहु चेतहु परम पुनीत ।  
 तजहु कनक अरु कामिनी होहु नचीत, बा० ॥ ११ ॥  
 परेहु करमवस चेतन ज्यो नटकीस ।  
 कोउ न तोर सहाय छाडि जगदीस, बा० ॥ १२ ॥  
 चेतन बूझि विचार धरहु सन्तोष ।  
 राग दोष दुइ बंधन छूटत मोष, बा० ॥ १३ ॥  
 मोहजाल मे चेतन सव जग जानि ।  
 तुहु कुंवाज तुहु वामहु सकत भुलान, बा० ॥ १४ ॥  
 चेतन भयेहु अचेतन सगति पाय ।  
 चकमक में आगी देखी नहिं जाय, बा० ॥ १५ ॥  
 चेतन तुहि लपटात प्रेमरस फांद ।  
 जस राखल धन तोपि विमलनिशिचांद, बा० ॥ १६ ॥

चेतन तोहि न भूल नरक दुख वास ।  
 अगनि थंभ तरुसरिता करवत पास, वा० ॥ १७ ॥  
 चेतन जो तुहि तिरजग जोनि फिराउ ।  
 बांध पांच ठग वेग तोर अब दाउ, वा० ॥ १८ ॥  
 देवजोनि सुख चेतन सुरग वसेर ।  
 ज्यों विन नीव धौरहर खसत न वेर, वा० ॥ १९ ॥  
 चेतन नर तन पाय बोध नहि तोहि ।  
 पुनि तुहु का गति होइहि अचरज मोहि, वा० ॥ २० ॥  
 आदि निगोद निकेतन चेतन तोर ।  
 भव अनेक फिरि आयेहु कतहु न ओर, वा० ॥ २१ ॥  
 विषय महारस चेतन विष समतूल ।  
 छाडहु वेगि विचारि पापतरुमूल, वा० ॥ २२ ॥  
 गरभवाम तुहुं चेतन ऊरध पांच ।  
 सो दुख देख विचार धरमचित लाव, वा० ॥ २३ ॥  
 चेतन यह भवसागर धरम जिहाज ।  
 तिह चढ वैठो छोड लोककी लाज, वा० ॥ २४ ॥  
 दह या दुहु अब चेतन होहु उचाट ।  
 कह या जाउ मुक्तिपुरि संजम वाट, वा० ॥ २५ ॥  
 उधवागाय सुनायेहु चेतन चेत ।  
 कहत 'वनारसि' थान नरोत्तम हेत, वा० ॥ २६ ॥

( ११ )

राग—धनाश्री-

चेतन उलटी-चाल चले, जड़संगततै-जड़ता-व्यापी निज  
गुन-सकल टले, चेतन० टेक ॥ १ ॥ हितसों-विरचिठगनिसों राचे,  
मोह-पिसाच छले । हँसि-हँसि-फंद सवारि आप ही, मेलत  
आप गले, चेतन० ॥ २ ॥ आये निकसि-निगोद-सिंधुतें, फिर तिह  
पंथ टले । कैसें परगट होय आग-जो-दबी पहारतले, चेतन० ॥ ३ ॥  
भूले भवभ्रम बीचि 'बनारसि' तुम् सुरज्ञान भले । धर शुभध्यान  
ज्ञाननौका चढि, बैठे-ते निकले, चेतन० ॥ ४ ॥

( १२ )

राग—रागवना श्री-

चेतन-तोहि-न नेक-संभार, नख सिखलों-दिढबंधन वेढ़े  
कौन करै-निरवास, चेतन० ॥ १ ॥ जैसें आग पषान-काठ में  
लखिय न परत-लगार । मदिरापान करत मतचारो, ताहि न कछू  
विचार, चेतन० ॥ २ ॥ ज्यों गजराज-पत्तार आप तन, आप हि  
डारत छार । आप हि उगलि पाटको कीरा, तनहि लपेटत-तार  
चेतन० ॥ ३ ॥ सहज कबूतर लोटनको सो, खुले न पेच अपार ।  
और सपाय न वनै 'बनारसि' सुमरन-भजन अधार, चेतन० ॥ ४ ॥

( १३ )

राग—सारग-

दुविधा कब-जै है या मनकी-दु० । कब निजनाथ-निरजन  
सुमिरों, तज-सेवा जन-जनकी, दुविधा० ॥ १ ॥ कब-रुचिसौ

पीरै टगचातक, वूंद अखयपद घनकी । कव शुभध्यान, धरौं  
समता गहि, करूं न ममता तनकी, दुविधा० ॥ २ ॥ कव घट  
अंतर रहै निरन्तर, दिडता सुगुरु वचनकी । कव सुख लहौ भेद  
परमारथ, मिटै धारना धनकी, दुविधा० ॥ ३ ॥ कव घर छाँड़  
होहुं एकाकी, लिये लालसा बनकी । ऐसी दरा होय कव मेरी,  
हौं बलिवलि वा छनकी, दुविधा० ॥ ४ ॥

( १४ )

राग—सारंग ।

हम बैठे अपनी मौनसौं, दिन दशके महिमान जगत जन  
बोली विगारै कोनसौ, हन वंठे० ॥ १ ॥ गये विलाय भरम के  
वादर, परमारथपथपौनसौं । अब अंतरगति भई हमारी, परचे  
राधारौनसौं, हम बैठे० ॥ २ ॥ प्रघटी सुधापानकी महिमा, मन  
नहिं लागै वौनसौं । छिन न सुहायँ और रस फीके, रुचि साहिव  
के लौनसौ, हम बैठे० ॥ ३ ॥ रहे अघाय पाय सुखसपति को  
निकसै निज भौनसौ । सहज भाव सदगुरुकी संगति, सुरमै  
आवागौनसौं, हम बैठे० ॥ ४ ॥

( १५ )

राग—सारंग वृंदावनी ।

नगत मे सो देवनको देव । जासु चरन परसै इन्द्रादिक  
होय मुक्ति स्वयमेव, जगतमें ॥ १ ॥ जो न छुधित न तृपित न  
भयाकुल, इन्द्रीविषय न वेव । जनम न होय जरा नहिं व्यापै,  
मिटी मरनकी टेव, जगतमे ॥ २ ॥ जाकै नहिं विपाद नहिं विस्मय,



नहिं आठों श्रहमेव । राग विरोध मोह नहिं जाकै, नहिं निद्रा  
परसेव, जगतमें० ॥ ३ ॥ नहिं तन रोग न श्रम नहिं चिंता,  
दोष अठारह भेव । मिटे सहज जाके ता प्रभुकी, करत 'बनारसि'  
सेव, जगतमें० ॥ ४ ॥

( १६ )

राग-सारंग वृंदावनी ।

विराजै "रामायण" घटमाहिं । मरमी होय मरम सो जानै,  
मूरख मानै नाहिं, विराजै रामायण० ॥ १ ॥ आतम "राम" ज्ञान  
गुन 'लङ्घमन' सीता सुमति समेत । शुभपयोग "वानरदल"  
महित, वर विवेक "रणखेत" विराजै० ॥ २ ॥ ध्यान 'धनुष टंकार'  
शोर सुनि, गई विषयदिति भाग । भई भस्म मिध्यामत 'लका'  
उठी धारणा 'आग' विराजै० ॥ ३ ॥ जरे अज्ञान भाव 'राक्षसकुल'  
लरे निकांडित 'सूर' । जूझे रागद्वेष सेनापति संसै 'गढ' चकचूर,  
विराजै० ॥ ४ ॥ बलखत 'कुंभकरण' भवविभ्रम, पुलकित मन  
'दरयाव' । थकित उदार वीर 'महिरावण' 'सेतुबंध' समभाव,  
विराजै० ॥ ५ ॥ मूर्छित 'मंदोदरी' दुराशा, सजग चरन 'हनुमान' ।  
घटी चतुर्गति परणति 'सेना,' छुटे छपकगुण 'बान,' विराजै०  
॥ ६ ॥ निरखि सकति गुन 'चक्रसुदर्शन' उदय 'विभीषण' दीन ।  
फिरै 'कवध' मही 'रावणकी' प्राणभाव शिरहीन, विराजै० ॥ ७ ॥  
इह विधि सकल साधुघट अंतर, होय सहज 'संग्राम' । यह विव-  
हारदृष्टि 'रामायण,' केवल निश्चय 'राम' विराजै० ॥ ८ ॥

( १७ )

आलाप दोहा ।

जो दातार दयाल हूँ, देय दीनको भीख ।  
 त्यों गुरु कौमल भावसौ, कहै मूढको सीख ॥ १ ॥  
 सुगुरु उचारै मूढसौ, चेत चेत चित चेत ।  
 समुझ समुझ गुरुको शब्द, यह तेरो हित हेत ॥ २ ॥  
 शुक सारी समुझै शब्द, समुझि न भूलहि रंच ।  
 तू मूरति नारायणी, वे तो खग तिरजंच ॥ ३ ॥  
 होय जोंहरी जगतमें, घटकी आखें खोलि ।  
 तुला सँवार विवेककी, शब्द जवाहिर तोलि ॥ ४ ॥  
 शब्द जवाहिर शब्द गुरु, शब्द ब्रह्मको खोज ।  
 सब गुण गर्भित शब्दमें, समुझ शब्दकी चोज ॥ ५ ॥  
 समुझ सकै तो समुझ अब, है दुर्लभ नर देह ।  
 फिर यह संगति कव मिलै, तू चातक हौ मेह ॥ ६ ॥

( १८ )

राग-गौरी ।

भौदू भाई ! समुझ शब्द यह मेरा, जो तू देखै इन आँखि-  
 नसौ तामे कछू न तेरा भौदू० ॥ १ ॥ ए आँखें भ्रमहीसौ उपजी,  
 भ्रमही के रस पागी । जहँ जहँ भ्रम तहँ तहँ इनको श्रम, तू  
 इनही को रागी, भौदू भाई० ॥ २ ॥ ए आँखें दोउ रची चामकी,  
 चाम हि चाम विलोचै । ताकी ओट मोह निद्रा जुत, सुपनरूप तू  
 भौदू भाई० ॥ ३ ॥ इन आँखिनको कौन भरोसो, ए विनसै

छिन माहीं । है इनको पुद्गलसौ परचै, तू तो पुद्गल नाहों, भौदू  
भाई० ॥ ४ ॥ पराधीन बल इन आंखिनको, विनु प्रकाश न सूझै ।  
सो परकाश अगनि रवि शशिको, तू अपनों कर बूझै, भौदू  
भाई० ॥ ५ ॥ खुले पलक ए कछुइक देखहिं, मुंदे पलक नहिं  
सोऊ । कबहुं जांहिं होंहि फिर कबहुं, भ्रामक आँखै दोऊ, भौदू  
भाई० ॥ ६ ॥ जंगमकाय पाय ए प्रगटै, नहिं थावर के साथी ।  
तू तो इन्हें मान अपने दृग, भयो भीमको हाथी, भौदूभाई० ॥ ७ ॥  
तेरे दृग मुद्रित घट अतर, अन्धरूप तू डोलै । कै तो सहज खुलै  
वे आँखैं, कै गुरु संगति खोलै, भौदू भाई । समुझ शब्द यह  
मेरा ॥ ८ ॥

( १६ )

राग-गौरी ।

भौदू भाई देखिहिये की आँखै, जे करपै अपनी सुख  
संपति भ्रमकी संपति नाखैं, भौदू भाई ॥ १ ॥ जे आँखै अमृतरस  
वरखै, परखै केवलिवानी । जिन्ह आखिन विलोकि परमारथ, होंहि  
कृतारथ प्राणी, भौदू भाई० ॥ २ ॥ जिन आंखिनहिं दशा केवलिकी  
कर्मलेप नहिं लागै । जिन आंखिन के प्रगट होत घट, अलख  
निरंजने जागै, भौदू भाई० ॥ ३ ॥ जिन आंखिनसौ निरखि भेद  
गुन, ज्ञानी ज्ञान विचारै । जिन आंखिनसौं लखि स्वरूप मुनि,  
ध्यानधारणा धारै, भौदू भाई ॥ ४ ॥ जिन आंखिनके जगे जगतके,  
लगै काज सब भूठे । जिनसौ गमन होइ शिवसनमुख, विषय  
विकार अपूठे, भौदू भाई० ॥ ५ ॥ जिन आंखिनमें प्रभा परमकी,

परसहाय नहिं लेखै । जे समाधिसौ तकै अखंडित, डकै न पलक  
निमेखै, भौंदू भाई० ॥ ६ ॥ जिन आंखिनकी ज्योति प्रगटिकै,  
इन आंखिनमें भासै । तव इनहूकी मिटै विपमता, समता रस पर  
गासै, भौंदू भाई० ॥ ७ ॥ जे आंखैं पूरनस्वरूप धरि, लोकालोक  
लेखावै । अब यह यह सब विकल्प तजिकै, निरविकल्प पदपावै  
भौंदू भाई० ॥ ८ ॥

( २० )

राग-काफी ।

तू भ्रम भूल ना रे प्राणी, तू० धमे विसारि विषयसुख  
सेवत, वे मति हीन अज्ञानी, तू भ्रम० ॥ १ ॥ तन धन सुत जन  
जीवन जोवन, डाम अनी ज्यों पानी, तू भ्रम० ॥ २ ॥ देख  
दगा परतच्छ 'वनारसि' ना कर होइ विरानी, तू भ्रम० ॥ ३ ॥

( २१ )

राग-काफी ।

चिन्तामन स्वामी सांचा साहिव मेरा, शोक हरै तिहुं लोकको,  
उठ लीजतु नाम सवेरा, चिन्तामन० ॥ १ ॥ सूरसमान उदोत है,  
जग तेज प्रताप घनेरा । देखत मूरत भावसौं, मिट जात मिथ्यात  
अंवेरा, चिन्तामन स्वामी० ॥ २ ॥ दीनदयाल निवारिये, दुख  
संकट जोनि वसेरा । मोहि अभयपद दीजिये, फिर होय- नहीं  
भवफेरा, चिन्तामन० ॥ ३ ॥ विव विराजत आगरे, थिर थान  
थयो शुभवेरा । ध्यान धरै विनती करै, 'वनारसि' वंदा तेरा,  
चिन्तामन० ॥ ४ ॥

इति श्रव्यातमपदपत्रित ।

## अथ परमारथहिंडोलना लिख्यते ।

सहज हिंडना हरख हिंडोलना, मुक्त चेतनराव ।  
 जहाँ धर्म कर्म सँजोग उपजत, 'रस' स्वभाव विभाव ॥ टेक ॥  
 जहँ सुमनरूप अनूप मंदिर, सुरुचि भूमि सुरंग ।  
 तहँ ज्ञान दर्शन खंभ अविचल, चरन आड अभग ॥  
 मरुवा सुगुन परजाय विचरन, भौर विमल विवेक ।  
 व्यवहार निश्चय नय सुदंडी, सुमति पटली एक । सहज० ॥ १ ॥  
 पट कील जहां षडद्रव्य निर्णय, अभय अग अडोल ।  
 उद्यम उदय मिलि देहिं भोटा, शुभ अशुभ कल्लोल ॥  
 सवेग संवर निकट सेवक, विरत बीरे देत ।  
 आनंदवंद सुछंद साहिब, सुख समाधि समेत, सहजहि ॥ २ ॥  
 जहँ खिपक उपशम चमर ढारइ, धर्म ध्यान वजीर ।  
 आगम अध्यातम अगारक्षक, शान्तरस वरवीर ॥  
 गुनथान विधि दश चार विद्या, शक्तिनिधिविस्तार ।  
 सतोष मित्र खवास धीरज, सुजस खिजमतगार, सहज० ॥ ३ ॥  
 धारना समिता क्षमा करुणा, चारसखि चहुँ ओर ।  
 निर्जरा दोऊ चतुरदासी, करहिं खिजमत जोर ॥  
 जहँ विनय मिलि सातों सुहागनि, करत धुनि भनकार ।  
 गुरुवचनराग सिद्धान्तधुरपद, ताल अरथ विचार, सहज० ॥ ४ ॥  
 अहहन सांची मेघमाला, दाम गर्जत घोर ।  
 उपदेश वर्षा अति मनोहर, भविक चातक मोर ॥

अनुभूति दामनी दमक दीसै, शील शीत समीर ।  
 तप भेद तपत उच्छेद परगट, भावरगत चीर, सहज० ॥ ५ ॥  
 कवहूँ असंख प्रदेश पूरन, करत वस्तु समाल ।  
 कवहूँ विचारै कर्म प्रकृती, एकसौ अङ्गताल ॥  
 कवहूँ अबंध अदीन अशरन, लखत आपहि आप ।  
 कवहूँ निरंजन नाथ मानत, करत सुमरन जाप, सहज० ॥ ६ ॥  
 कवहूँ गुनि गुन एक जानत, नियत नय निरधार ।  
 कवहूँ सुकरता करम किरिया, कहत विधि व्यवहार ॥  
 कवहूँ अनादि अनत चिंतित, कवहुं करहि उपाधि ।  
 कवहूँ सु आतम गुणसँभारत, कवहुं सिद्ध समाधि, सहज० ॥ ७ ॥  
 उहिभाति सहज हिंडोल भूलत, करत आतम काज ।  
 भवतरनतारन दुखनिवारन, सकल मुनिसिरताज ॥  
 जो नर विचच्छन सदयलच्छन, करत ज्ञानविलास ।  
 करजार भगति विशेष विधिसौं, नमंत 'काशीदास' ॥ ८ ॥

इति परमारयहिंडोलना ।

### अष्टपदी मल्हार

देखो भाई ! महाविकल संसारी, दुखित अनादि मोहके  
 कारन, राग द्वेष भ्रम भारी, देखो भाई महाविकल संसारी ॥ १ ॥  
 हिंसारंभ करत सुख समुझै, सृषा वोलि चतुराई । परधन हरत  
 समर्थ कहावै, परिग्रह बढत बढाई, देखो भाई० ॥ २ ॥ वचन

राख काया दृढ़ राखैं, मिटै न मनचपलाई । यातै होत औरकी  
 औरै, शुभ करनी दुखदाई, देखो भाई० ॥ ३ ॥ जोगासन करि  
 कर्म निरोधै, आतम दृष्टि न जागै । कथनी कथत महंत कहावै  
 ममता मूल न त्यागै, देखो भाई० ॥ ४ ॥ आगम वेद सिद्धान्त  
 पाठ सुनि, हिये आठमद आनै । जाति लाभ कुल बल तप विद्या,  
 प्रभुता रूप बखानै, देखो भाई० ॥ ५ ॥ जडसौ राचि परमपद  
 साधै, आतमशक्ति न सूझै । विना विवेक विचार दरबके, गुण  
 परजाय न बूझै, देखो० ॥ ६ ॥ जसवाले जस सुनि सतोषै, तप  
 वाले तन सोषै । गुनवाले परगुनको दोषै, मतवाले मत पोषै,  
 देखो० ॥ ७ ॥ गुरु उपदेश सहज उदयागति, मोहविकलता छूटै ।  
 कहत 'बनारसि' है करुनारसि, अलख अखय निधि लूटै,  
 देखो० ॥ ८ ॥

इत्यष्टपदी मन्हार सम्पूर्ण ।

राग—

मूलन वेटा जायोरे साधो, मूलन० । जानै खोजकुटु व सब खायो  
 रे साधो० मूलन० ॥ टेक ॥ जन्मत माता ममता खाई, मोहलोभ  
 दोइ भाई । कामक्रोध दोइ काका खाये, खाई तृषणादाई, साधो०  
 ॥ १ ॥ प्रापीपापपरोसी खायो, अशुभकरम दोइ मामा । मान नगरको  
 राजा खायो, फैल परो सबगामा, साधो० ॥ २ ॥ दुरमति दादी खाई  
 दादो, मुखदेखत ही मूओ । मंगलाचार बधाये वाजे, जब यो  
 बालक हूओ, साधो० ॥ ३ ॥ नाम धरयो बालकको भोंदू, रूप

वरन कछु नाहीं । नामधरंते पांडे खाये, कहत 'वनारसि' भाई,  
साधो० ॥ ४ ॥

राग—रंगला ।

वा दिनको कर सोच जिय ! मनमें वा दि० टेक ।  
वनज किया व्यापारी तूने, टांडा लादा भारीरे । ओछी पूजी  
जूआ खेला, आखिर वाजी हारीरे ॥ आखिर वाजी हारी, करले  
चलनेकी तय्यारी । इक दिन डेरा होयगा वनमें, वादिन० ॥ १ ॥  
भूँठे नैना उलफत वांधी, किसका खोना किसकी चादी । इकदिन  
पवन चलेगी आंधी, किसकी बीची किसकी वांदी, नाहक चित्त  
लगावै धनमें, वादिन० ॥ २ ॥ मिट्टीसेती मिट्टी मिलियो, पानी से  
पानी । मूरखसेती मूरख मिलियो, ज्ञानी से ज्ञानी । यह मिट्टी है  
तेरे तनमें, वादिन० ॥ ३ ॥ कहत 'वनारसि' सुनि भवि प्राणी,  
यह पद है निरवानारे । जीवन मरन किया सो नाहीं, सिरपर  
काला निशाना रे । सूझ पडेगी बुढापेपनमें वादिन० ॥ ४ ॥

राग—

कित गये पंच किसान हमारे । कित० टेक ॥  
बोयो बीज खेत गयो निरफल, भर गये खाद पनारे । कपटी  
लोगों से साभाकर, .....हुए आप विचारे ॥ १ ॥ आप दिवाना  
गह गह वैठो लिखलिख कागद डारे । वाकी निकसी पकरे  
मुकदम, पांचो होगये न्यारे ॥ २ ॥ रुकगयो कंठ शवद नहिं  
निकसत, हा हा कर्मसों हारे । 'वनारसि' या नगरन वसिये,  
चलगये सीचनहारे ॥ ३ ॥



## दो नये पद

राग रामकली

म्हारे प्रगटे देव निरंजन ।

अटकौ कहा कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रजन ॥ म्हारे ॥१॥

खजन दृग दृग नयनन गाऊं चाऊ चितवत रजन ।

मजन घट अंतर परमात्मा सकल दुरित भय रजन ॥

॥ म्हारे ॥२॥

वोही कामदेव होय काम घट वोही सुधारस मजन ।

और उपाय न मिले वनारसी सकल करमपय खजन ॥

॥ म्हारे ॥३॥

राग आसावरी

साधो लीज्यो सुमति अकेली जाके समता संग सहेली ॥ साधो० ॥

ये है सात नरक दुख हारी, तेरे तीन रतन सुभकारी ।

ये है अष्ट महा मद त्यागी, तजे सात व्यसन अनुरागी ॥

॥ साधो० ॥१॥

तजे क्रोध कषाय निजानी, ये है मुक्तिपुरी की रानी ।

ये है मोहस्यों नेह निवारै, तजे लोभ जगत उधारै ॥

॥ साधो० ॥२॥

ये है दर्शन निरमल कारी, गुरु ज्ञान सदा सुभकारी ।

कहै वनारसी श्री जिन भजिलै, यह मति है सुखकारी ॥

॥ साधो० ॥३॥

## बनारसीविलास के संग्रहकर्ता

नगर आगरेमें अगरवाल आगरो जो,  
गगे गोत आगरेमें नागर नवलसा ।  
संघवी प्रसिद्ध अभैराज राजमान नीके,  
पंच बाला नलनिमें भयो है कंवलसा ॥

ताके परसिद्ध लघु मोहनदे संघइन,  
जाके जिनमारग विराजत धवलसा ।  
ताहीको सपूत जगजीवन सुदिठ जैन,  
बानारसी वैन जाके हिये मे सबलसा ।

समै जोग पाइ जगजीवन विख्यात भयो,  
ज्ञानिन की मंडलीमें जिसको विकास है ।  
तिननं विचार कीना नाटक बनारसी का,  
आपुके निहारिवे को आरसी प्रकाश है ॥

और काव्य घनी खरी करी है बनारसी ने,  
सो भी क्रमसे एकत्र किये ज्ञान भास है ।  
ऐसी जानि एक ठौर, कीनी सब भाषा जोर,  
ताको नाम धरयो यो बनारसीविलास है ॥

दोहा

सत्रहसै एकोत्तरै, समय चैत्र सित पाख ।  
द्वितियामें पूरन भई, यह बनारसी भाख ॥

इति श्री कविवर बनारसीदासकृत बनारसी विलास समाप्त ।

## टिप्पणियां एवं पाठभेद

[ यहाँ इस ग्रंथ के कठिन स्थलों की टिप्पणियां एवं अर्थ दिये जाते हैं ।  
अथ के मूल शब्दों के आगे जो शब्द कोष्ठक में दिये गये हैं वे पाठान्तर हैं ।  
टिप्पणियां एवं अर्थ पाठान्तरों की नहीं हैं, किन्तु मुद्रित पाठों की हैं । कई  
स्थानों पर केवल पाठ भेद ही देदिये गये हैं—उनके अर्थ देने की जरूरत नहीं  
समझी गई । ग्रंथ का अध्ययन करते समय पाठकों के ये अर्थ और  
पाठान्तर जरूर देखलेना चाहिए । —सम्पादक ]

पृ० २—वचनिका—गाद्य । विरधौ—बड़ो । लग ( लौ )—तक ।

पृ० ३—करहुँ ( करि, करौ )—करके । ब्रह्म—भगवान । परमान  
( परवाण )—अवधि । द्विरुक्ति ( दुरुक्ति )—दो बार कहना । क्षमी  
( छमी )—क्षमावान । परमान ( परवान ) प्रमाण स्वरूप । निर्वाण  
( निरवान )—मुक्ति स्वरूप ।

पृ० ४—पुण्डरीकवत हंस ( पुण्डरीकवनहंस ) । दुराराध्य  
( दुराराधि )—कठिनता से आराधना करने योग्य ।

पृ० ५—नित्यानन्द विमल निरुजान ( नित्यानित्य विमल  
निरुडान ) ( नित्यानन्द विमल निरुडान ) ( नित्यानित्य  
विमल निरुमान ) । बोध निधान ( बोध विधान ) ( बोध  
वितान )—ज्ञान का खजाना । गुणमय ( गुणधन ) । स्वपर प्रकाशक  
( सुपर प्रकाशक )—अपने और दूसरे के प्रकाश करने वाले ।

गुणग्रह (गुणगृह)-गुणों के घर । चिन्तामणि ( चिन्तामयि )-एक प्रकार का रत्न जो चिन्तवन करते ही सब कुछ देदे । चिन्मय ( चिन्मृप ) ( चिन्मुख )-चैतन्य मय । चारित्रधाम ( चारित्रधार )-चारित्र का स्थान । निर्मम ( निर्मन)-ममत्त्व रहित ।

पृ० ६-अवक ( अवंक )-सरल । प्रपु ज. ( प्रजुंज ) ( प्रभुंज )-समूह । विमुक्त ( विमुक्त )-कर्म रहित । छपाकरोपम ( छपाकरोद्धम )-चन्द्रमाके समान । कृतयज्ञ ( कृतजग्य )-जो उपासना कर चुका है । लुप्तभद्र ( लुप्तभद्र )-जिसका शरीर नष्ट होगया है । धीरस्व ( धीरस्थ ) धीर है आत्मा जिनका । शिलीद्रूम ( शीलद्रूम )-शीलवृक्ष । उद्योतवान ( उद्योतवान )-प्रकाशवाले ।

पृ० ७-दुर्गम्य ( दुर्गम )-जो कठिनता से जाने जा सकते हैं । दयार्णव ( दयारनव )-दया के समुद्र । महर्षि ( महारिषि )-महामुनि । परमेश्वर ( परमेशुर ) । परमऋषि , परमरसी ( परमरिसी ) । परममुद्र ( करममुद्र ) ( सुखकरसमुद्र )-उत्कृष्ट स्थितिवाले । अशेष ( अभेष )-पूर्णता स्वरूप । निर्द्वन्दी ( निरदुन्दी )-रागद्वेष रहित । निरवशेष ( निर विशेष )-पूर्ण । बुधि नायक ( बुधनायक )-बुद्धि के नेता । मोक्षस्वरूपी ( मोक्षस्वरूपी ) । महाज्ञानि ( महाजानि )-विशाल ज्ञान वाले । कमला समूह ( करुणा समूह )-लक्ष्मी के पुंज ।

पृ० ८-मारविहंडन ( मानविहंडन ) कामका नाश करने वाले । द्रव्यस्वरूप ( दरवस्वरूप ) नित्य । पद्म ( पटुम ) उष्ण-कमल के समान । महायशवंत ( महाजशवंत )-अत्यंत यशस्वी । संकट

निवारण ( कंटक निवारण )—संकटों के नाशक ।

पृ० ६—व्यतीत भय ( वित्तीत भय ) भय रहित । कुशला ( कुशली )—प्रचीण ।

पृ० १०—लक्ष्मीपति ( लक्ष्मिमापति ) ( लक्ष्मिमीपति )—अनन्त चतुष्टय लक्ष्मी के स्वामी । मिथ्यादलन ( विथादलन )—असत्य के विनाशक । घटातीत ( घटानीत )—घटनाओं से रहित । विषारी ( विचारी )—विष को दूर करने वाले । व्यवहारी ( विवहारी )—असंख्य प्रदेशी ( असंख्य प्रदेशी ) । निर्मल ( निरमल ) ।

पृ० ११—द्वंद्व विदारण ( दुंद निवारण )—दुविधा के विनाशक । सब विधिब्यापी ( सर्व विद्यापी )—हर जगह मिलने वाले ।

पृ० १२—विज्ञानी ( विनानी )—जानने वाले । निग्रंथी ( निग्रंथी )—परिग्रह रहित । यंत्रदाहक ( यंत्रदोहत ) ( यत्र दाहन )—शरीर को नष्ट करने वाले । भ्रम विध्वंसी ( भ्रम विधंसी )—भ्रम को दूर करने वाले । चिदंक्रित ( चिदंकृत )—चैतन्यलक्षण । ज्योतीश्वर ( ज्योतीसुर )—प्रभ के स्वामी । अनग ( असंग )—कामरहित ।

पृ० १३—शांति करन ( सति करन ) । धृतशान्ति ( धृतसंति ) । कान्ति ( कंति ) । अशंक ( असंख ) । असोग ( असोक ) । विधान ( निधान ) । अक्षय निधान ( अखतनिधान ) ।

पृ० १४—सुगुण ( सगुण ) । विश्व ( वैश्व ) । वित्त ( विलास ) ( पवित्त ) । शुद्धोधन ( सौधोदनि )—बुद्ध । बंधु ( बंध ) । महदंग ( नहदंग ) ( महदर्ग ) । निराथिय ( निराधिप ) ।

पृ० १५—महास्वामि ( महस्वामि ) । महदर्थ ( महदर्थ ) । गुणागार ( गुणाकार ) । महारसंग ( महारस रंग ) । कलिग्राम ( कलग्राम ) । वेल ( मोड़ ) । त्रिगुणी ( त्रिगुण ) । त्रिकालदर्शी सदा ( त्रिकालदरशी दशा ) मनमथमथन ( मनमथदहन -काम को मथन करनेवाले ।

पृ० १६—ब्रह्मांड ( ब्रह्मंड )-सम्पूर्ण विश्व । मोपर ( मोपै, -मुक्षपर ।

### सूक्तिमुक्तावली

पृ० १७—कातार ( कन्तार )-वन । हुतासन-आग ।

पृ० १८—परिमल-सुगन्ध । रसाल-रसिक ।

पृ० १९—हींडत-(हंडत) धूमते हुए । वादि-व्यर्थ । वाहित ( वाहित ) ( वोहित )-बड़ी नौका । त्यों यह दुर्लभ देह बनारसि ( त्यों नरदेह दुर्लभ बनारसि ) ।

पृ० २१—पूजहु ( पुजहि )-पूजो । गुरु नमहु ( गुरु नमहि ) । बखानहु ( बखानहि ) । चहहु ( चहहि )-चाहते हो । आये-प्राप्त करवाती है । नित देह ( नरदेह ) ।

पृ० २२—खंड पति-अपनी स्त्री से विरक्ति रखने वाला पति । सा सब ( ते सब ) ।

पृ० २३—सुरनि नैन-देवांगनाओं की आंखों से । करहि ( करंत )-करते हैं ।

पृ० २४—सुखकारन ( सुख कामिनि ) । पीके-प्रियजन के ।

पृ० २५—वृक्ष—समझते ।

पृ० २६—गुण रु औगुण नहीं जानहि ( गूढ गुण अगुण न जानहि ) । अवेवहि—जानते । अमृतकहं, (अमृत कुं -अमृत को । नीरकहं ( नीरकुं )-जल को । मित्रकहं ( मित्रकुं )-मित्र को ।

पृ० २७—कहिं ( कुं )-को । तुल्लहिं-समझते हैं । भुल्लहिं-भूलते हैं । अपत-निर्लज्ज । रोहण शिखर-एक पर्वत जिसन रत्न उत्पन्न होते हैं ।

पृ० २८—गुणमंदिर ( गुणमंडित )-गुणों के स्थान । शुचि-पवित्र । जंगम-चलता हुआ । तीरथ-संसार से तैरने का उपाय । गुणरास ( गुणरासि ) ।

पृ० २९—जंपन-बोलना, कहना । पयार-पयालु खाखला पृला । खान ( खानि ) । आली-सखी ।

पृ० ३०—लेखिए ( पेखिए ) । अरविन्द-कमल । सूर-सूरज । अंथवत-आंथना ।

पृ० ३१—कालकूट-जहर । जीवन ( जीवत ) बाढत रसांस-अजीर्ण बढते हुए । चित्तदया ( चित्तदयाल ) । तिनके रुख-उनके लिए ।

पृ० ३२—आराम-बाग । मीत-मित्र । तोय-जल । रवि-सूरज । विचक्षण-विवेकी ।

पृ० ३३—कुरंग-हरिण । व्याल-सांप । पिशूष-अमृत । अहिफन-सांप का फण । सत्यवादी के दरस तै, ( सत्यवादी दरशन तै ) ।

पृ० ३४—विसरै (विस्तरै)—फैले ।

पृ० ३५—गोपहि ( गोपै )—छिपाना । विलोपहि, ( विलोपै ) नाश करना । लोरहि-लिपटना । उपाध-भगड़े ।

पृ० ३६—मलान-मैला । दलमलहिं ( दलमलै ) वोरै—डुबोवै ।

पृ० ३७—भालै—भलि भाति देखना । खंडमित-टुकड़े जितना । किलसै—क्लेश को प्राप्त करवाना । तनथूल-मोटा शरीर ।

पृ० ३८—समतूल-समान । गयन्द-गजेन्द्र । अघायवेको-सतुष्ट करनेको । नीतनयनीरज-नीति और न्याय रूपी कमल ।

पृ० ३९—बालहित-वचन वा मित्र । विलासवन-क्रीडाक्षेत्र । दुरित-पाप । कलहनिकेत-कलह का घर । गवेषी-खोजनेवाला । याही-याकी ।

पृ० ४०—मनहु—मानों । असित-काला । दवदान-अग्नि के देने के समान । तिहि ( तहं )—उसको ।

पृ० ४१—यश—( जश ) । दुरवैत-खोटे वचन । समुच्चरन ( समुधरन )—बोलना । आवरहि-ढकता है । नाग-हाथी । विहंडहि-तोडता है । धूपमहँ ( धूपगह )—गर्मी में । गोप-ढकना ।

पृ० ४२—सरिता-नदी । गुणग्राम-गुणों का समूह । वधबुद्धि-हिंसा का भाव । पटंतर-समान । सर्वज्ञ किशोर-सम्यग्दृष्टि । वेद-शास्त्र ।



पृ० ४३—भीर—भीड । मातंग-हाथो । नीन-नीति ।

पृ० ४४—कुशल-पुण्य । जनन को-(जनन कहँ)-उत्पन्न करने के लिए । शमवारिज-शांति रूपी कमल । उपाय ( उपाउ ) । बंचहि-ठगता है ।

प० ४५--एम-इसतरह । मुगध-भोला ।

पृ० ४६—पंथगाहे-रास्ता पकडता है । विराम-विश्राम । अनारज-अनार्य निकृष्ट । धाराधर-बादल । कुंभनंद-अगस्त्य ऋषि जो सारे समुद्र को पीगया था । जनन को-उत्पत्ति के लिए । अराणि-वांस । दारु-लकडी । भूरुह-वृक्ष । कंद-मूल । निशिमणि-चांद । कलाप-समूह । गयन्द-हाधी । कैलिभौन-क्रीडागृह । याहू ( याही ) । विपाक-फल ।

पृ० ४७—दुरित अंवर-पापरूपी आकाश । गति धारहि-गति-धारण करता है । विथारहि-फैलाना बिखेरना । फलंग-अग्निकण । काडहि ( कडू ) निकालती है । वाडहि ( बडू ) बढता है । उज्झहि-जलाता है । कँवरा इस पद्य का बनाने वाला कुंवरपाल कवि । औ ( अरु )-और । मोष-मोक्ष । स्वश ( वश्य )-अधीन । सवै ( वसै )-निधान-खजाना ।

पृ० ४८—वरु-श्रेष्ठ । अहिवदन-सापकामुंह । परजारहि-जला देना । दारहि-चोरडालना । गहहि-ग्रहण करते है । चितवातुल-पागल, उन्मत्त । कृषिकार-किसान । भाने-नष्ट करता है ।

पृ० ४९—वरु-चाहे । सज्जन कला-सज्जनता के कार्य । सूजी

(सूजि)—सूजकर । जंपहि—कहता है । सलहन—श्लाघा, प्रशंसा ।  
विहंडहि—छोड़ता है । मंडहि—मांडता है ।

पृ० ५०—उमाहै—उत्साह करते हैं । सुधी विन (सुधी विनु )  
अच्छी बुद्धि के बिना ।

पृ० ५१—तोष—संतोष । वारहि—नष्ट करता है ।

पृ० ५२—दुरद—हाथी । मूलजग—मूलस्थान । सुमग—अच्छा  
मार्ग । उरग—सांप । मुद्रा करै—बंद करते हैं । करन सुभट—  
इन्द्रिय रूपी योद्धा ।

पृ० ५३—विभोको—विभव का । वूठै है—बोलते हैं । काठी—वष्ट ।

पृ० ५४—करोरी—तहवीलदार, करोड़पाति, रोकडिया । धोरी—  
अगुआ । अघोरी—घृणित—भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करने वाला ।

पृ० ५५—धूम—धूमना । तिसना दव—तृष्णा की आग । धूम की  
भाई—धुवां की मलिनता पोषित (पोषति) पोषण करती है । ताईं—  
समान । साईं—स्वामी-पति । नरवै—राजा । जोवै—देखे । निशाचर—  
चोर । हगओट—छिपकर । ठोवै—लेजाते हैं । जत्त—यत्त दामधनी—  
पैसे का मालिक ।

पृ० ५६—कमला—लक्ष्मी । कंज—कमल । चरन—चारित्र्य ।

पृ० ५७—अनघ—पापरहित । सोपान—सीढ़ी । सुपत्तहिं—सुपात्र ।  
दलमलहि—नष्ट करता है । गंजहि—दुःख देता है । निरादर करता है ।

पृ० ५८—रमा—लक्ष्मी । चश्चै (अरचै)—स्पर्श करता है ।  
मिताईं—भित्रता । परचै—परिचय ।

पृ० ५६—सप्तखेत-धन खरचने के सात क्षेत्र । वज्रधर-इन्द्र । मन्मथ-काम । दवज्वाला-माल-अग्नि की ज्वाला का समूह । संगहरन-परिग्रह का-हरण करने के लिए । संतमसुपुंज (संतमसपुज)-अन्ध-कारका समूह । लब्धि-अपने स्वरूप की प्राप्ति । विबुधि-विद्वान । मदन-कामवासना ।

पृ० ६०—गीरवाण-देव । भो-भव । दव आग-धनकी अग्नि । वरीसै-वरसै । खीसै-नष्ट हो । कुलाचल-हिमवान आदि कुल पर्वत ।

पृ० ६१—पेड-तना । ध्रुव-निश्चल । प्रवाल-कौपल । हुव-होती है । परतीत-श्रद्धा ।

पृ० ६२—अलख-परमात्मा । चेरी-चेली । करणभृग-इन्द्रियरूप हिरण । वागुरा-लगाम ।

पृ० ६३—गदा-एक हथियार जिसमें सिरे पर एक लट्टू रहता है । पौढी-पौढी हुई, पढी-हुई । तरी-नौका । वेशरी-खच्चर । विलायत की-दूसरे देश की । जोवना-देखना ।

पृ० ६४—धूर-धूल । जुर-बुखार । जुरांकुश-बुखार को दूर करनेवाली एक औषधि । अक्षगज-इन्द्रियरूपी हाथी । लोहफंद-लोहे का जाल । दाग-चिन्ह । भयभंजन ( भवभंजन )-भय को दूर करनेवाले । समीर-हवा । दिवाकर-सूरज । दवपावक-वनकी आग ।

पृ० ६५—यशः ( गुण )-कोर्ति । समाज-वैभव । रजकोप-मिट्टी का ढेर । मोष-मोक्ष ।

पृ० ६६—सो-इसी तरह । उपसर्पन-पूजा । सुपत्तहि-सुपात्रोंको । परमानहिं ( परमागम)-शास्त्र । प्रभुंजै-अनुभव करता है ।

पृ० ६७—सुपात्रहिं (सुपत्तह)-अच्छे पात्रों को । कुशल-पुण्य

पृ० ६८—कटक-कडा । कर-हाथ । करन-इंद्रिय । बहोरकै-  
इकट्ठाकर, लौटाकर ।

पृ० ६९—सीरो-शीतल । जोय-देख । अन्तर विपत्तं-भीतरी शत्रु काम क्रोधादि । विलक्ष-लज्जित । अक्षकदंब-इन्द्रियों का समूह । बम्ब-रणभेरी ।

पृ० ७०—पद ( पद ) । वादीमदभंजन ( वादिमदभजन )-  
वादियों के अभिमान को दूर करने वाला । विजयसेन ( विजयसिंह )  
हैं सुपुरुष ( होहिं सुरुख ) ( होहिं सुखी ) ।

### ज्ञान वावनी—

पृ० ७२—शब्द ( शब्द )-ध्वनि । विशद ( विहद )-निर्मल । शुद्धता स्वभाव लये-शुद्धस्वरूप की अपेक्षा । राय-राजा । चिदानंद-आत्मा । विभाव-विकार । लै ( ये )-लेकर । त्रिगुण-तीनरूप । नरलोक-दुनियां में । अनक्षर अग्र-अनक्षरात्मक । फिण्ड-शरीर । सैन में बतायो है-अनक्षरात्मक श्रुत का उदाहरण संकेत है । वावन वरण-अक्षरात्मकश्रुत ज्ञान ५२ अक्षरों द्वारा प्रकट होता है । सनिपात-संयोग अर्थात् ५२ वर्णों के संयोग से बने वाले असंख्यात संयोगी अक्षर होते हैं । तिन में ( तामें )-उनमें । महामंत्र गायत्री-णमो अरिहंताणं आदि अपराजित मंत्र ।

पृ० ७३—सारी-चौपड़ खेलने की गोटी । अमूल चूल-पर से माथे तक । मूलरस-प्रधान रस । गुणरूप ( गुरुरूप )-गुणात्मक । सुहातमा-अच्छी लगने वाला । जातमा-व्यक्तिरूप । घुन्धवाउ-पागलपन । रुखिया-द्वेष करनेवाला या उस ओर झुकने वाला । घुखिया-भौंका हुआ । अरण-बॉस ।

पृ० ७४—निदान-आगामी भोगों की वाछा । आनमान-पर पदार्थ का आदर । करसैं-खेंचता है । रांते-आसक्त होता है । सुन्निति-अच्छी भूमि । अरस-जिसमें रस नहीं है । रसन-जीभ । तुलें-लिप । गुनकसिया-गुणों का घात करने वाला । पसिया-स्पर्श करने वाला । परस-स्पर्श । दस-दशा । अट्टावीस लवधि-अट्टाईस मूलगुण । अगम की-जिसका पाना मुंश्कल है । सुगम-सरल ।

पृ० ७५—अमीकुंड पिंड-अमृत का कुंड अथवा अमृत का पिंड । दीखे ( देखे )-देखता है । कर-हाथ । नृपछत्रछांइ-गजा की छत्र छाया । ग्रामवास ( नेसवास )-ग्राम में रहना । मंगल अचड-तेज चलने वाला हाथी अथवा घोड़ा । खर-गधा । ऐसी ( ऐसो )-इस प्रकार । तासों ऐसी ( वाको वैसो ) । गरवाई-बडप्पन । पिहुलाई-प्रभुता । सघनाई-सघनता । नागर-चतुर, शिष्ट या नगरवासी ।

पृ० ७६—अनेरो-टेढा, खराब, निकम्मा । गरूरी-अभिमानी । सरजोर-बलवान, जवर्दस्त । बढैनाहिं मरजाद ( बढैं न मरयाद कछू ) । फैलकी-फैलने की । चित्रावेल-एक प्रकार की लता जो

मन चाहा फल देती है। आई ( वाइ ) । पंचन के परपंच-पांचों इन्द्रियों के उत्पात । बल भेदकी-बल को भेदन करने वाली । सहज स्वभाव-मोह सेना बल भेद की (सहज सुहाय-मोह सेन भई मंदकी) ।

पृ० ७७-उमग-उत्साह । अनन्द-आनन्द । बढै ( छूटे )-आगे बढ़ जाने पर । बधी कलबाजो पशुचाम ढोल मंढिये ( पर न विकास भयो भवदधि कढिये )-वे अपनी कलाबाजी को बांधते हैं और वे पशुके चमड़े से मंढे हुए ढोल की तरह हैं । छते-होने से । दीखे ( सेती )-दीखने से ।

पृ० ७८-कहर-आफत । पिण्ड-एक । विरमंड-सम्पूर्ण जगत । आन रे-हे भाई आश्रो । मिलत लोक-लोक इकट्ठे हो जाते हैं । एकतान-एकाग्र । स्वैरह्या-सो रहा है । च्वैरह्यो-चूरहा है ।

पृ० ७९-अगम ज्योति-आत्मज्योति । डोहै-अवगाहन करै । डोह्यो-अवगाहन किया । न उधरि है-उद्धार नहीं होता है । भवतरि है ( गुण भरि है ) । तलक-तक । बनारसीदास-(बनारसी ज्ञाता) । खलक-दुनियां । तुबक-छोटी तोप । सुबक-हलका । सुन्दर-कोमल । कलचम्पी-यन्त्र को दवाना । जानकी अर्थात्-जामगी, बन्दूक या तोप का पत्नीता । रजक-तोप या बन्दूक की प्याली में रखी जाने वाली तेज और थोड़ी सी बारूद ।

पृ० ८०-कुमक-सहायता । पक्षपात-तरफदारी । न्यानकी-ज्ञानकी । उरधवाट-उन्मार्ग, खोटा मार्ग । जो पै-जिसपर

अथवा यदि । सुषुमना ( सुषुमना )-नाडी तन्त्र का वह महत्त्वपूर्ण भाग जो मेरूदण्ड के भीतर रहता है ( Spinal Cord ), इस नाडी के प्रत्येक बाजू से ३१ नाडियां निकलती हैं जो शरीर के विभिन्नभागों में जाती हैं । इला-हठयोग की साधनभूत, सुषुमना के बाईं ओर स्थित स्वतन्त्र नाडी मंडल के कन्दों की पंक्ति । पिंगला-हठयोग से सम्बन्धित सुषुमना के दाहिना ओर स्थित स्वतन्त्रनाडी मंडल, के कन्दों की पंक्ति । सोज-समभक्त । षट्चक्रवेधी गण-शरीर के भीतर कुण्डलिनी के ऊपर के छः चक्र-आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, प्रजा । मनमथ (मनमथ)-कामदेव । धियागारी-बुद्धिमान । सारसुत-विद्वान् । मेधा-बुद्धि वैस-वयस, उम्र । भौरी ( फोरी )-धूमना ।

पृ० ८१—सेना चारि-चतुरङ्ग सेना । चौपर पसारी है (चौपर की सारी है) । धौसा-एक प्रकार का बाजा, नगारा, डका । खसि जायगो-खुस जायगा, चला जायगा । मुरे-मुझगये । उमाहवी-उत्साह पैदा होगया । सरहह-अवधि, सीमा । चोपकर-उत्साह करके आदि छतें-आदि से । सुरो-बहादुर ।

पृ० ८२—भाग उठें ( भाग कुण्ड ) । कुलकोड-शरीर के भेद का कारणभूत नोकर्म वर्गणा के भेद को कुल कहते हैं । इन कुलों की संख्या करोड से कम नहीं होती । मांभ-मे । विराने-दूसरे के । विहान-प्रातःकाल । अधर पधर-बिना सहारे के । पंच को भखायो-पाचों इन्द्रियों के वशीभूत । भ्रमघेतो-भ्रम ने घेर लिया । वंच-ठगना । द्रोह-हिंसा । परको पिंड-पर का सग्रह ।

पृ० ८३—परावर्त्त पूरणी—केवल पंच परावर्त्तन को पूरण करने वाला । मृगमद-कस्तूरी । नाभि-हिरण की नाभि । उपखानो-कहावत । तेरे एक ही ( जिन देवके ) । भूल्यो ( डूल्यो )-घूमता रहा । निगोद-साधारण वनस्पति एकेन्द्रिय जीव । हांकि आयो-उड़ल आया । अजहूँ तू-अजहूँन) । सीतवदा सीता-ये नदियों के नाम हैं ।

पृ० ८४—भै-डर । कालकूट-जहर । कहरी-आपत्ति का कारण । समाधि ( सुभाह ,-ध्यान । चहरी-चकल पहल । उदधि उधान-समुद्र का उठाव । उपल-पाषाण ।

पृ० ८५—थलका (थल को)-जमीन पर का । विमल (निर्मल) इविना-अवधि । अखंड ( विमल )-खण्ड रहित । मीढि देखी-सोचकर देखने से । मिध्याती ( अथिर ) । नरको वचन ( वचन रचन ) । शुद्धारथ ( सिद्धारथ ) । पटंतरो-( आनंतरो )-समान । कंक-ज्ञत्रिय, एक बडा आम । द्यौस-दिन ।

पृ० ८६—वानारसी संसार निवास (वदतवानारसी संसार ) । पामर वरण-हीनवर्ण । अगाज-अवक्तव्य । ताहि ( देखै )-उसे । घुंघची रकत-लाल चिरमी । रीरी-पीतल । पीरी-पीतल । वान-वर्ण-बानी । मुद्रा को मंडान-वाह्य भेष का धारण करना ।

पृ० ८७—धुन्ध धावहि-अज्ञान की ओर दौडता है । छतो-मौजूद । आहि-है । विवसाव-उद्यम । खोर-दूध । ताव-गर्भी । गुरुज्ञान ( गुणज्ञान ) । तूही ( तू भी ) । कहै ( मानै ) । सुखरथ-सुखदायक सवारी । रंगभूमि-नाट्यशाला ।



पृ० ८८—पोत-जहाज । तारिवेको ( तरिवेको ) । श्रतलंगर-शास्त्ररूपी लगर । लै भ्मारसी-(कौ डारसी) डालेगा । विजया-भांग । कंद वृन्द-कंदों का समूह । कसूंभो-लालरग । मिध्यासोफो-मिध्या मत । शीरनी-मिठाई । पच गोलक-स्कन्ध, अण्डर, आवास पुलवि और शरीर ये उत्तरोत्तर असंख्यातलोक असंख्यात लोक गुणित हैं । इनसे निगोदिया जीवों के शरीरों का परिमाण जाना जाता है । अम्वार-इकठ्ठा, ढेर ।

पृ० ८९—थोभ-अन्त । बडे वृन्द-बडे लोग । खलक-दुनिया ।

पृ० ९०—कौरपाल-कवि के साथी जो स्वयं एक अच्छे कवि थे । पीताम्बर-एक सज्जन साधमी भाई । विजैदशी-आसोज सुदी १० । उडुगन-नक्षत्र ।

### वेद निर्णय पञ्चासिका ।

पृ० ९१—अन्तर-बीच में । गुप्त-नष्ट होगये, लुप्त । मुवा है-मरगया है । उवा-उगा । मंडान-मंडप ।

पृ० ९२—यिति-स्थिति । जथा-यथार्थ । मथा-मथन किया है । नभ-आकाश । ध्रुव ( ध्रुव )-निश्चल ।

पृ० ९३—जुगम-दो । उगिला-उगल दिया है । धरनी-पृथिवी । करण त्रिवा-अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । श्रेणी धारा-क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी । दोषमुखी-गिरने वाली । मोख मुखी-ऊंचे चढने वाली है । पनविधि (पंचविधि)-पांच प्रकार का ।

पृ० ६४—निवेद-वैराग्य ।

पृ० ६५—सोम-चन्द्रमा । सुरसे-प्रेम सहित । सीरे-ठंडे ।  
अति-सत्र । रागद्वेष-(राग वैर) । पोरि-दरवाजा । परद्वार न  
( परदा न )-परदा नहीं है । कपाटिका-क़िवाड । वदनपीत-पीला  
मुंह ।

पृ० ६६—मुख जलप-मुंह से बोलना । अहमेवता-अहकार ।  
वरित्रीपति-राजा । वेवता-जानता । मरोरा-परिवर्तन ।

पृ० ६७—हरि हरि भांति-अहमिन्द्रों की तरह । नावजु  
( नाउं न ) ।

पृ० ६८—जग ( जिन ) ।

पृ० ६९—मृषामग-भूँठा मार्ग । कहात-कहावन ।

त्रेशठ शलाका पुरुषों की नामावली ।

पृ० १०१—त्रिपृष्टि ( त्रिविष्टि ) । जिन ( जित ) ।

पृ० १०२—नेमि नर ( नेमि जिन ) । जोरकर ( रैन दिन ) ।

पृ० १०३—त्रिपिप ( त्रिविष्टि ) ।

मार्गणा विधान ।

पृ० १०४—विभंगा अवधि-भूँठा अवधिज्ञान ।

पृ० १०५—इनरूप रसंग-इन रूप होकर । नटै-नाटक करता  
है । कारीसादाह-छाणे की आग की ज्वाला । वनदवदाह-वनाग्नि  
की ज्वाला ।

कर्म प्रकृति विधान ।

पृ० १०६—सुरति-होश ।

पृ० १०७—समतूल-वरावर । दुर्गन्धा-घृणा । पजावा-कुम्हार  
का हाव ।

पृ० ११०—आलाप ( आताप ) ।

पृ० ११३—नसमाहि ( तसमांहि ) । सेवट-असंप्राप्तसृपा-  
टिका संहनन ।

पृ० ११४—हरुई-हलका ।

पृ० ११५—जव ( जर ) । अमेय-अपरिमित ।

पृ० ११६—भाल महे-माथे में ।

पृ० ११७—जुई-जुदी । होवै ( पावै ) । फल ( कुल ) । वट-  
मार-लुटेरा ।

पृ० ११८—भोग ( जोग ) । चीन ( वीन ) ।

पृ० ११९—त्रिक ( त्रिय ) तीन । कहों ( करें ) ( करों ) ।

पृ० १२०—पंचसंगात ( पंच दस गात ) ।

पृ० १२२—चाक ( वाक ) ।

पृ० १२४—जंपों-कहताहूं । पोत-पुत्र ।

पृ० १२५—पटतर-उपमा-समानता । तुसार-वर्फ । टोहि-  
देखकर । धवै-जलाती है । विग्रह-लडाई और शरीर ।

पृ० १२६—नीलिया ( पीलिया ) एक रोग जिससे चीजें पीली  
दिखने लगती हैं । हेठ-नीचा । वोट-हंठल ।

पृ० १२७—देहिं ( देव ) देते हैं । विज्जु-विजली । दुस्तर  
( दुत्तर ) जो तैरा नहीं जा सके । भूलकंत ( मूकंत ) । मुंडमाल  
( रुड माल ) ।

पृ० १२८—सेये प्रभु तुमरे पाव ( सेवै तुमसे प्रभु पाय )

गल्ला-अनाज वगैरह । मोगर मल्ला-थोथा मोटा । वैसंधा-वालक ।  
 वल्ला-बडा । कल्ला-काला । नवल्ला-नया । फल्ला-फलवाला ।  
 जल्ला-जलने वाला । दुधा-दो प्रकार का । तुलदा-ताकडी । पल्ला-  
 पालडा । हरू वैतन-हलका । गुरु वैतसौ-भारी । थल्ला-स्थान ।  
 दुहु दिशिनो-दोनों ओर । चल्ला-चलायमान । जटल्ला-जटा ।  
 यरेरै-प्रेरणा पाये हुए । गल्ला-गलना ।

पृ० १३५—चहुधा-पानी, आग, पवन और पृथ्वी में ।  
 रल्ला-मिला हुआ है । मद मतवल्ला-मदोन्मत्त । दुहुवादी-  
 दोनों से । समल्ला-मल सहित । खलफल्ला-आकुलता । हल  
 भल्ला-समान भाव अथवा आकुलता दायक समझना । विथार-  
 विस्तार । वुल्ला-बुदबुदा । खल्ला ( थल्ला ), थल । अरहटहार-  
 अरहट के बडों की माला । भल्ला-अच्छा । वतनु-घर । तुसाडा-  
 तुम्हारा । रोह रुहल्ला-धक्का देना । दुरल्ला-दुर्लभ । चरल्ला-  
 चहल पहल । सहल्ला-सरल ।

पृ० १३६—प्रवल्ला-जबर्दस्त । विहंडिया-नाश कर दिया ।  
 दुहल्ला-तीव्रदुख । आगि अंगारे-आग्न के अंगारे में । तूल पहल्ला-  
 रुई का ढेर । सतगुरुदी-सतगुरु की । देशना-उपदेश । आस्रवदी-  
 आस्रव की । वाहि-रोकना । लद्धी-प्राप्त करली । मोखदी-मोक्षकी ।

### कर्म छत्तीसी

पृ० १३६—परमसमाधिगत-परम ध्यान को प्राप्त । अगम-  
 जहां जा नहीं सकते । अलोकनभ-अलोकाकाश ।

पृ० १३७—अभिधान-नाम । चरम दृष्टि-अतिम दृष्टि अर्थात् ज्ञान । जगम-चलने वाला । सीरो-ठंडा । हलका ( हरुवा ) ।

पृ० १३८—दुरै-दूर होती है । अकर-अकड़ । रोंस-रविश ।

पृ० १३९—भात-शिर । बकर-कूंदसी-बकरी के कूदने की तरह । मकर चांदनी-कमर राशि की चांदनी । वूढै-डूबता है । भेक-मडक ।

### ध्यान वृत्तीसी

पृ० १४०—निरुपाधि-रागद्वेष रहित । ब्रह्म समाधि-शुद्धात्मा का ध्यान ।

पृ० १४१—अलख-अदृश्य । जोवे-देखे । विलेच्छ-विलय करके ।

पृ० १४२—अग्रशोच-निदान । हिये-हृदय में । तरंगिनी-नदी सयाने-हे समझदार ।

पृ० १४३—छीजा-नष्ट हुआ । वेरा-समय । निवेरा-नाश । विपरीत ( विपरति )-व्युपरति-क्रिया-निवृत्ति नाम का चौथा शुक्ल ध्यान ।

### अध्यात्म वृत्तीसी

पृ० १४४—करषै-खींचता है । धाय-दौड़ कर । पावक-आग । यातै ( यातै ) भावकर्म-रागद्वेष । द्रव्य-ज्ञानावरणादि कर्मों का स्कंध । नो कर्म-शरीरादि । तन-शरीर । कारमन-कामाण । चमी-भूसा, तुष ।

पृ० १४५—ढरनि-उतार चढाव, घूम ।

पृ० १४६—वाट-मार्ग । उद्घाट-खुलना ।

### ज्ञान पच्चीसी

पृ० १४७—पवन ( पौन ) हवा ।

पृ० १४८—दाव-जंगल । उपाव कै-उपाय करके । गहि आने-पकड़ता है । साधि-वश में कर के । फेट सम्मिश्रण । वान-बानी वण । पर्व-पूर्णिमा । अथवा अमावस्वा । सर-सूरज । सोम-चंद्रमा ।

पृ० १४९—समोय-मोहित करके । अभ्यासते ( परगासते ) । बुद्धावत ( छुडावत )

### शिव पच्चीसी

पृ० १५०—जह ( जहं ) जहां । गह ( गच ) ग्रहण करने से । कुण्डली-सुपुमना नाडी के मूलाधार के निकट को एक कल्पित वस्तु । जलहरी-शिव मूर्ति के ऊपर टांगने का मिट्टी का सञ्चिद्र जल घट । उपाधि-परिग्रह, वाह्यवस्तु, धर्म चिन्तना । अव्यापि-सब जगह नहीं रहने वाले । निर्गुण रूप-सत्व रजतम से परे । सगुण स्वरूप-सत्वादि गुण सहित । अगम-ज्ञान का अविषय अथवा हहूँच के परे । पागै-सना हुआ । सिंगी-सींग का धाजा । बाघन्वर-बाघ का चमड़ा । सरवंगी-सर्वांग ।

पृ० १५१—पोहै-पोपण करते हैं। विभूति-राख। पंच वदन-पांच मुंह। अंधक हरण-अंधक का नाश करने वाले। त्रिपुर हरण-त्रिपुर नाम के राक्षस का नाश करने वाले। काम दहन-काम को जलाने वाले। कपूर गौर-कपूर के समान गौर वर्ण। जिह ठाव-जिस स्थान में।

### भव सिन्धु चतुर्दशी

पृ० १५२—सम्यकवंत को ( समकितवंत )। मालीमतहं ( मालमतहां ) ( मालिम तहां )। धुनि-शब्द।

पृ० १५३—वादवान-पाल। चहै (वहै)। गेहै (कटै) (घटै)।

### अध्यातम फाग

पृ० १५३ अघट-जो मिल नहीं सकता।

पृ० १५४—विषम-रागद्वेषात्मक। मयमंत-मदवाला। वाड-हवा। कुहर-कोहरा। दिवशशि-दिन का चांद। सुरति-अनुभव। हिमगिर-हिमालय। वितथ-भूठ।

पृ० १५५—चाचरि-नौकरानी। धमाल-कलाबाजी, होली का गीत। सीयलो-ठंडा। निरनीति-निर्णय। सुरत-अनुभव। तताई-तातापन। भस्मलेख-धूल की रेखा।

### सोलह तिथि

पृ० १५६—रसपागी-अनुभव से भरी हुई। दुहूधी (दहूंधा) दोनों प्रकार की। त्रिधा-तीन प्रकार। चारै-चार।

पृ० १५७—सिद्धि (रिद्धि)-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ऐशित्व और वाशित्व ये आठ सिद्धियां हैं।

तावै-तपावै । काठिया-राहगीरों को लूटने वाले ।

### तेरह काठिया

पृ० १५७—बटपारै-लूटै । बाट-रास्ता ।

पृ० १५८—कोह-क्रोध । विवसाव-उद्यम । आपन ( आपा )-  
खुदको । बटपार-लुटेरा ।

पृ० १५९—दुरमति-खोटी बुद्धि ।

### अध्यात्म गीत

पृ० १६० जउ-जो । उनहार-सूरत, समानता । पटतर-समान ।  
भोर-प्रातःकाल । गजगंजन-हाथी को डराने वाला ।

### पंच पद विधान

पृ० १६२—पंचकरन-पांचइन्द्रिय । उभाभय ( उवभाय )  
उपाध्याय ।

पृ० १६३—जस-जिसे । गौन-गौण अमुख्य ।

### सुमति के देव्यष्टोत्तरशतनाम

पृ० १६४—शोभावती ( सोभागवती ) ।

### शारदाष्टक

पृ० १६५—दुनेहरा-खोटी नीति को हरण करने वाली ।

पृ० १६६—सुधाताप ( मुधाताप ) । अस्वैवृक्षशाखा-आत्मवृक्ष  
की डाली । समाधान रूप-समस्याओं का हल करने वाली ।



पृ० १६७—निरका-कलंक रहित । मुदेका-प्रसन्न रहने वाली ।  
निरस्ता निदानी-निदान ( भोगों की बांछा ) नष्ट करने वाली ।

### नवदुर्गा विधान

पृ० १६८—गिरिश्रृंग-पहाड का शिखर । रासभ-गधा ।  
पृ० १६९—महिषासुर-एक राक्षस । अपरनी-अविवाहित ।  
पृ० १७०—अनुकषा-दया । राधै-भगवान की भावना  
करती है ।

### नाम निर्णय विधान

पृ० १७१—अलख-जिसे देख नहीं सकते । अलोक-भूँठा ।  
पृ० १७२—दंभ-पाखण्ड । तिहुंपन-वाल्म यौवन, और  
बुद्धावस्था । तुत्र-तुम्हारे ।

पृ० १७३—वरुणी-आँखों के आगे के षाल । गोलक-आँख का  
गोला । गंड-गालों के ऊपर का हिस्सा । श्रौन-कान । अधर-नीचे  
का ओठ । दशन-दांत । घटिका-गुट्टी, गले की हड्डी । चिबुक-ठोडी ।

### नवरत्न कवित्त

पृ० १७३—मिन्न-मिन्न । किञ्जय-कीजिए ।  
पृ० १७४—दिञ्जय-दीजिए । अनिय-लाइये । लघुपत-  
छोटापन । असन लालची-भोजन का लोलुपी । गद-रोग । तकि-  
त्ताक कर । चुकि-चूकने वाला । अखै-नहीं नष्ट होने वाली ।  
मसकती ( मसकरी ) ।

पृ० १७५—चर-गुप्तचर । विञ्जोरै-नष्ट करै । पिशुन कर्म-  
चुगली । गिलै-नष्ट करै । धर्म ( कर्म ) ।

पृ० १७६—लवन-लावण्य । घन-अत्यंत ।

### अष्टप्रकार जिन पूजन

पृ० १७६—पुष्पशर-पुष्प रूपी तीर ।

### दशदान विधान

पृ० १७७—भाषित रूप-भावमय । वछरा-गायका वछड़ा ।

पृ० १७८—पयाना-प्रयाण ।

### दशबोल

पृ० १७६ छठ्ठे दोहे के पहले “जिन धर्म” शीर्षक के नीचे यह दोहा और है । छटा दोहा “आगम” शीर्षक में समझना चाहिए ।

### जिन धर्म

जो पर तजि आपा भजै, जहां सुदिष्टि जुत कर्म ।

अशरण रूप अजोग पथ, सो कहिए जिनधर्म ॥

### पहैली

पृ० १८०—कंत-पति । अवाची-अवक्तव्य । साल-दुख ।

पृ० १८१—विरवा-वृत्त । उलहो-लहलहा रहा है । भकुलाई-हिलता है । उद्धत ( अद्धत ) । हौ-मैं । चेरी-दासी ।

### प्रश्नोत्तर दोहा

पृ० १८२—खांजत ( सोधत ) दुरिकै-दूररहकर । दुराव-छिपाव । पाहन-पाषाण ।

### प्रश्नोत्तर माला

पृ० १८२—एम-ऐसे । जेम-जैसे ।

पृ० १८३—तित्तिक्षा-सहनशीलता । मधुप-उद्धव । हरिपांहि-  
हरि के पास ।

पृ० १८४—अछोभी-चोभरहित ।

### अवस्थाष्टक

पृ० १८५—जंगम ( संजम )-चलने वाला ।

### दर्शनाष्टक

पृ० १८६—पाधढी-पादरी । दरवेश-संन्यासी । पूर्व कृत फल  
उदय ( पूर्व कृत कर्म उदय ) ।

### चातुर्वर्ग्य

पृ० १८७—भुजभार-बाहुबल वाला ।

### अजितनाथजी के छंद

पृ० १८७—गोथम-गोतम । गणहर-गणधर । पय-पद् ।

पृ० १८८—रायाजी-राजाजी । महियल-महान । राजिड-  
शोभित होते हैं । सय-शत । शिपैराबाद ( रिखैराबाद ) ।

### शातिनाथजिनस्तुति

पृ० १८९—वल्गम-पति । सहिए-सखी । कलधौत-सुवर्ण ।  
नागरि-श्रेष्ठ ।

पृ० १९०—जितमारं-काम देव को जीतने वाले । मदन मदेश-  
काम को वश में करने वाले । करवाल-तलवार । मरालं-हंस ।

पृ० १६१—हीर—हीरा ।

### नवसेना विधान

पृ० १६१—पत्ति-पयादा । कटक-छावनी ।

पृ० १६२—चमूदल-फौज । पायक-पयादे ।

### कलशों का भाषानुवाद

पृ० १६४—पंचम गति-मोक्ष ।

### फुटकर कविता

पृ० १६७—परधीन ( परधान ) । डोवनारसी-डुबोने वाला ।

पृ० १६८—दारी-व्यभिचारणी स्त्री । अशरमी-निर्लज्ज । फौल करे-पाखंड करते हैं । वाष-हवा ।

पृ० १६९—हमाल-हमाली करने वाला । नवनिज्ज-मक्खन ।

पृ० २००—उमही है-रहती है ।

पृ० २०१—शीसगर-शस्त्र बनाने वाला । काछी-जाति विशेष । कुंदीगर-कपडे पर कुंदी करने वाले । वारी-पत्तल बनाने वाला । राज-कारीगर, मकान बनाने वाला । सिकलीगर-श्रौजार के धार करने वाला । सत्ततुट्टहि-सडसठ । खिपानहु-क्षय करना । पैडी-प्रकृति ।

### गोरख नाथ के वचन

पृ० २०२—भग-योनि ।

पृ० २०३—कोमल पिण्ड-वच्चा । कठिन पिण्ड-जवान । जूना पिण्ड-पुराना शरीर ।

### वैद्य आदि के भेद

पृ० २०३—संक्रमण-राशिका बदलना ।

पृ० २०४—मुसल्ला-नमाज पढने की दरी ।

पृ० २०५—जैर ( जोर ) ( चोर )-जो ।

पृ० २०६—कुप्य-चांदी और सोने के अतिरिक्त सब कुछ ।  
पुरीस-टट्टी । सरीस-समान । छेरी-बकरी ।

### निमित्त उपादान के दोहे

पृ० २२१—उपादान—जो स्वयं कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कारण कहते हैं, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है ।

निमित्त—जो स्वयं कार्य रूप परिणत न हो किन्तु कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं, जैसे घड़े की उत्पत्ति में दण्ड, कुंभार, चाक आदि ।

पृ० २२३—पट पेखन—एक प्रकार का खेल । नहीं वेला ( जैसे छैला ) ।

पृ० २२५—वसन—कपडा । पानी—हाथ । चुरैल का पकवान—जिससे खूब खाने पर भी भूख न मिटे । खेटकी—शिकारी ।

पृ० २२६—पिंड—शरीर ।

पृ० २२७—रज—मिट्टी । न्यारिया—मिट्टी में से चाँदी सोने को शोधने वाला । भीलै—लवलीन होता है । मनकीलै—मन लगा देता है । भृंगी—भंवरा ।

पृ० २२८—पाइ—पैर । वालम—प्यारे । तुहुंतन—तेरा । गागरि—घडा । अंचरा—अंचला । गौ—गया । फहराय—उडकर । पेसिउ—प्रवेश किया । पेलि—पेलकरके । डगरिया—गली ।

पृ० २२९—पियरा—पियाका । गरुव—अभिमाना । सचीकन—चिकना । जागलि—जागेगी । जनि—मत अघोर—घोर । तोर—तेरा । मूसहि—चोरते हैं । सरवस—सबकुछ । कोल किरात—भील बगैरह । अहेर—शिकार । वनसावज—वन में रहने वाला । नचीत—निश्चिन्त । नटकीस—नाटक का पात्र । तोपि—छिपाकर ।

पृ० २३०—करवत-करोत । पास-नजदीक । पांचठग-पांच  
इन्द्रियां । धौरहर-मकान । वैर-देर । निकेतन-मकान । कतहु-  
कहीं भी । वाट-मार्ग ।

पृ० २३१—विरचि-उपेक्षा करके । संभार-संभाल । निखार-  
हटाना । लगार-जरा भी । छार-राख, मिट्टी । पखार-धोकर ।  
पाट को कीरा-रेशम का कीड़ा ।

पृ० २३२—बलि बलि-बलिहारी । राधारौन-राधा के रमण  
अर्थात् परमात्मा । वौनसौ-वमन से । लौन-सौदर्य । भौन सौ-  
मकान से । आवागौन-आना जाना । वेव-अनुभव करना

पृ० २३३—भेव-भेद । दिति-दैत्यों की माता । निकाछित-  
इच्छा का भाव । बलखत-रोता है । दरयाव-उदार ।

पृ० २३४—चोज-विशेषता ।

पृ० २३५—परचै-परिचय । भीमका-हाथी । करपै-खींचै ।

### परमारथ हिंडोलना

पृ० २३७—षटकील-छह स्थान पर कीलें । मरुवा-छेददार  
पत्थर जिसमें हिंडोला की रस्सी बांधी जाती है । पाटली-पटिया ।  
कर्म निरोधै-क्रिया को रोकता है ।

पृ० २३८—मूलन वेटा जाया-मूल नक्षत्र अर्थात् शुद्धोप योग ।  
सूधो-शुद्धोपयोग । उलफत-प्रेम ।

